

अनेकान्त भवन ग्रन्थसूची - 3

(अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान बीना में संकलित
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक
हस्तलिखित पाण्डुलिपियों की सूची)

~~संस्कृत-सम्पादक~~
डॉ. लक्ष्मीपति श्री 'अनेकान्त'

संस्थापक

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना

--: प्रकाशक :-

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान

बीना(सागर) म०प० 470113

फोन नं० :- (07580) 30279

प्रसंग - भगवान महावीर स्वामी की २६००वीं जन्म-जयंती, अहिंसा वर्ष

कृति - अनेकान्त भवन ग्रन्थरत्नावली भाग - ३

सम्पादक -

डॉ. संदीप जैन 'ऊरल'

संस्थापक-

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना

सम्प्रेरक-

स्व.डॉ. दरबारीलाल जी कोठिया, न्यायाचार्य, बीना

स्व. डॉ. कस्तूरचंद जी कासलीवाल, जयपुर

पाण्डुलिपि-विज्ञ पं. कुन्दनलाल जैन, दिल्ली

संस्करण - प्रथम

प्रतियाँ - 1000

विक्रम संवत् - 2058

वीर निर्वाण संवत् - 2528

ईस्वी सन् - 2001

मूल्य- अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान की यथायोग्य सदस्यता स्वीकार करना

-: प्रकाशक :-

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान

बीना (सागर) म०प्र० 470113

फोन नं० :- (07580) 30279

अक्षर -संयोजन - अनेकान्त कम्प्यूटर बीना, म०प्र०

सम्पादकीय

तीर्थंकरों की पवित्र वाणी गणधरों ने सुनी और उसे अपने शिष्यों को सुनाते रहे। इस प्रकार श्रुतानुश्रुत परम्परा से उनके दिव्य उपदेश अथवा जनों को ससन्नता का पाठ पढ़ाते रहे। श्रुत अर्थात् सुने गये, (उपदेश) स्मृति द्वारा नवीन पीढ़ी के लिए मौखिक रूप से ही प्राप्त होते रहे। काल बदला, स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी, तब युग-प्रधान आचार्यों ने उन छिन्न-भिन्न उपदेशों को लिपिबद्ध कर शास्त्रों का रूप दिया। यह तो श्रुत के प्रति अति अनुराग ही कहा जावेगा कि आचार्यों एवं मुनिराजों ने अपनी आत्मसाधना से समय निकालकर अनेक विधाओं में, अनेक भाषाओं में अध्यात्म, सिद्धान्त, आगम, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल, भूगोल आदि विषयक सहस्रों पाण्डुलिपियों का प्रणयन कर आगम संरक्षण, सम्वर्द्धन के क्षेत्र में महान योगदान दिया।

आज की भौतिकता एवं सर्व साधन-सुलभता की जिन्दगी में जीवन जीने वाले क्या उस समय की कल्पना कर सकेंगे कि जिस समय न प्रिंटिंग प्रेस थे और न फोटोकॉपी या कम्प्यूटर के साधन सुलभ थे, उस समय ताड़पत्र, भोजपत्र अथवा कागज के ऊपर ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करना-कराना कितना श्रम, समय एवं कष्ट साध्य कार्य रहा होगा। फिर भी जनकल्याण की भावना एवं जिनवाणी के प्रति अनुराग भाव से यह सब कार्य होता रहा। आर्ष-प्रणीत, आगम-ग्रन्थों की हजारों प्रतिलिपियां, प्रतिलिपिकारों एवं विद्वानों ने कीं और दानवीर श्रावकों ने शास्त्रभण्डारों में विराजमान करवाईं। सुधीमान, दानवीर श्रावक भी ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवाने में, मंदिरों में विराजित करने में, उन्हें शीत, दीमक आदि से बचाकर सुरक्षित करने में अपना पुण्य समझते थे। धीरे-धीरे समय बदला, श्रुत के प्रति उदासीनता आई तो शास्त्र भण्डारों में ताले पड़ गये। सैकड़ों ग्रन्थ चूहों और दीमकों के शिकार बन गये, संस्कृत-प्राकृत की सहस्रों पाण्डुलिपियों को नसमझी के कारण जल में प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार अपनी संस्कृति का विनाश होता रहा।

यत्र-तत्र विकीर्ण जैन पाण्डुलिपियों के संकलन-संरक्षण एवं सूचीकरण का कार्य बहुत ही समय, श्रम एवं अर्थ-साध्य कार्य है। इस क्षेत्र में कतिपय संस्थाओं ने समय-समय पर नगण्य कार्य किये हैं, फिर भी बहुत कार्य शेष हैं।

कुछ विद्वानों के अथक प्रयास स्वरूप दिग. जैन शास्त्र-भण्डारों के निम्नलिखित सूची ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं,

१. जिनरत्नकोष भाग-१

भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना

२-कन्नड़ प्रांतीय ताड़पत्रीय ग्रन्थ सूची भाग -१

संकलन- पं० के. भुजबल शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली १९४७

३. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सूची भाग १-५

डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल, दिग० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी(राज०)

४. दिल्ली जिनग्रन्थरत्नावली

संकलन - प्राचार्य कुन्दनलाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली १९८१

५. श्री जैनसिद्धान्त भवन ग्रन्थावली भाग १-२

सम्पादन- डॉ० ऋषभचन्द्र फौजदार, जैन सिद्धान्त भवन, आरा-१९८७

६. अमर ग्रन्थालय इन्दौर में संग्रहीत जैन पाण्डुलिपियों की सूची

सम्पादन- डॉ० अनुपम जैन, कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ इन्दौर

७. भट्टारकीय ग्रन्थ-भण्डार सूची, नागौर (राज०)

सम्पादन - डॉ. पी. सी. जैन,

ग्रन्थ सूचीकरण के माध्यम से अनेक अज्ञात एवं अचर्चित ग्रन्थ प्रकाश में आते हैं। शोधार्थियों एवं विद्वानों को एक ही स्थान से अनेक ग्रन्थों की जानकारी प्राप्त होती है। आज भी अनेक ग्रन्थ भण्डारों की सूचियाँ तैयार हैं, किन्तु अप्रकाशित हैं। दिल्ली के शास्त्र भण्डारों की सूचियों के संकलन का कार्य प्राचार्य पं० कुन्दनलाल जैन, दिल्ली, ने अथक पारिश्रम पूर्वक १९६१ से १९७५ के मध्य किया। दिल्ली जिन ग्रन्थरत्नावली भाग - १ का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली १९८१ में हुआ। शेष ७ भागों की सामग्री प्रकाशन की बाट जोह रही है। पं. जी इसके प्रकाशन के लिए अनेक वर्षों से प्रयास कर रहे थे किन्तु किसी भी संस्था ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं ली और अंततः निर्णय लिया

कि इस प्रकार के अमसाध्य, तिल-तिल खून सुखाने वाले, औख-फोड़ू काम कोई न करे। १८ अप्रैल २००० को प्राचार्य कुंजनलाल जी ने वह सम्पूर्ण सामग्री अनेकान्त ज्ञान मंदिर शोध संस्थान बीना को सुपुर्द कर दी है। उस सामग्री के सम्पादन एवं कम्प्यूटर में फीड करने का कार्य चल रहा है। हमारी यह योजना है कि योग्य साधन मिलने पर हम इन सूची-ग्रन्थों का प्रकाशन करें।

अनेकान्त ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म०प्र० में शास्त्रोद्धार शास्त्र सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत वर्ष के अनेक शास्त्र भण्डारों एवं जिनालयों से संकलित किए गए लगभग ७००० हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। सूची-प्रकाशन की श्रंखला में प्रथम चरण में श्रुतपंचमी- पर्व - २००० पर अनेकान्त भवन ग्रन्थरत्नावली १,२ का प्रकाशन किया गया था। प्रथम भाग में श्री सिद्धकूट चैत्यालय, सरस्वती भण्डार अजमेर (राज०) से प्राप्त कुल १२२१ ग्रन्थों का परिचय दिया गया था। द्वितीय भाग में शताधिक जिनालयों के शास्त्र भण्डारों से संकलित किए गए १४७० ग्रन्थों का परिचय दिया गया था।

अनेकान्त भवन ग्रन्थ रत्नावली १,२ के प्रकाशन के पश्चात् शताधिक विद्वत् मनीषियों ने अपनी समीक्षाएँ भेजकर इसके महत्त्व को प्रगट किया। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में रत्नावली की समीक्षाएं प्रकाशित की गईं। वर्ष २००१ में वर्षावास कर रहे साधु-संतों में भी रत्नावली को प्रेषित किया गया। अनेक साधु संघों ने इस महनीय कार्य की खुले हृदय से सराहना करते हुए वरद हस्त से आशीर्वाद प्रदान किया। सूची प्रकाशन होते ही अनेक विद्वानों एवं शोधार्थियों ने इसका समुचित उपयोग कर भण्डार के ग्रन्थों का सदुपयोग करना, छाया प्रतियाँ बुलवाकर सम्पादन, अनुवादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

सूची में ग्रन्थों का वैज्ञानिक ढंग से विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह विवरण निम्न १४ शीर्षकों में है-

१. क्रम संख्या
२. ग्रन्थांक संख्या
३. ग्रन्थ का नाम
४. ग्रन्थ लेखक का नाम
५. भाषा व लिपि
६. लिपिकाल
७. पत्र संख्या
८. आकार (लंबाई-चौड़ाई)
९. पत्र-पंक्ति-संख्या
१०. गद्य/पद्य
११. स्थिति/अवस्था
१२. पूर्ण/अपूर्ण
१३. ग्रन्थ प्राप्ति स्थल का नाम
१४. विशेष यदि उपलब्ध है तो

ग्रन्थों की स्थिति को निम्न चार शीर्षकों में विभाजित किया गया है।

शीर्षक

- ए- ग्रन्थ की वर्तमान स्थिति बहुत उत्तम, लेखन कला भी सुन्दर है।
- बी- ग्रन्थ की वर्तमान स्थिति ठीक है, लेखन कला मध्यम दर्जे की है।
- सी- ग्रन्थ का क्षरण प्रारम्भ हो गया है, लेखन कला भी संतोषप्रद नहीं है, ग्रन्थ पूर्ण नहीं है।
- डी- ग्रन्थ अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, पढ़ने की स्थिति में नहीं है।

ग्रन्थरत्नावली के सभी ग्रन्थों को सामान्य रूप से विवरण निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है -

ग्रन्थ विवरण

रत्नावली ग्रन्थ क्र० कहां से कहां तक

1. पुराण,	1 से 660 तक
2. धर्म, दर्शन, आचार	661 से 1727 तक
3. न्याय शास्त्र/व्याकरण कोष	1728 से 1850 तक
4. स्तोत्र एवं स्तुति संग्रह	1851 से 2224 तक
5. नाटक, विलास, वस, छन्दालंकार,	2225 से 2614 तक
6. ज्योतिष/वंश-मंत्र/आयुर्वेद	2615 से 2712 तक
7. पूजन, विधान	2713 से 3401 तक

भगवान महावीर स्वामी की २६०० वीं जन्म जयंती, अहिंसा वर्ष के अन्तर्गत अनेकान्त भवन ग्रन्थरत्नावली भाग- ३ का प्रकाशन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस सूचीकरण में कुल ३४०१ ग्रन्थों की सूची को सम्मिलित किया गया है। इस सूची में ४ परिशिष्ट भी दिए गए हैं। परिशिष्ट - १ में ज्ञान मंदिर में आगत ग्रन्थों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका, परिशिष्ट - २ में लेखकों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका, परिशिष्ट- ३ में ग्रन्थ प्राप्ति स्थलों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका में विवरण दिया गया है। अनेकान्त भवन ग्रन्थरत्नावली १,२ के प्रकाशन के पश्चात् अनेक विद्वानों ने गवेषणात्मक समीक्षाएँ भेजकर रत्नावली के महत्त्व को उजागर किया था। स्थानाभाव के कारण समीक्षाओं को प्रकाशित न कर केवल परिशिष्ट ४ में मात्र उन विद्वान समीक्षकों की नामावली की सूची दे रहे हैं। ग्रन्थ - सूची में ग्रन्थों की प्रशस्तियों को अभी नहीं दिया जा सका है किन्तु हम आश्वस्त करते हैं कि हम द्वितीय चरण में प्रमुख ग्रन्थों की प्रशस्तियों को भी स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर शोधार्थियों के लिए विपुल शोध सामग्री प्रस्तुत करेंगे।

अतः मैं उन महान आचार्यों एवं मुनिवरों के प्रति असीमित श्रद्धा से नमोस्तु निवेदन करता हूँ कि जिनकी महान कृतियों के सूचीकरण का कार्य किया है। उन महान जिनवाणी श्रुताराधकों के प्रति भी श्रद्धा से नम्रीभूत हूँ जिन्होंने पाण्डुलिपियों के क्षेत्र में पाण्डुलिपि संरक्षण, संकलन, सूचीकरण एवं सम्पादन का कार्य किया है।

अपने पूज्य गुरुवर श्री १०८ सरल सागर जी महाराज के पुनीत चरणों में नमोस्तु करता हूँ कि जिनके परम आशीर्वाद से यह कुछ कार्य कर सका हूँ।

“शास्त्रोद्धार शास्त्र सुरक्षा अभियान” २४ मार्च ६५ को प्रारम्भ किया गया था और तभी से पाण्डुलिपियों के संकलन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था। तभी से ग्रन्थ सूचीकरण के कार्य हेतु अनेक विद्वानों की प्रेरणाएँ भी मिलती रहीं। ग्रन्थ सूचीकरण का कार्य भी बहुत धैर्य एवं निष्ठा-साध्य होता है। मुझे इस कार्य में मेरे कुछ सहयोगियों ने भी हाथ बंटया है, उन सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ यह अनेकान्त भवनग्रन्थरत्नावली-३ को उन सभी श्रुतस्नेही, शोधार्थियों, मनीषियों, आगम अन्वेषकों को समर्पित करता हूँ, जिन्हें इसका सदुपयोग करना है। यदि इससे किसी की ज्ञानारधना में मेरी ज्ञानोपसना सहायक बन सकी तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मनीषीगण इस सूची को समीक्षात्मक दृष्टि से अवलोकन कर अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रेषित करें तथा ग्रन्थ-सूचीकरण के लाभों को भी दर्शा कर अनुग्रहीत करें। सूची में दर्शित किसी ग्रन्थ विशेष के सम्पादन एवं अनुवादन करने के इच्छुक/अभिलाषियों को समुचित सुविधाएँ/संसाधन/अनुकूलताएँ सुलभ करा कर यह संस्थान गौरवान्वित होगा।

महावीर निर्वाण महोत्सव

15/11/2001

जिनवाणी शिष्ट

ड. संदीप 'सरल'

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2942	अजितनाथ पुराण		हिन्दी / डी	1798
2	2908	अनंतव्रत कथा	भट्टा० पद्मनंदि	संस्कृत / डी	
3	5547	अनंतव्रत कथा	भट्टा० पद्मनंदि	संस्कृत / डी	
4	5661	अनंतव्रत कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
5	2549	अनंतव्रत कथा रास	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1823
6	2547	अनंत चतुर्दशी कथा	भट्टा० रत्नकीर्ति	संस्कृत / डी	
7	4947	अनंत चतुर्दशी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1917
8	5308	अनंत चतुर्दशी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1787
9	5372	अनंत चतुर्दशी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1965
10	6049	अनंत चतुर्दशी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
11	6077	अनंत चतुर्दशी कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
12	2895	अष्टान्हिका व्रत कथा		हिन्दी / डी	
13	2124	अनिरुद्ध हरण कथा	ब्र० जयसागर	हिन्दी / डी	1818
14	5163	अठारह नाते की कथा		हिन्दी / डी	
15	6178	अनिरुद्ध हरण कथा		हिन्दी / डी	
16	2129	आदिपुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
17	5801	आदिपुराण	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
18	5807	आदिपुराण	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
19	1539	आदिपुराण	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
20	1975	आदिपुराण	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1878
21	2928	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1877
22	3075	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
23	1515	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1909
24	1845	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1787
25	2943	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
26	3104	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
27	3325	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
28	3463	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
29	5450	आदिपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
30	2480	आकाश पंचमी कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	1789
31	6078	आकाश पंचमी कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
32	3005	आदित्य व्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1882
33	4953	आदित्य व्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1917

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
189	9.5x24	10	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
6	9x24	9	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
6	9x24	9	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
3	7x22	8	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
10	8x20	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
3	9x24	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
60-76	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
6	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	जीला	
3	12.5x16	12	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
65-67	18x15.5	20	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
200-204	25x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
25	6x23.5	6	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
48	8x12	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
1	8x22	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	9x23	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
350	8x26.5	10	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
180	14x17	19	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
27	23x12	21	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
346	10x25	11	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
191	10.5x22	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
627	10x25	10	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
418	12x29	14	पद्य	C	अपूर्ण	झांसी	
866	10.5x23	12	गद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
622	12x26	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
242-412	11x26	12	गद्य	C	अपूर्ण	आनंदपुर	
732	11x26	12	गद्य	C	पूर्ण	सारोला	
397	10.5x24	11	गद्य	C	पूर्ण	रजवास	
368	25x10	11	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुर्वा	
452	14x27	14	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
7	7.5x23	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
206-206	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
17	7.3x13	8	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
84-85	14x26	28	पद्य	B	अपूर्ण	फिरोजाबाद	

अनेकान्त कामांदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्वकर्म)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	2883	आदित्य बार बेल		हिन्दी / डी	1920
35	1794	इतवार कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1941
36	2344	उत्तरपुराण कवित्त	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1899
37	5586	उत्तरपुराण कवित्त	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
38	5471	उत्तरपुराण कवित्त	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1847
39	3354	उत्तरपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
40	5017	ऐतवार कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1961
41	5976	ऐतवार कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	
42	6343	करकण्डु कथा		संस्कृत / डी	
43	1870	करकण्डु चरित्र	भट्टा० जिनचंद्र	संस्कृत / डी	1611
44	2650	करकण्डु चरित्र	प्रभाचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	
45	4915	करकण्डु चरित्र सटीक		हिन्दी / डी	2028
46	2187	कथा-कोष	श्रुतसागर	संस्कृत / डी	1651
47	2531	कथा-कोष	श्रुतसागर	संस्कृत / डी	
48	2858	कथा-कोष	ब्र० नेमीदत्त	संस्कृत / डी	
49	1574	कथा-कोष	बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
50	2825	कथा-कोष	बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
51	2871	कथा-कोष संग्रह	बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
52	3107	कथा-कोष	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1642
53	5518	कथा-कोष	बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
54	6111	कथा-कोष	बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
55	3404	कथा-संग्रह		हिन्दी / डी	
56	5790	कथा-संग्रह		संस्कृत / डी	
57	5749	कुमारपाल चरित्र		संस्कृत / डी	
58	5265	कुलभूषण-देशभूषण केवलीकथा	मलूकचंद	हिन्दी / डी	
59	6089	कुलभूषण-देशभूषण केवलीकथा	मलूकचंद	हिन्दी / डी	1934
60	1783	कृपण जगावन कथा		हिन्दी / डी	
61	4791	गिरनार जी मार्ग कथा		हिन्दी / डी	1917
62	5322	गौतम चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	
63	3317	चन्द्रप्रभ पुराण	वीरनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
64	1874	चन्द्रप्रभ पुराण	यशकीर्ति भट्टारक	हिन्दी / डी	1921
65	2558	चम्पक श्रेष्ठी कथा	जिनकीर्ति	संस्कृत / डी	
66	1735	चारदान कथा		हिन्दी / डी	1945

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई)	पत्र संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	10x20	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5-24	7.3x12	9	पद्य	B	पूर्ण	रहली	
295	10.5x26	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
335	11.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
366	9x26	12	पद्य	C	पूर्ण	जानसट	
655	11x21	10	गद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
32	11x16	10	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
13	14.5x11	16	पद्य	C	पूर्ण	पड़ा	
13	8.5x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	कुल २०० श्लोक हैं।
218	7.5x18.5	6	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16	8x16	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
53	27x12	13	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
12	9x23	17	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
192	9x21	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
150	11x22.5	10	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
272	10x27	13	पद्य	A	पूर्ण	नई सराय	
60	14x25	16	पद्य	C	अपूर्ण	सोलापुर	
149	11x19	11	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
254	11.5x28	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
112	12.3x29	14	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
117	8x19	11	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
142	6x8.5	7	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
114	13x13	20	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
6-24	6x20	8	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
20	12x15	10	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
8	11.5x25	13	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
18	10x17	11	पद्य	C	पूर्ण	चांदपुर	
4	24x11	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
71	11.5x21	11	गद्य	C	पूर्ण	पुरवाल्यान	
104	7x19.5	10	पद्य	D	अपूर्ण	भानपुरा	
140	11.5x26	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	9x23	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
42	16x11	14	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	

अनेकावत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	2174	चारित्रसार	धर्मविजय	संस्कृत/डी	1868
68	3414	चारित्रसार	धर्मविजय	संस्कृत/डी	
69	3249	चारित्रसार	ठाकुरदास	हिन्दी/डी	1959
70	5326	चारुदत्त कथा	भारामल	हिन्दी/डी	1933
71	2649	चारुदत्त प्रबन्ध	ब्र० शिखरचन्द्र	हिन्दी/डी	1909
72	2798	चारुदत्त चरित्र	पं० भारामल	हिन्दी/डी	1983
73	3064	चारुदत्त चरित्र	पं० भारामल	हिन्दी/डी	
74	3236	चारुदत्त चरित्र	पं० भारामल	हिन्दी/डी	1902
75	4957	चारुदत्त चरित्र	पं० भारामल	हिन्दी/डी	1929
76	5202	चारुदत्त चरित्र		अपभ्रंश/डी	
77	2230	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1824
78	2416	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	
79	2429	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1819
80	3194	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1918
81	3199	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	
82	4921	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1937
83	5297	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1845
84	5321	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1732
85	5394	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1732
86	5395	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1973
87	6085	चेतन कर्म चरित्र	पं० भगवतीदास	हिन्दी/डी	1732
88	3447	जम्बूस्वामी कथा	पाण्डे जिनदास	हिन्दी/डी	1837
89	5988	जम्बूस्वामी कथा	पाण्डे जिनदास	हिन्दी/डी	
90	6068	जम्बूस्वामी कथा	पाण्डे जिनदास	हिन्दी/डी	1642
91	2283	जम्बूस्वामी चरित्र	ब्र० जिनदास	संस्कृत/डी	1691
92	2410	जम्बूस्वामी चरित्र	ब्र० जिनदास	संस्कृत/डी	
93	2811	जम्बूस्वामी चरित्र	भट्टा० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	1834
94	2857	जम्बूस्वामी चरित्र	भट्टा० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	1794
95	2960	जम्बूस्वामी चरित्र	भट्टा० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	
96	3073	जम्बूस्वामी चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	1921
97	5456	जम्बूस्वामी चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	1917
98	6295	जम्बूस्वामी चरित्र	पाण्डे जिनदास	हिन्दी/डी	1850
99	6298	जम्बूस्वामी चरित्र	पाण्डे जिनदास	हिन्दी/डी	1941

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
57	9.5x21.5	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
78	10x18	11	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
133	10.5x23	11	पद्य	A	पूर्ण	पारोल	
60	12x23.5	13	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
29	9x20	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
42	15x25	14	पद्य	C	पूर्ण	समसपुर	
31	10x28	12	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
86	11x16.3	12	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
104	23x15.9	9	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
29	9x21	9	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
22	9x19	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
7-51	8x27	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	9x21	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
188	10x13	14	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
29	16x6	16	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
14	26x14	13	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
33	8x11	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
13	26x13	26	पद्य	C	पूर्ण	पुरवाल्यान	
27	7.5x15.5	10	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
21	8x25	8	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
222-237	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
36	9x17.5	18	पद्य	C	पूर्ण	मिर्जापुर	
49	11x18.3	11	पद्य	C	पूर्ण	सुल्तानगंज	
133-150	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
110	9x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
123	10.5x23	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
56	8x23.5	10	पद्य	D	पूर्ण	सोलापुर	
	10x27	10	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
	11.5x21	11	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
30	10x25	11	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
78	15x27.5	17	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
35	10x9.5	14	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
31	11.5x15	14	पद्य	A	पूर्ण	नागपुर	

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	5348	जम्बूस्वामी चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी/डी	1979
101	2041	जयकुमार-सुलोचना चरित्र	भट्टा० कमलकीर्ति	संस्कृत/डी	1661
102	1505	जीबन्धर चरित्र	आ० वादीभसिंह	संस्कृत/डी	1810
103	2145	जीबन्धर चरित्र	आ० वादीभसिंह	संस्कृत/डी	1701
104	2175	जीबन्धर चरित्र	आ० वादीभसिंह	संस्कृत/डी	1615
105	1568	जीबन्धर चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	1835
106	1573	जीबन्धर चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	1908
107	2343	जीबन्धर चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	
108	3156	जीबन्धर चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	
109	3330	जीबन्धर चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	1900
110	2089	जीबन्धर चरित्र	खुशालचन्द्र कवि	हिन्दी/डी	1899
111	1876	जैनमार्तण्ड कर्मविपाक पुराण		हिन्दी/डी	1852
112	5648	ज्येष्ठ जिनवर कथा		संस्कृत/डी	1921
113	6205	त्रेसठ सलाका पुरुष		हिन्दी/डी	
114	6084	दशलक्षण कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत/डी	
115	2360	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	
116	2870	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1946
117	2940	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1963
118	2973	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1944
119	3419	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1937
120	4964	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	
121	5261	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	
122	5311	दर्शनकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1906
123	5396	दर्शनकथा	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	1908
124	6145	दर्शनकथा	नथमल बिलाला	हिन्दी/डी	
125	2866	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1946
126	2974	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1935
127	3197	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1937
128	3381	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1951
129	5160	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	1930
130	5178	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	
131	5224	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	
132	5234	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रन्थ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
67	15x29	14	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
80	10x24	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
101	12x22	14	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
75	9x23	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
33	10x22	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
119	10x23	11	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
155	9.5x23	11	पद्य	A	पूर्ण	नईसराय	
139	11x25	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
136	15x25	12	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
66	11x24	12	पद्य	A	पूर्ण	रायसेन	
38	8x19	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
144	8x26	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	8.5x21	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	7x12	6	पद्य	B	पूर्ण	पीपरा	
220-221	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
45	11x18	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
39	11x20	11	पद्य	C	पूर्ण	माढा	
29	11.5x18	14	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
27	19.5x11	25	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
37	10x20	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
30	24x13	14	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
45	17x11.5	15	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
38	8.5x20	10	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
30	8x25	8	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
16	14.5x11	13	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
25	10x21	12	पद्य	B	पूर्ण	माढा	
33	19x11	19	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
31	12.5x15	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
55	13x14.3	12	पद्य	C	पूर्ण	दमोह	
38	8.5x21	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
14	12x19	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
39	14x23	10	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
31	12x25	11	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133	5276	दानकथा	भारामल कवि	हिन्दी / डी	
134	1867	दृष्टांत शतक	कुसुमदेव	संस्कृत / डी	1760
135	1828	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	
136	1883	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1654
137	1889	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1672
138	2060	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1712
139	2162	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1638
140	2456	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1582
141	2555	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1678
142	2816	धन्यकुमार चरित्र	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	
143	2884	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	
144	2931	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	
145	3182	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	1947
146	3258	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	1963
147	5451	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	1935
148	5511	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	
149	2280	धन्यकुमार चरित्र	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	
150	5310	धन्यकुमार कथा	पं० खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	1934
151	6235	नागदमनी कथा	पं० चम्बेदास	हिन्दी / डी	1749
152	3043	नागदत्त पुराण		संस्कृत / डी	
153	1879	नागश्री कथा	ब्र० नेमीदत्त	संस्कृत / डी	1689
154	2151	नागश्री कथा	ब्र० नेमीदत्त	संस्कृत / डी	1732
155	2455	नागश्री कथा		हिन्दी / डी	
156	1542	नागकुमार चरित्र	नथमल बिलाला	हिन्दी / डी	1964
157	5476	नागकुमार	नथमल बिलाला	हिन्दी / डी	1830
158	3282	नागकुमार वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1977
159	1893	नागकुमार वच०	पं० हरगोविन्ददास	हिन्दी / डी	1957
160	2266	नागकुमार पंचमी कथा	मल्लिषेण सूरी	संस्कृत / डी	1585
161	2248	नागकुमार पंचमी कथा	ब्र० नेमीदत्त	हिन्दी / डी	
162	3155	निशिभोजनत्याग कथा	पं० भारामल	हिन्दी / डी	
163	3286	निशिभोजनत्याग कथा	पं० भारामल	हिन्दी / डी	1953
164	5270	निशिभोजनत्याग कथा	पं० भारामल	हिन्दी / डी	1966
165	6079	निर्दुःख सप्तमी कथा	ललितकीर्ति भट्टा०	संस्कृत / डी	

पुराण - चरित्र - कथा

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (से.मी. x से.मी.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	17.5x9	9	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
16	9x20		पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
40	7x23	9	पद्य	C	अपूर्ण	भुसावल	
37	10x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
39	9x23	11	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
36	9x22	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
19	10.5x24	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
41	10x25	12	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
44	7x23	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
38	12x20	13	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
37	11x25	25	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
61	9.5x19	10	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
50	13.5x20	12	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
44	12x21	13	पद्य	A	पूर्ण	पारोल	
34	13.5x26.5	14	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
41	11.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	बड़सूमा	
48	10.5x20	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
61	7x22	8	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
7	6x17.5	7	पद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	
345	8x21.5	11	पद्य/गद्य	D	पूर्ण	झांसी	
11	9.5x23	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16	9x20	12	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
9	8.5x22	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
97	12.5x22	13	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
114	11.3x15	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
88	11x22.3	11	पद्य	A	पूर्ण	मुहारीकलौं	अप्रकाशित
77	12x20.5	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
18	9x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
24	10x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
15	10x19	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
14	10x16	12	पद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौं	
16	13x16	13	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
207-208	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
166	5666	निर्दुःख सप्तमी कथा	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
167	1857	नेमीनाथ पुराण	ब्र० नेमीदत्त	हिन्दी / डी	1944
168	2036	नेमीनाथ पुराण	ब्र० नेमीदत्त	हिन्दी / डी	
169	2189	नेमीनाथ पुराण	ब्र० नेमीदत्त	हिन्दी / डी	
170	2396	नेमीनाथ पुराण	ब्र० नेमीदत्त	हिन्दी / डी	1753
171	3108	नेमीनाथ पुराण	ब्र० नेमीदत्त	हिन्दी / डी	
172	1813	नेमीनाथ पुराण वच०	पं० भागचन्द	हिन्दी / डी	1657
173	2803	नेमीनाथ पुराण वच०	पं० भागचन्द	हिन्दी / डी	1914
174	2862	नेमीनाथ पुराण वच०	पं० भागचन्द	हिन्दी / डी	1937
175	2921	नेमीनाथ पुराण वच०	पं० भागचन्द	हिन्दी / डी	1931
176	5038	नेमीनाथ पुराण वच०	पं० भागचन्द	हिन्दी / डी	1913
177	5113	नेमीनाथ पुराण वच०	पं० भागचन्द	हिन्दी / डी	
178	5697	नेमीनाथ चरित	स्वयम्भू	अपभ्रंश / डी	
179	1958	नेमीनाथ विवाह		हिन्दी / डी	1774
180	2488	नंदीश्वर अष्टान्हिका कथा		संस्कृत / डी	
181	2149	पदमनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1650
182	5166	पदमनाथ पुराण		संस्कृत / डी	
183	5407	पदमपुराण कवित्त	कवि खुशालचन्द्र	हिन्दी / डी	
184	5335	पदमपुराण कवित्त	" "	संस्कृत / डी	1924
185	1581	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	संस्कृत / डी	1908
186	1592	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	संस्कृत / डी	
187	1672	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	संस्कृत / डी	1939
188	1749	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	संस्कृत / डी	
189	1811	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1857
190	1817	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
191	1841	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1890
192	1854	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1931
193	1930	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
194	2353	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
195	2922	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1877
196	3032	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
197	3106	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1938
198	3223	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1879

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई: म.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	11x24.5	15	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
179	12x27	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
135	8x24	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
154	11x21.5	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
203	9.5x23	9	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
156	11x28	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
219	11x25	11	गद्य	C	पूर्ण	भुसावल	
187	9.5x23.5	12	गद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
206	9x28	9	गद्य	C	पूर्ण	माढा	
230	10x24	11	गद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
166	26x8	10	गद्य	B	पूर्ण	बांसी	
197	10x26	11	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
51-69	7x19	18	पद्य	C	अपूर्ण	टोड़ारायसिंह	
8	8x22	17	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	6.5x20	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
105	10x23	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
93	9x23	12	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
	10x25	10	पद्य	C	अपूर्ण	नई सराय	
213	14x24	15	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
868	11x23	12	गद्य	B	पूर्ण	नई सराय	
657	11.5x23	13	गद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
500	14x27	14	गद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
200	14x24.5	14	गद्य	D	अपूर्ण	सहजपुर	
746	11x23	13	गद्य	C	पूर्ण	नई सराय	
773	10x25	12	गद्य	C	पूर्ण	मड़ावरा	
403	9x22.5	9	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
312	12x29	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
308	10x25	10	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
304	11.5x29	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
627	10x25	10	गद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
643	13x25	14	गद्य	B	पूर्ण	पाटन	
556	11x25	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
656	9x25.5	11	गद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सामर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
199	3273	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1984
200	3281	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
201	3278	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
202	3322	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1891
203	3327	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
204	3353	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1856
205	3457	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1951
206	3468	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
207	3471	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
208	5181	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
209	5346	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
210	5452	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1893
211	5579	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
212	5835	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1926
213	5964	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
214	5994	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1945
215	6345	पदमपुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
216	1520	परधान चरित्र		हिन्दी / डी	
217	2064	पाण्डवपुराण	शुभचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1827
218	2170	पाण्डवपुराण	शुभचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1653
219	2221	पाण्डवपुराण	शुभचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	
220	5580	पाण्डवपुराण	शुभचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1834
221	1503	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1884
222	1844	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1877
223	1933	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1940
224	3066	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
225	3067	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1933
226	3114	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1981
227	3487	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
228	4965	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1925
229	4970	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1770
230	5228	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
231	5352	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
346	11.5x27	11	गद्य	A	पूर्ण	छोटी मुहारी	
730	14x27	14	गद्य	D	पूर्ण	छोटी मुहारी	
399	9.5x25.3	12	गद्य	C	पूर्ण	छोटी मुहारी	
333-650	11x26	13	गद्य	C	अपूर्ण	रजवांस	
332	11.5x25	14	गद्य	C	पूर्ण	रजवांस	
556	11.5x25	14	गद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
513	27x12	13	गद्य	B	पूर्ण	अकलूज	
310	25x10	11	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
244	30x11	11	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
26	13x22	12	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
398	16x28	18	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
466	15x27.5	15	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
613	11x26	13	गद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
743	11x25	12	गद्य	B	पूर्ण	कटनी	
759	11x25	10	गद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
403	12.5x25.5	15	गद्य	A	पूर्ण	सुल्तानगंज	
353	12x25	13	गद्य	C	पूर्ण	सिलवानी	
39	12x22	25	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
94	8.5x20	11	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
197	10x24	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
101	7.5x23	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
166	10x24	12	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
207	10.5x22.5	11	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
110	11x25.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
216	10x25	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
168	11.5x28	13	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
169	9.5x26.5	11	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
167	14x27	14	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
37	20x11	12	पद्य	C	पूर्ण	कैलगुवाँ	
316	25x13	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
159	23x9	13	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
60	12x24	11	पद्य	C	अपूर्ण	अजनास	
172	15x27	16	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
232	5462	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1922
233	5515	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1916
234	1561	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
235	2894	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1795
236	2912	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
237	3367	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1861
238	6344	पाण्डवपुराण	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1966
239	2158	पार्श्वनाथ चरित्र	भट्टा० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1811
240	2183	पार्श्वपुराण	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	1852
241	2698	पार्श्वपुराण	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	1666
242	3092	पार्श्वपुराण	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
243	1563	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1917
244	1613	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
245	1643	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1822
246	1806	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1853
247	1937	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1938
248	1961	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1789
249	2085	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1920
250	2238	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
251	2253	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
252	2719	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1789
253	2984	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1842
254	2999	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1920
255	3128	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1789
256	3246	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1789
257	3428	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1922
258	3792	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1912
259	5048	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1934
260	5049	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1922
261	5085	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1942
262	5301	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1946
263	5349	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1915
264	5420	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1915

पुराण - चरित्र - कथा

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
139	14x28	17	पद्य	A	पूर्ण	जानसट	
153	17x27	14	पद्य	B	पूर्ण	बड़सूमा	
198	10x22	10	पद्य	C	अपूर्ण	अशोकनगर	
9	9.5x27	10	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
	9x27	10	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
256	10x21	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
192	15x26	13	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
89	10x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
77	9x29	11	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
40	9x23	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
19-58	8x20	10	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
101	10x23	10	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
177	10x16	10	पद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
97	11.5x21	12	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
113	13x19	32	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
139	11x21	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
125	10x10	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
142	13x20	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
159	10x15	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
72	12x20	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
127	8x19.5	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
69	7x24	10	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
70	13x15	18	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
62	11.5x25	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
99	12x20.5	13	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
63	25x11	12	पद्य	C	पूर्ण	राजपुर	
110	23x10	12	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
81	27x10	11	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
88	24x10	11	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
122	18x12	11	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
110	9x25	9	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
45	14x27.5	16	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
87	8.5x25	10	पद्य	B	पूर्ण	मीरापुर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
265	5469	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1850
266	5512	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
267	5594	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1789
268	6092	पार्श्वपुराण	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1904
269	1591	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1938
270	1864	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
271	2324	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1931
272	2345	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1890
273	2925	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1930
274	3132	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1964
275	3226	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1861
276	3352	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
277	3398	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
278	3462	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1777
279	4919	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1707
280	4971	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1798
281	5047	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
282	5081	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1842
283	5404	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1882
284	5470	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1858
285	6094	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
286	5332	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1935
287	6341	पुण्याश्रवकथाकोष वच०	पं० दौलतराम	संस्कृत / डी	
288	6083	पुण्याश्रवकथाकोष	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
289	6081	पुष्पांजलिव्रत-कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
290	1926	पुष्पांजलिव्रत-कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1845
291	5177	पुष्पांजलिव्रत-कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
292	5365	पुष्पांजलिव्रत-कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1956
293	1533	पोथी (शील कथा)	कवि भारामल	हिन्दी / डी	
294	1628	पोथी (रविव्रत कथा)		हिन्दी / डी	
295	2779	पोथी (कथासंग्रह)		हिन्दी / सं. / डी	
296	5086	पोथी (कथासंग्रह)		हिन्दी / सं. / डी	1735
297	3313	पंचदण्डीकथा प्रबंध	ब्र० श्रीमान	संस्कृत / डी	1725

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लिनाईx चौड़ाईxC.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
76	10x22	13	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
69	12x27.3	12	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
125	10.5x20.5	15	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
61	14x20.5	17	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
135	13x28	15	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
290	14x21	15	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
291-443	13x20	15	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
324	12x25	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
292	12x23	14	गद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
289	15x27.5	15	गद्य	C	पूर्ण	सारोला	
263	11x23	13	गद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
632	10.5x21.5	10	गद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
260	12.5x21	11	गद्य	B	पूर्ण	रजवांस	
259	25x9	10	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
218	19x11	15	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
139-298	23x8	12	गद्य	B	अपूर्ण	फिरोजाबाद	
283	26x11	12	गद्य	C	पूर्ण	बबीना	
178	25x12	12	गद्य	B	अपूर्ण	बबीना	
96			गद्य	C	पूर्ण	कवाल	
158	10.5x24	11	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
245	10.3x27	13	गद्य	D	पूर्ण	पडा	
202	14.5x26	15	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
19	9.3x22.5	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
217-219	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
211-213	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
9	11x22	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	13x17.5	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
87	9x12	11	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
13	15x20	15	पद्य	C	अपूर्ण	अशोकनगर	
45	9x13	11	पद्य	D	पूर्ण	नई सराय	
209	10x17	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
115	11x19	21	गद्य/पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
45	8.5x23	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
298	2433	पंचमीव्रत कथा	भट्टा० नरेन्द्र सेन	संस्कृत / डी	
299	5673	पंचमीव्रत कथा	भट्टा० नरेन्द्र सेन	संस्कृत / डी	
300	5430	पंचमीव्रत कथा	भट्टा० नरेन्द्र सेन	संस्कृत / डी	1973
301	3060	प्रद्युम्न प्रबंध	भट्टा० देवेन्द्रकीर्ति	संस्कृत / डी	1791
302	2651	प्रद्युम्न प्रबंध	भट्टा० देवेन्द्रकीर्ति	संस्कृत / डी	1820
303	3303	प्रद्युम्न चरित्र	सोमप्रभ	संस्कृत / डी	
304	2098	प्रद्युम्न चरित्र	सोमप्रभ	संस्कृत / डी	
305	2190	प्रद्युम्न चरित्र	सोमप्रभ	संस्कृत / डी	1676
306	1836	प्रद्युम्न चरित्र		हिन्दी / डी	
307	3117	प्रद्युम्न चरित्र		हिन्दी / डी	1957
308	4991	प्रद्युम्न चरित्र	कवि सायार	हिन्दी / डी	
309	5320	प्रद्युम्न चरित्र		हिन्दी / डी	
310	5351	प्रद्युम्न चरित्र	पं० बूलचंद जैन	हिन्दी / डी	1847
311	5399	प्रद्युम्न चरित्र	पं० बूलचंद जैन	हिन्दी / डी	1945
312	5410	प्रद्युम्न चरित्र वच०	पं० मन्नालाल	हिन्दी / डी	
313	5498	प्रद्युम्न चरित्र	पं० बूलचंद जैन	हिन्दी / डी	1940
314	5963	प्रद्युम्न चरित्र वच०	पं० मन्नालाल	हिन्दी / डी	1916
315	5794	प्रद्युम्न चरित्र		हि. / संस्कृत	1834
316	2349	प्रद्युम्न चरित्र	सोमप्रभ	संस्कृत / डी	1531
317	2818	प्रद्युम्न चरित्र	पं० बूलचंद जैन	हिन्दी / डी	1925
318	5220	प्रद्युम्न चरित्र वच०	पं० मन्नालाल	हिन्दी / डी	1943
319	5324	प्रद्युम्न चरित्र वच०	पं० मन्नालाल	हिन्दी / डी	1945
320	6062	प्रद्युम्न कथा		संस्कृत / डी	1803
321	2500	प्रीतकर चरित्र		संस्कृत / डी	1898
322	6193	बुद्धिविषये-बुद्धि सागर दृष्टांत		संस्कृत / डी	1764
323	4966	ब्रह्मगुलाल मुनि चरित्र		हिन्दी / डी	
324	2693	भद्रबाहु चरित्र	भट्टा० रत्ननंदी	संस्कृत / डी	
325	1530	भद्रबाहु चरित्र	पं० चम्पाराम	हिन्दी / डी	1975
326	2293	भद्रबाहु चरित्र	पं० चम्पाराम	हिन्दी / डी	1925
327	2354	भद्रबाहु चरित्र वच०	पं० चम्पाराम	हिन्दी / डी	1909
328	1541	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1941
329	1544	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
330	1576	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1868

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई, म.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	8x21	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	11x19.5	9	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
5	16x12.3	15	पद्य	B	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
43	11x14	11	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
31	10x21	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
85	8x23	12	गद्य	C	अपूर्ण	फिरोजाबाद	
170	8.5x20.5	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
184	9x23.5	12	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
42	13.5x20	12	पद्य	C	पूर्ण	काण्डव	
201	12x20	15	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
136	10x11	10	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
42	13x26	15	पद्य	B	पूर्ण	पुरवाल्ल्यान	
54	12x24	13	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
48	11.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
40	13.5x25	11	गद्य	C	पूर्ण	कवाल	
57	11x23	11	पद्य	C	पूर्ण	जानसट	
347	26x11	12	गद्य	A	पूर्ण	पडा	
105	8.5x20	13	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
310	11.5x24	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
25	9.5x25.5	11	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
328	17x27	14	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
199	14x25	16	गद्य	B	पूर्ण	पुरवाल्ल्यान	
42-77	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
41	8x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	10x25	13	पद्य	B	पूर्ण	झालरापाटन	
24	28x15	14	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
23	8x21.5	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
48	12.5x15	12	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
71	12x16	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
57	11x18	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
101	15x27	16	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
83	11.5x26	12	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
159	10x22	12	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
331	1601	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
332	2282	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1843
333	2286	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1947
334	2301	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1964
335	2929	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1873
336	3000	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1938
337	3014	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1939
338	3026	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
339	3044	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
340	3245	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
341	3247	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1884
342	3272	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1892
343	3331	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
344	3442	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1747
345	3476	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1847
346	5040	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1897
347	6090	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
348	5583	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1925
349	2193	भक्तामर कथा चरित्र	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1878
350	5739	भविष्यदत्त चरित्र	धनपाल	अपभ्रंश / डी	
351	2741	भविष्यदत्त चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1811
352	3374	भविष्यदत्त चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1980
353	2917	भविष्यदत्त चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	
354	2532	मधुमालती कथा	कवि चतुर्भुज	हिन्दी / डी	1733
355	2671	मधुमालती कथा		हिन्दी / डी	1863
356	2006	मल्लिनाथ चरित्र	भट्टा० विजयकीर्ति	संस्कृत / डी	
357	2669	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
357A	1670	मल्लिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1694
358	2670	मल्लिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
359	2274	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1935
360	2318	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1933
361	2408	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1935
362	3185	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1828

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
183	11x24	12	पद्य	A	पूर्ण	केवलारी	
198	11x18	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
217	10.5x17	13	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
234	10x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
131	10x24	13	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
157	12x21	15	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
128	13x25.5	15	पद्य	D	पूर्ण	झांसी	
80	12x15	16	पद्य	D	अपूर्ण	झांसी	
173	9x25	11	पद्य	D	पूर्ण	माढ़ा	
241	11x17	11	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
256	9x23	10	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
197	10x25	11	पद्य	B	पूर्ण	छोटी मुहारी	
174	10x21.5	12	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
267	11x20	11	पद्य	C	पूर्ण	सनाई	
213	21x11	10	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुँवा	
199	25x11	11	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
26	13.5x21	12	गद्य	C	अपूर्ण	अजमेर	
191	10x22	11	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
162	10x24	11	पद्य	C	पूर्ण	भा.पुरा	
19	8x20	11	पद्य	C	अपूर्ण	टोड़ारायसिंह	
71	13.5x11.5	16	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
78	15.3x12	15	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
109	11.5x21	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
13-59	11x19	12	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	१२ पत्र नहीं हैं।
85	12.5x9	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
43	10x24	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
64	11.5x21	11	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
26	8x21.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
50	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
39	11.5x21	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
34	9.5x26	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
45	9.5x17.5	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
40	9.5x18	12	गद्य	B	पूर्ण	सरोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विष्णु संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
363	5067	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम जी	हिन्दी / डी	1918
364	5125	मल्लिनाथ पुराण वच०	पं० दौलतराम जी	हिन्दी / डी	1921
365	1838	महावीर चरित्र		हिन्दी / डी	
366	1939	महावीर पुराण	कवि असग	हिन्दी / डी	1897
367	2011	महावीर चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1904
368	5314	महावीर पुराण	अमीचंद श्रावक	हिन्दी / डी	1944
369	2694	महापुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
370	2877	महापुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
371	3314	महापुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
372	3058	महापुराण	जिनसेनाचार्य	कन्नड / डी	
373	4986	महापुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
374	1882	महापुराण कवित्त	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	1772
375	5640	महीपाल चरित्र वच०	मुनि चारित्रभूषण	संस्कृत / डी	1895
376	5397	महीपाल चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1943
377	5481	महीपाल चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1979
378	5806	महीपाल चरित्र वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1948
379	2578	मुक्तावलि कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
380	5684	मुक्तावलि कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1886
381	1902	यशोधर चरित्र	मुनि श्रुतसागर	संस्कृत / डी	1711
382	1979	यशोधर चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1699
383	1982	यशोधर चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1833
384	2095	यशोधर चरित्र	मुनि श्रुतसागर	संस्कृत / डी	1694
385	2123	यशोधर चरित्र	मुनि श्रुतसागर	संस्कृत / डी	
386	2213	यशोधर चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1821
387	2411	यशोधर चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1591
388	2813	यशोधर चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
389	1509	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	
390	1885	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	
391	2198	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	
392	2320	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	
393	2899	यशोधर चरित्र	भट्टा० धर्मभूषण	मराठी / डी	
394	3337	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	
395	3397	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	1965

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लाईx चौड़ाईx C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
42	20x10	11	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
40	10x20	11	गद्य	A	पूर्ण	बबीना	
	7x15.5	7	पद्य	D	अपूर्ण	काण्डव	
239	10.5x24	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
106	8x20	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
155	11x28	11	पद्य	A	पूर्ण	जौला	
53	8.53x17	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
	17.5x23	15	पद्य	B	अपूर्ण	माढ़ा	
284	7x20	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
330	19x28	23	पद्य	B	पूर्ण	जबलपुर	
37	20x10	11	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
15	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
48	11x18	13	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
100	8x24	8	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
72	12.3x16	13	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
91	12x20	10	गद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
5	7.5x14.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	13x21	11	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
44	10x24	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	8x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
55	13.5x11.5	16	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
70	15.3x12	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
67	11.5x21	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
58	10x20.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
33	8.5x19	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
12	9.5x26	11	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
48	12x20	13	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
53	9x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
302	11x16.5	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
207	8x24	9	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
20	10x25.5	11	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
70	9x23	8	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
51	13x20	13	पद्य	A	पूर्ण	नागपुर	

अनेकावत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
396	5482	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	1890
397	5778	यशोधर चरित्र	पं० लक्ष्मीदास	हिन्दी / डी	1913
398	6064	यशोधर कथा	विजयकीर्ति भट्टा०	संस्कृत / डी	
399	1718	रक्षाबंधन कथा	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1881
400	5429	रत्नत्रयव्रत कथा	ब्र० ज्ञानसागर	हिन्दी / डी	1975
401	6080	रत्नत्रयव्रत कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
402	6166	रविव्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1820
403	6291	रविव्रत कथा सचित्र	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1912
404	2728	रविव्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	
405	3006	रविव्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	
406	3241	रविव्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	1835
407	3390	रविव्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	
408	5753	रविव्रत कथा	पं० गंगादास	हिन्दी / डी	
409	2808	रत्नपाल चरित्र		संस्कृत / डी	1906
410	2406	रामपुराण	ब्र०जिनदास	हिन्दी / डी	
411	3456	रामपुराण	पं० खुशालचंद्र	हिन्दी / डी	1655
412	2391	रामपुराण	ब्र० जयसागर	हिन्दी / डी	
413	2954	रात्रिभोजनत्याग कथा	पं० किशनसिंह	हिन्दी / डी	
414	5345	रात्रिभोजनत्याग कथा	पं० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1913
415	5748	रात्रिभोजनत्याग कथा	पं० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1913
416	6037	रात्रिभोजनत्याग कथा		हिन्दी / डी	
417	2639	रोहिणीव्रत कथा		हिन्दी / डी	
418	5360	रोहिणीव्रत कथा		हिन्दी / डी	
419	6075	रोहिणीव्रत कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
420	6278	लुब्ध दत्त सेठ चौपाई		हिन्दी / डी	
421	2874	वर्द्धमान पुराण	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1949
422	1575	वर्द्धमान पुराण	असग कवि	हिन्दी / डी	1873
423	2678	वर्द्धमान पुराण	असग कवि	हिन्दी / डी	
424	3324	वर्द्धमान पुराण	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	1894
425	3351	वर्द्धमान पुराण	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	1930
426	3411	वर्द्धमान पुराण वच०	पं० केसरी संघ	हिन्दी / डी	1950
427	5334	वर्द्धमान पुराण वच०	पं० केसरी संघ	हिन्दी / डी	1973
428	6269	वर्द्धमान पुराण	कवि नवलशाह	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई x म.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
42	12x16	12	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
53	7x16	9	गद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
79-106	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
18	11x19	12	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
5	11x13	11	पद्य	B	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
209-210	24x12	25	पद्य	A	पूर्ण	बरकोटी	
16	15x24	13	पद्य	A(z)	पूर्ण	सिरोंज	
4	14x12	11	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
7	9.5x13	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
25	7x12	23	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
24	7x10	9	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
16	9x14	9	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
5	8x16	9	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
61	9x15	10	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
162	9x19	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
204	33x15	13	गद्य	B	पूर्ण	अकलूज	
99	9x21	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
23	16x14	12	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
30	7x20.5	9	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
31	7x19.5	9	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
18			गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9	11.5x9.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
46	11.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	पुष्पांजली कथा भी दी है
194-198	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
4	8x19	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
187	10x20	13	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
36	7x18	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
193	12x26	14	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
161	10.5x25.5	12	गद्य	C	पूर्ण	रजबाँस	
198	11x22	11	गद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
139	11.5x15	15	गद्य	B	पूर्ण	नागपुर	
154	13.5x27	14	गद्य	C	पूर्ण	कवाल	
68	8x22	8	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
429	5350	वर्द्धमान पुराण	असग कवि	हिन्दी/डी	1960
430	5354	वर्द्धमान पुराण वच०	पं० केसरी संघ	हिन्दी/डी	1973
431	6097	वर्द्धमान पुराण	असग कवि	हिन्दी/डी	
432	2005	वरांग चरित्र	भट्टा० वर्द्धमान	संस्कृत/डी	1653
433	1737	वरांग चरित्र	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	1871
434	3016	वरांग चरित्र	कवि बुधजन	हिन्दी/डी	1867
435	3048	वरांग चरित्र	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	1857
436	5438	वरांग चरित्र	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	1965
437	5625	वरांग चरित्र	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	
438	1987	विचार-कथा		हिन्दी/डी	
439	1945	विष्णुकुमार कथा	ब्र०जिनदास	हिन्दी/डी	
440	2045	विष्णुकुमार कथा	ब्र०जिनदास	हिन्दी/डी	
441	2562	विष्णुकुमार कथा		संस्कृत/डी	
442	1881	वीरभाण उदयभाण चरित्र		संस्कृत/डी	
443	1974	वृषभनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
444	2177	वृषभनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1754
445	2823	वृषभनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
446	2104	वृहद् कथा कोष	भट्टा० जशकीर्ति	संस्कृत/डी	
447	2697	व्रतकथा कोष	मुमुक्षु रामचंद्र	संस्कृत/डी	
448	5150	व्रतकथा कोष	मुमुक्षु रामचंद्र	संस्कृत/डी	
449	5598	व्रतकथा कोष	कवि खुशालचंद	हिन्दी/डी	1914
450	1860	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1856
451	1989	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1668
452	2039	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1631
453	2368	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1717
454	5152	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
455	2031	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
456	2546	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1663
457	1538	शांतिनाथ चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	1960
458	3123	शांतिनाथ चरित्र	कवि सेवाराम	हिन्दी/डी	1958
459	5137	शांतिनाथ चरित्र	कवि सेवाराम	हिन्दी/डी	
460	5337	शांतिनाथ चरित्र	कवि सेवाराम	हिन्दी/डी	1917
461	5453	शांतिनाथ चरित्र	कवि सेवाराम	हिन्दी/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (से.मी. x से.मी.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
114	15x28	16	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
154	13.5x27	14	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
304	8x22	8	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
74	10x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
57	10x21	14	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
60	9x26	12	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
87	10x24	12	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
100	11.5x21	12	पद्य	B	पूर्ण	बघरा	
22	11.5x20.5	12	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
14	10x22.5	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
10	9x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	9x25	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5	8x23	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
51	8x20	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
188	8.5x21.5	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
302	10x21.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
85	9x25	10	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
105	9.5x24	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	10.5x22	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
53	20x8	8	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
161	7x20	8	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
123	11.5x26	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
173	10x24	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
170	9x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
253	8x24	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
142	8x25	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
109	11x27	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
194	10x23	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
206	12x23	13	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
211	10x27.5	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
620	11x21	9	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
208	14x25	15	पद्य	A	पूर्ण	जौला	
104	14x25	15	पद्य	A	पूर्ण	जानसट	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सामर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
462	6236	शालिभद्र मुनि चरित्र	मतिसागर	हिन्दी/डी	1741
463	2117	शालिभद्र मुनि चरित्र	मतिसागर	हिन्दी/डी	1746
464	2195	शालिभद्र मुनि चरित्र	मतिसागर	हिन्दी/डी	1759
465	2517	शालिभद्र मुनि चरित्र	मतिसागर	हिन्दी/डी	1927
466	2793	शालिभद्र मुनि चरित्र	मतिसागर	हिन्दी/डी	1759
467	6123	शालिभद्र मुनि चरित्र	मतिसागर	हिन्दी/डी	1741
468	1603	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	
469	1799	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1938
470	2279	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1931
471	2312	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1928
472	2330	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1937
473	2752	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1915
474	2844	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1950
475	2875	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1947
476	3195	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1937
477	4992	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	
478	4999	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1920
479	5190	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	
480	5267	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1966
481	5304	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	
482	5312	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1933
483	5359	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	
484	5402	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1903
485	5403	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1903
486	5422	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	
487	5478	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1983
488	5506	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1935
489	5633	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1910
490	6091	शीलकथा	कवि भारामल	हिन्दी/डी	1955
491	5857	शील बत्तीसी		हिन्दी/डी	1639
492	6279	शूलभद्र रसबेलि		हिन्दी/डी	
493	1733	श्रीपालकथा		हिन्दी/डी	1849
494	3346	श्रीपालकथा	परिमल	हिन्दी/डी	1828

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई, स.म.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12-22	9x20	13	पद्य	C	अपूर्ण	मिर्जापुर	अप्रकाशित है।
18	8x20.5	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित है।
21	8.5x22.5	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित है।
14	9x21	18	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित है।
41	10.5x10.5	12	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित है।
8	13x21	23	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	अप्रकाशित है।
28	10x18	11	पद्य	B	पूर्ण	केवलारी	
42	12x20	12	पद्य	B	पूर्ण	सागर	स्वप्न बत्तीसी भी दी है।
43	10x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
29	10.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
31	11x19	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
151	10x15	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अन्य कथाएँ भी दी हैं।
34	12x20	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
34	11.5x21	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
36	12x14	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
43	10x15	9	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
34	18x9	10	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
20	13x22	12	पद्य	C	अपूर्ण	बबीना	
35	12x16	13	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
30	10x29	11	पद्य	C	पूर्ण	जौला	
45	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
29	11.5x26.5	12	पद्य	C	पूर्ण	कवाल	
30	9.5x27	11	पद्य	C	पूर्ण	कवाल	
35			पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
41	8.5x20.5	10	पद्य	A	पूर्ण	मीरापुर	
41	15.3x18	14	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
40	7.5x21.5	40	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
31	12x19.5	24	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
25	13.5x23.5	13	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
	10x11	12	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
20	20x8	29	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
106	10x16	10	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
111	8x21	12	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर ग्रोधसंस्थान, बीना (झागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विद्यमान संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
495	6065	श्रीपाल कथा		संस्कृत / डी	
496	1875	श्रीपाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1542
497	1997	श्रीपाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1683
498	2204	श्रीपाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1656
499	2217	श्रीपाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1682
500	5642	श्रीपाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1895
501	1517	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	
502	1519	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1949
503	1826	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	
504	1856	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1930
505	2210	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1904
506	2278	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1922
507	2376	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1672
508	2852	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1925
509	3124	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1927
510	3170	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1964
511	3213	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1896
512	3260	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1890
513	3298	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1931
514	4967	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1955
515	5108	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	
516	5128	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	
517	5141	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	
518	5243	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1965
519	5288	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1897
520	6296	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1850
521	5315	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	
522	5316	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1906
523	5636	श्रीपाल चरित्र	कवि परिमल	हिन्दी / डी	1865
524	5327	श्रुतपंचमी कथा	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
525	1502	श्रेणिक चरित्र	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
526	1681	श्रेणिक चरित्र	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1950
527	1858	श्रेणिक चरित्र	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1945

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
107-126	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
27	9x26	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
65	8.5x20.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	10x24	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
43	8x24	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
25	10.5x19	14	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
260	10x20	8	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
35	9x22	9	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
92	8x14	8	पद्य	C	पूर्ण	भुसावल	
112	11x25	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
52	7x18.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	10x24	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
113	6x19	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
110	9x25	9	पद्य	C	पूर्ण	माढा	
107	10x27	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
76	11x17.5	10	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
108	10.5x21	11	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
133	13x19	13	पद्य	C	पूर्ण	पारोल	
107	11x25.5	13	पद्य	C	पूर्ण	सेहराई	
103	26x13	13	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
107	12x22	13	पद्य	C	अपूर्ण	बबीना	
135	12x22	13	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
53	7x18	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
156	7x29	7	पद्य	A	पूर्ण	अजनास	
34	11x26	11	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
67	10x9.5	14	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
15	9.5x26	11	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
110	9.5x27	11	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
110	11x19	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
68	10x22.5	12	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
107	11x25	13	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
213	9x17.5	8	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
132	12x29	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
528	2380	श्रेणिक चरित्र	शुभचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	
529	3329	श्रेणिक चरित्र		हिन्दी / डी	
530	3460	श्रेणिक चरित्र		हिन्दी / डी	1922
531	5112	श्रेणिक चरित्र		हिन्दी / डी	
532	1610	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1929
533	1677	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1941
534	1986	सप्त व्यसन चरित्र	सोमकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1856
535	2341	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1930
536	2845	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1947
537	3027	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1815
538	3191	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1937
539	3221	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1954
540	5120	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	1921
541	5485	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	
542	5804	सप्त व्यसन चरित्र	कवि मनरंगलाल	हिन्दी / डी	
543	1966	समकित अष्टांग कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
544	3349	समकित अष्टांग कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1605
545	1884	सागर चक्रवर्ती आख्यान		संस्कृत / डी	1821
546	2493	सागर चक्रवर्ती आख्यान	ब्र० जयसागर	हिन्दी / डी	1921
547	2437	सम्यक्त्व कौमुदी कथा		संस्कृत / डी	1670
548	3068	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	यशकीर्ति	हिन्दी / डी	1933
549	5256	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	1927
550	5333	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	1945
551	5423	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	1896
552	5457	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	
553	5513	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	1761
554	5686	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	
555	5713	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	
556	5707	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	
557	5795	सम्यक्त्व कौमुदी कथा	पं० जोधराज गोधा	हिन्दी / डी	
558	1973	सुकुमाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1590
559	2383	सुकुमाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1647
560	2492	सुकुमाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई x उंचाई)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
128	9x23	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
103	13x23	15	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
168	25x10	10	पद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
124	12x28	14	पद्य	B	अपूर्ण	बबीना	
138	10x25	11	पद्य	A	पूर्ण	केवलारी	
94	12x27	14	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
71	9x14.5	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
112	11x26	12	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
107	12.5x26	14	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
199	9x17	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
110	10x25	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
105	11.5x29	13	पद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
126	11x27	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
102	12.5x20.5	16	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
101	11x23	11	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
59	9x16.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
56	8x21	12	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
53	9x21	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
21	8.5x20	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	9x15	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
210	9x25.5	11	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
78	13x19	12	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
48	11.5x24	12	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
60	12.5x16	16	पद्य	A	पूर्ण	मीरापुर	
50	12x23	14	पद्य	A	पूर्ण	जानसट	
41	14.5x25.5	16	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
144-146	8x24	9	पद्य	C	अपूर्ण	टोड़ारायसिंह	
13	10x24.5	12	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
76	9.8x22.5	9	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
143	7x23	9	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
58	9x20.5	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
66	9x21	11	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
41	9x24	14	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम सवत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
561	5140	सुकुमाल चरित्र	श्रीधर	अपभ्रंश / डी	
562	5525	सुकुमाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
563	5730	सुकुमाल चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
564	1760	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	
565	1777	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1873
566	1968	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	
567	2469	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	
568	3112	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	
569	3259	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1871
570	3365	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1970
571	5353	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1956
572	5447	सुकुमाल चरित्र	ब्र० पूरनचंद	हिन्दी / डी	1968
573	5467	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	
574	5965	सुकुमाल चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1952
575	2103	सुदर्शन चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1780
576	2573	सुदर्शन चरित्र	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1856
577	5717	सुदर्शन चरित्र	मुमुक्षु विद्यानंद	संस्कृत / डी	
578	1512	सुदर्शन चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1878
579	3059	सुदर्शन चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1925
580	5209	सुदर्शन चरित्र	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी / डी	1736
581	2543	सुगंधदशमी कथा	ब्र० जिनसागर	संस्कृत / डी	
582	6076	सुगंधदशमी कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
583	5386	सुगंधदशमी कथा	प० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
584	5431	सुगंधदशमी कथा	प० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1969
585	5483	सुगंधदशमी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1956
586	5490	सुगंधदशमी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
587	5501	सुगंधदशमी कथा	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1994
588	2526	सुरसुन्दरी आख्यान		हिन्दी / डी	
589	2881	सिद्धचक्र व्रत कथा		हिन्दी / डी	1947
590	1944	सीताचरित्र	हंसराज	हिन्दी / डी	
591	2211	सीताचरित्र	ब्र० जयसागर	हिन्दी / डी	1750
592	3175	सीताचरित्र	रामचन्द्र	हिन्दी / डी	
593	2477	सेठ मतिसागर चरित्र	ब्र० वर्द्धमान जी	संस्कृत / डी	1745

पुराण - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाईx चौड़ाईx M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
24	10x24	12	पद्य	C	अपूर्ण	बबीना	15 पत्र नहीं हैं।
47	9x24	11	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
16-18	8.5x19	8	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
11	11.5x9	13	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
110	8x16	9	पद्य	B	पूर्ण	चाँदपुर	
38	21x11.5	22	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
19	7x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
63	11x25	12	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
66	12x20.5	12	पद्य	A	पूर्ण	पारोल	
78	12x19	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
47	11.5x26	13	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
23	12x14.5	10	पद्य	B	पूर्ण	बघरा	
55	13x27	15	पद्य	C	अपूर्ण	जानसट	
66	11.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	पडा	
41	10x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
58	8x17.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
15	7.5x21	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
23	13x19	16	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
43	9x25	13	पद्य	B	पूर्ण	जबलपुर	
16	10x18	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
12	9x23	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
199-200	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
12	12.5x15	16	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
7	16x12.3	15	पद्य	B	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
11	16x14	14	पद्य	C	पूर्ण	जानसट	
12	15x12.3	16	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
9	15x13	16	पद्य	B	पूर्ण	महलका	
17	9.5x26	18	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
14	24x13	21	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
10	10x23.5	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
136	10x19.5	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
42	11x19	12	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
25	8x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
594	6082	सोलहकारण व्रत कथा	भट्टा० ललितकीर्ति	संस्कृत / डी	
595	1843	सोलहकारण व्रत कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1843
596	2586	सोलहकारण व्रत कथा	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1962
597	2207	हनुमान कथा	भट्टा० कमलकीर्ति	संस्कृत / डी	1669
598	2474	हनुमान चरित्र	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1575
599	3097	हनुमान चरित्र	ब्र० अजित	संस्कृत / डी	
600	3371	हनुमान चरित्र	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	
601	1580	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1938
601A	2766	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
602	1586	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
603	1600	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
604	1644	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1941
605	2327	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1940
606	2849	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1947
607	2873	हनुमान चरित्र	भट्ट० यशकीर्ति	हिन्दी / डी	1921
608	2933	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
609	3045	हनुमान चरित्र	भट्ट० यशकीर्ति	हिन्दी / डी	1926
610	3065	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1948
611	3172	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
612	3263	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1847
613	5371	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1949
614	5419	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1946
615	5647	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	
616	5309	हनुमान चरित्र	ब्र० रायमल	हिन्दी / डी	1822
617	1571	हरिवंश माहात्म्य	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1751
618	1985	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1594
619	2001	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1672
620	2051	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1710
621	2072	हरिवंश पुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
622	2169	हरिवंश पुराण	ब्र० नेमिनाथ	संस्कृत / डी	
623	2403	हरिवंश पुराण	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
624	5054	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1832
625	5578	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1854

पुष्प - चरित्र - कथा
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई cm.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
214-216	24x12	25	पद्य	B	अपूर्ण	बरकोटी	
6	10.5x21.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	9.5x14	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
32	11x24	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
55	9x19	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
44-91	8x24	10	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	प्रारम्भ के 40 पत्र नहीं हैं
100	20x12	22	पद्य	B	पूर्ण	सिलवानी	
50	11x23	12	पद्य	C	पूर्ण	नई सराय	
75	7x12	9	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
34	12x23	14	पद्य	A	पूर्ण	नई सराय	
39	13x19	16	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
57	11x19	12	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
59	10.5x17.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
56	10x19	11	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
140	9x19.5	10	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
42	12x20	13	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
111	8.5x25	11	पद्य	D	पूर्ण	माढ़ा	
44	10.5x20	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
45	10x19.5	12	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
74	8x19	9	पद्य	C	पूर्ण	पारोल	
67	14.5x9	17	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
35	12.3x25	13	पद्य	B	पूर्ण	मीरापुर	
122	10x15	12	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
49	7.5x23	10	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
287	7.5x20	11	पद्य	A	पूर्ण	नई सराय	
317	10x23.5		पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
397	8x23	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
321	13x24	5	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
299	9.5x25	11	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
270	8x20	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
41	9.5x24	13	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
311	27x10	11	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
206	10x25	13	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
626	5791	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	
627	6133	हरिवंश पुराण	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	
628	1536	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
629	1584	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1829
630	1669	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
631	1620	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
632	1761	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
633	2249	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
634	2923	हरिवंश पुराण	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1877
635	5046	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1855
636	5466	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
637	5508	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	
638	5597	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1845
639	5599	हरिवंश पुराण	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1835
640	1537	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1942
641	1815	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1941
642	2348	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
643	3013	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
644	3118	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
645	3279	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1947
646	3321	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1883
647	3366	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
648	3467	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1849
649	5039	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1896
650	5082	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
651	5116	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1909
652	5338	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1963
653	5344	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1847
654	5834	हरिवंश पुराण वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1914
655	5674	हरिषेण चक्रवर्ती कथा	विद्यानंदि	संस्कृत / डी	
656	1910	होलिका चरित्र	पं० जिनदास	हिन्दी / डी	
657	2471	होलिका चरित्र	पं० जिनदास	हिन्दी / डी	
658	2448	होलिका चरित्र	पं० जिनदास	हिन्दी / डी	
659	2672	होलिका चरित्र	पं० जिनदास	हिन्दी / डी	
660	2673	होलिका चरित्र	पं० जिनदास	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाईxचौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
370	8x25	11	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
	15x26	14	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
137	11x21	13	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
481	14x27	15	गद्य	A	पूर्ण	नई सराय	
36	11.5x26.5	10	पद्य	C	अपूर्ण	पटनागंज	
176	12x22	15	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
310	10x24	11	गद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
211	9x23.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
227	10x24	12	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
116	26x10	12	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
485	9.5x25	13	गद्य	C	पूर्ण	जानसट	
70	10.3x22	12	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
215			पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
276	11x20	11	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
318	12x28	14	गद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
600	13x21	16	गद्य	B	पूर्ण	भुसावल	
516	10x26	12	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
482	10x25	12	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
455	12x23	14	गद्य	C	पूर्ण	सारोला	
421	14x28	14	गद्य	B	पूर्ण	छोटी मुहारी	
495	12x22.5	14	गद्य	C	पूर्ण	रजवांस	
634	10.5x23	12	गद्य	D	पूर्ण	सारोला	
262-522	28x12	12	गद्य	C	अपूर्ण	कैलगुवाँ	
656	25x11	11	गद्य	B	पूर्ण	बांसी	
	25x12	12	गद्य	C	अपूर्ण	बबीना	
304-552	10x26	10	गद्य	C	अपूर्ण	बबीना	
574	13.5x29	13	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
427	5.5x20	8	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
538	11x25	12	गद्य	B	पूर्ण	कटनी	
5	9x23		पद्य	D	अपूर्ण	टोड़ारायसिंह	
32	9x25	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	8x19.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
53	7x20	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	11.5x19	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	11x18.5	14	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर ग्रोथ संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
661	6349	अनुभव प्रकाश	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	
662	1909	अनुभव प्रकाश	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1929
663	6179	अनुभव प्रकाश	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1970
664	1922	अनादि बत्तीसी		हिन्दी/डी	
665	2219	अनगार धर्माभृत	पं० आशाधर	संस्कृत/डी	1556
666	3069	अमितगति श्रावकाचार	अमितगति आचार्य	संस्कृत/डी	
667	3270	अमितगति श्रावकाचार टीका		हिन्दी/डी	1968
668	1906	अध्यात्म कल्पद्रुम	मुनि सुन्दर सूरी	हिन्दी/डी	1851
669	2901	अध्यात्म तरंगणि	सोमदेव सूरी	हिन्दी/डी	1609
670	6317	अध्यात्म फाग	कवि बनारसीदास	हिन्दी/डी	
671	1940	अध्यात्म बारहखड़ी		हिन्दी/डी	
672	4985	अध्यात्म बिन्दु विवरण	हर्षवर्धन	संस्कृत/डी	
673	6333	अध्यात्म प्रदीप		संस्कृत/डी	1963
674	5770	अभक्ष्य वर्णनादि		प्रा०/संस्कृत/डी	
675	2601	अष्ट पाहुड़	आचार्य कुन्दकुन्द	प्राकृत/डी	1917
676	2723	अष्ट पाहुड़ आदि	आचार्य कुन्दकुन्द	प्राकृत/डी	
677	1562	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1890
678	2258	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1920
679	3297	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1906
680	3342	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1905
681	3464	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1967
682	5043	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1921
683	5293	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	
684	5510	अष्ट पाहुड़ वच०	पं० जयचंदजी छावड़ा	हिन्दी/डी	1918
685	2092	अष्ट कर्म प्रकृति		हिन्दी/डी	
686	5357	अर्थ प्रकाशिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1953
687	5416	अर्थ प्रकाशिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1944
688	5695	अष्टभाषास्तव अवचूर्णि	अमरकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
689	6336	आत्मानुशासन	गुणभद्राचार्य	संस्कृत/डी	
690	1685	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1943
691	1655	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1943
692	2310	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1912
693	3151	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
48	71x19	12	पद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	
50	10x22	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
111	11x12	11	पद्य	A	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
3	9x22.5	8	पद्य	C	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
85	10x24	9	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
210	9.5x25	11	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
220	11x27	11	पद्य/गद्य	A	पूर्ण	छोटी मुहारी	
16	8.5x20	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
13	8.5x20	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
95	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
127	11.5x26	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
19	21x8	15	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
18	9.5x19.5	15	पद्य	A	अपूर्ण	माढ़ा	
10	12x17	13	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
18	6.5x15	7	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
119	12x12	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
109	12x28	15	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
174	10.5x25	14	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
260	11x25	12	गद्य	A	पूर्ण	खिरकिट	
221	11.5x18	17	गद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
243	26x10	10	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
201	27x11	12	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
194	10x26	12	गद्य	A	पूर्ण	अजनास	
192	10.5x29	11	गद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
7	9x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
140	15x28	16	गद्य	A	पूर्ण	जौला	
363	13x13.5	13	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
4	9x21.5	13	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
10	10x23	12	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
116	15x21.5	18	गद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
134	9x21.5	9	गद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
134	9.5x24	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
129	13x20	14	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विद्यमान संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
694	3218	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1863
695	3458	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	
696	3472	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1858
697	4917	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	
698	5119	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1890
699	5240	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1954
700	5323	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1945
701	5346A	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1921
702	5581	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1898
703	5800	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1832
704	5962	आत्मानुशासन वच०	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	1953
705	1658	आत्मसद्बोध भावना	आचार्य सूर्यसागर	हिन्दी/डी	
706	1905	आठ कर्मप्रकृति	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी/डी	
707	2703	आठ कर्मप्रकृति	ब्र० गोकुलदास	हिन्दी/डी	
708	2066	आलाप पद्धति	आ० देवसेन	संस्कृत/डी	
709	3031	आलाप पद्धति	आ० देवसेन	संस्कृत/डी	
710	4977	आलाप पद्धति	आ० देवसेन	संस्कृत/डी	1958
711	2690	आलोचना सूत्र	आ० पद्मनंदी	प्राकृत/डी	
712	4891	आलोचना सूत्र	आ० पद्मनंदी	प्राकृत/डी	
713	5741	आलोचना सूत्र	आ० पद्मनंदी	हिन्दी/डी	
714	5847	आलोचना कल्प		संस्कृत/डी	
715	6054	आलोचना पाठ	पं० जौहरीलाल	हिन्दी/डी	
716	6273	आराधनासार सटीक	देवसेनाचार्य	संस्कृत/डी	
717	2218	आराधनासार	देवसेनाचार्य	प्राकृत/डी	
718	2642	आराधनासार	देवसेनाचार्य	प्राकृत/डी	
719	5942	आराधनासार	देवसेनाचार्य	प्राकृत/डी	
720	2854	आराधनासार वच०	पं० पन्नलाल चौधरी	हिन्दी/डी	
721	1886	आराधनासार-प्रतिबोधसार	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
722	2695	आराधनासार-प्रतिबोधसार	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत/डी	
723	2983	आत्मावलोकन	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1804
724	2987	आत्मावलोकन	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1803
725	5241	आचारसार वच०	पं० पन्नलाल चौधरी	हिन्दी/डी	1934
726	3085	आनंद श्रावक संधि		हिन्दी/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
158	9x22	11	गद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
103	26x10	11	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
136	27x11	10	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
71	22x10	11	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
135	10x25	9	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
175	10x25	9	गद्य	A	पूर्ण	अजनास	
90	15x26	15	गद्य	B	पूर्ण	पुरवालथान	
102	15x29	14	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
106	10x25	13	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
122	9.5x17	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
124	10x23	11	गद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
150	13.5x14	14	गद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
9	9x22	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
7	9x20	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	12x22	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	6.5x7	7	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
12	17x8	9	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
8	7x23	8	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
48-56	9x9	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
1	9x21	14	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	12x18.3	13	पद्य	A	पूर्ण	कोठिया प०बीना	
4	11.5x14.5	13	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
3-18	9x22	14	गद्य	B	अपूर्ण	भानपुरा	प्रारम्भ के २ पत्र नहीं हैं।
101	9x25	10	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	7x20	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
54	7x24	6	गद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
2	10x23	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
15	8x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
93	9x22	12	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
61	8x21	11	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
249	8x26	7	गद्य	A	पूर्ण	सिवनी मालवा	
9	8x20.5	15	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
727	6021	आदिनाथ स्वामी के भवांतर		हिन्दी/डी	
728	5849	आत्म प्रबोध	कुमार कवि/	हिन्दी/डी	
729	5746	आगम सारोद्धार	श्री देवचंद	हिन्दी/डी	1870
730	5727	आर्य वसुधारा	श्री विजयदेवेश्वर सूरी	प्राकृत/डी	1753
731	3310	इष्टोपदेश सटीक	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	
732	5671	इष्टोपदेश सटीक	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	
733	5939	इष्टोपदेश सटीक	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	
734	3115	इष्टोपदेश सटीक	आ० पूज्यपाद स्वामी/दामोदर दास	हिन्दी/डी	1921
735	4838	इष्ट छत्तीसी		हिन्दी/डी	
736	4882	इष्ट छत्तीसी		हिन्दी/डी	
737	2914	उपासकाचार	राजकीर्ति	संस्कृत/डी	
738	5200	उपासकाचार	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	
739	5696	उपदेश देशना		संस्कृत/डी	
740	2679	उपदेश पंचाशक	ब्र० जिनदास	हिन्दी/डी	1924
741	1903	उपासकाध्ययन	पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	1964
742	2550	उपासकाध्ययन	पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	
743	2148	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	1957
744	2157	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	1691
745	2225	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	
746	2331	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	1915
747	2333	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	
748	6152	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	
749	2461	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	
750	2913	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला	सकलभूषण आचार्य	संस्कृत/डी	
751	5179	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	
752	1525	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	
753	6190	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	1966
754	2822	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	
755	2848	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	1947
756	2850	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	1948
757	2959	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	
758	3190	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	1947
759	3288	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	1983

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
80-84	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	कोठिया प०बीना	
20	12x18.3	13	पद्य	B	पूर्ण	कोठिया प०बीना	
16	10x19	18	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
3	9.3x21	17	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
5	6x20	8	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
6	9.5x22	11	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
197-203	11.5x8.5	15	पद्य	C	अपूर्ण	टोड़ारायसिंह	
126	11.5x26	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
78-79	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
162-166	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
137	9x23	13	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
17	9x22	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
5	8.5x23.5	13	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
9	11x16	14	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
28	9x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7	7.5x19	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
103	10x24	12	गद्य/पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
91	9.5x24.5	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
132	10x25	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
37	11x18	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
48	11x23	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
23	8x20	11	पद्य	B(z)	पूर्ण	आक्सफोर्ड	
30	9.5x22.5	13	पद्य	B(z)	पूर्ण	आक्सफोर्ड	
	9x26	10	गद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
33	12x20	12	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
33	12.5x19	14	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
32	15x19	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
80	9.5x27	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
41	11x20	12	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
41	11x21	12	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
23	13.5x25	16	गद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
50	14.5x19	12	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
44	12x16	12	गद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौं	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (झारखण्ड) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
760	3350	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद्र	हिन्दी / डी	
761	6263	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वच०	पं० भागचंद्र	हिन्दी / डी	
762	5569	उपदेश माला	धर्मदास गणि	प्राकृत / डी	1597
763	3086	उपासक दश सूत्र वृत्ति		संस्कृत / डी	
764	2892	ॐकार की वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
765	6170	ॐकार की वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
766	2074	कर्मप्रकृति	नेमिचन्द्र सिद्धांतिदेव	प्राकृत / डी	
767	6321	कर्मप्रकृति	नेमिचन्द्र सिद्धांतिदेव	प्राकृत / डी	1742
768	5723	कर्मप्रकृति	नेमिचन्द्र सिद्धांतिदेव	प्राकृत / डी	
769	1938	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
770	3379	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	1829
771	4810	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
772	4825	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
773	4840	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
774	4854	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
775	4868	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
776	4885	कर्मप्रकृति	पं० दीपचंद्र	हिन्दी / डी	
777	2146	कर्मविपाक विचार	भट्टा० धर्मचंद्र	हिन्दी / डी	1817
778	2284	कर्मविपाक सूत्र	भट्टा० रत्नचंद्र	हिन्दी / डी	
779	5250	कर्मग्रंथ		हिन्दी / डी	
780	2977	कल्पसूत्र		संस्कृत / डी	
781	2758	कर्मकाण्ड	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत / डी	1735
782	2692	कर्मकाण्ड	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत / डी	
783	5587	कर्मकाण्ड टीका	अभयदेव आचार्य	संस्कृत / डी	1667
784	5090	कल्याण-माला	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
785	5701	कल्याण-माला	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
786	5999	कमल बत्तीसी		संस्कृत / डी	
787	1565	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	मुनि कार्तिकेय	प्राकृत / डी	1942
788	2824	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	मुनि कार्तिकेय	प्राकृत / डी	
789	2978	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	मुनि कार्तिकेय	प्राकृत / डी	
790	2998	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	मुनि कार्तिकेय	प्राकृत / डी	1863
791	4911	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	मुनि कार्तिकेय	प्राकृत / डी	1889
792	6098	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	मुनि कार्तिकेय	प्राकृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
134	7x16	8	गद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
393			गद्य	B	पूर्ण	माढा	
23	8.5x22.3	12	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
24	8.5x20.5	17	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
7	9x15	8	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
4	12x22	11	गद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
13	12x21.5	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
13	13x17	15	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
26	12x17.5	14	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
8	10.5x17.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
21	7x17	7	पद्य	B	पूर्ण	दमोह	
91-98	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
84-91	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
84-91	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
75-80	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
71-77	12x9	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
173-178	12x9	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
196	9x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
136	9.5x19	14	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
76	9x24	11	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
53	8x21	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
108	9.5x14	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	11.5x23	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
345	15x25	13	गद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
21-24	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
4	10x24	12	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
14	14x18	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प०बीना	
81	11x26	13	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
17	12x24	13	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
42	7x19	9	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
30	10x16	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
395-445	9x10	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
40	7x20	9	पद्य	D	पूर्ण	अजमेर	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्वम सवत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
793	6350	कार्तिकेयानुप्रेक्षा सटीक	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	1613
794	1511	क्रियाकोश	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
795	1596	क्रियाकोश	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1939
796	1671	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1925
797	1941	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1828
798	2113	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1922
799	2254	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	
800	2313	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1944
801	2363	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1935
802	2446	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1931
803	2893	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1732
804	2996	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1850
805	3187	क्रियाकोश	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
806	3215	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1968
807	3275	क्रियाकोश	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1985
808	5110	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1912
809	5218	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	
810	5251	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	
811	5318	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	
812	5358	क्रियाकोश	सि० किशनसिंह	हिन्दी / डी	1851
813	5463	क्रियाकोश	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1949
814	5538	किरातार्जुनीय टीका	मल्लिनाथसूरि	संस्कृत / डी	
815	5004	कुदेवादि वर्णन		हिन्दी / डी	1873
816	5252	कुदेवादि वर्णन		हिन्दी / डी	
817	6347	खेमावास विचार	नारचन्द्रार्य	संस्कृत / डी	1838
818	5289	गत्यागति वर्णन		हिन्दी / डी	1845
819	6287	गुटका संग्रह ग्रंथ		हिन्दी / सं० / डी	
820	6268	गुटका संग्रह ग्रंथ		संस्कृत / डी	
821	6002	गुरावली तिलक		संस्कृत / डी	
822	5735	गुरु की सीख	देवा ब्रम्ह	हिन्दी / डी	
823	6099	गुरु स्वाध्याय		प्राकृत / डी	1735
824	6100	गुरु स्वाध्याय		प्राकृत / डी	1735
825	2839	गुणस्थान पीठिका		संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
50	15x34	17	गद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	आ०सुमतिकीर्ति द्वारा लिपिकृत
36	11x19	11	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
68	12x29	13	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
142	12x22	9	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
93	12x22	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
136	9.5x25	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
113	11x19	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
145	7x23	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
98	13x20	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
140	10x17.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
45	9x27	10	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
205	10.5x17	13	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
60	10.5x22	13	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
96	9.5x22	12	पद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
112	12x22	12	पद्य	A	पूर्ण	छोटी मुहारी	
126	11x26	11	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
100	15x23	16	पद्य	A	पूर्ण	अजनास	
60	11x23	16	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
29	10.3x26.5	10	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
80	14x27	16	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
75	15x28	16	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
136	7x26	10	गद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
31	21x9	10	गद्य	A	पूर्ण	बांसी	
29	10.5x22	10	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
2-46	9x22.5	19	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
39	22x13	23	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
274	12x12	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
48	7.5x12	8	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
63-66	14x18	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
2	8.5x22	8	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
1	9x21	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
1	9x21	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
11	21x16	24	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (झांझर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
826	5726	गुणस्थान कमारोह		संस्कृत / डी	1705
827	2263	गोम्मटसार	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1728
828	2378	गोम्मटसार	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
829	4797	गोम्मटसार सटीक	आ० अभयदेव	संस्कृत / डी	1694
830	5707	गोम्मटसार	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
831	5383	गोम्मटसार सटीक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
832	1523	गोम्मटसार चर्चा		हिन्दी / डी	1964
833	6232	गौतम पृच्छा		प्राकृत / डी	1698
834	5634	ग्यारह प्रतिमा वर्णन		हिन्दी / डी	1910
835	1560	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1976
836	1577	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
837	1710	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1857
838	2814	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
839	3072	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1931
840	3214	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1868
841	3474	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1825
842	5126	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1904
843	5596	चर्चा-समाधान	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1882
844	1567	चर्चा-नामावली		हिन्दी / डी	1948
845	1645	चर्चा-नामावली		हिन्दी / डी	1941
846	2308	चर्चा-नामावली		हिन्दी / डी	1933
847	2541	चर्चा-नामावली		हिन्दी / डी	1937
848	1920	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
849	2115	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
850	2242	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
851	2440	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
852	2270	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
853	2939	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
854	3347	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
855	3475	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1963
856	4812	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
857	4827	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
858	4842	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30	7.8x21	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
116	9x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
26	9x23	13	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
348	34x12	15	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
23	9x24	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
56	10.3x14.5	11	पद्य	C	अपूर्ण	कवाल	
84	12x21	13	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
6	10x24	14	गद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	
2	12x19.5	24	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
140	9.5x15	11	गद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
115	9.5x19	11	गद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
95	9.5x25	11	गद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
27	11.5x23.5	12	गद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
103	10x26	10	गद्य	D	पूर्ण	माढा	
84	8.5x21.4	12	गद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
130	21x9	8	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
145	7x21	9	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
96	10.5x20.5	15	गद्य/पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
30	11x23	14	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
43	12.5x17	13	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
68	6.5x18	7	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
56	10.5x13	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
24	9x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	11x25	17	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
27	11x23	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
19	9.5x17	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
53	12x26	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
42	12x21	15	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
45	7x16	8	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
72	20x12	12	पद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
142-158	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
134-151	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
134-151	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
859	4856	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
860	4870	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
861	4887	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
862	4925	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1903
863	5376	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1917
864	6326	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
865	6288	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1913
866	5389	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
867	5414	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1956
868	5889	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
869	6126	चर्चा-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
870	6136	चर्चा-शतक सचित्र	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1938
871	6137	चर्चा-शतक सचित्र	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1938
872	6246	चर्चा-सार	पं० चम्पालाल	हिन्दी / डी	
873	3149	चर्चा-सार	पं० चम्पालाल	हिन्दी / डी	1931
874	5810	चर्चा-सार	पं० शिवलाल	हिन्दी / डी	
875	6026	चन्द्रगुप्त के स्वप्न		हिन्दी / डी	
876	5666	चर्चा १४८कर्म प्रकृतियों की		हिन्दी / डी	
877	6233	चतुः प्रत्येक बुद्ध चौपाई	गजकुशल गणि	हिन्दी / डी	1701
878	5313	चारित्रसार वच०		हिन्दी / डी	1928
879	3096	चाणिक्य नीति		संस्कृत / डी	
880	2478	चार ध्यान स्वरूप		संस्कृत / डी	
881	4984	चौरासी बोल	कवि हेम	हिन्दी / डी	
882	1615	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1908
883	1634	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1940
884	1703	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
885	1716	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1858
886	1769	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
887	2615	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
888	2720	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1666
889	3473	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
890	3490	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
891	5133	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाईX चौड़ाईCM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
117-129	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
111-125	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
272-306	12x19	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
70	28x13	12	पद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद	
21	15x11	16	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
59	15x20	18	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
142	13.9x11	12	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	अन्य ग्रंथ भी दिए हैं अंत में
19	22x13	23	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
49	13x22	14	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
40	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
14-28	11.5x20	11	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
63	23x29	20	गद्य/पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	चित्र भी बने हुए हैं
64	9.5x25	11	गद्य/पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	चित्र भी बने हुए हैं
223	15X28	16	गद्य/पद्य	D	पूर्ण	माढ़ा	
106	9x21	11	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
58	15.5x23	19	गद्य	A	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
183-185	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
7	10x25	11	गद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
20	9X22	11	पद्य	C	पूर्ण	मिर्जापुर	
178	7.5x26	9	गद्य	A	पूर्ण	जौला	
18	10x18	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7	7x21	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	19x10	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
22	8x12	13	गद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
12	12x19	12	गद्य	C	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
23	16x11	12	गद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
69	9.3x23	10	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
3-22	12x18	12	गद्य	C	अपूर्ण	चौदपुर	प्रारम्भ के दो पत्र नहीं हैं।
31	12x7.5	15	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
103	25x11.5	25	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
21	22x10	9	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
40	8x28	25	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
22	23x14	24	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
892	5196	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
893	5436	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1909
894	5754	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
895	6129	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1689
896	6251	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	
897	6252	चौबीस ठाणा		हिन्दी / डी	1801
898	2580	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
899	2590	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
900	4815	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
901	4830	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
902	4845	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
903	4858	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
904	4872	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
905	5692	चौबीस दण्डक	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1878
906	3446	चौदह गाथादि		संस्कृत / डी	
907	5766	चौदह गुणस्थान	अमरकीर्ति	हिन्दी / डी	
908	6041	चौबीस तीर्थकर वर्णन		मराठी / डी	
909	1748	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
910	2569	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
911	3498	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1908
912	4807	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
913	4822	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
914	4837	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
915	5275	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1911
916	5381	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1933
917	5424	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1932
918	5472	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1945
919	1793	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1917
920	1803	छहडाला	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
921	2951	छहडाला	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
922	5279	छहडाला	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
923	5473	छहडाला	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1945
924	6149	छहडाला	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1914

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	26x12	25	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
78	11x27	12	पद्य	C	पूर्ण	बघरा	
8	7x21	7	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
45	25x11	28	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
31	9x19	10	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
32	7x19	8	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	10.5x16.5	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5	9x17.5	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
169-171	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
162-164	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
162-170	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
136-139	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
133-136	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
4	9.5x24	10	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
16	10x13.5	15	पद्य	C	पूर्ण	मिर्जापुर	
40	7.5x21	11	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
93			पद्य	C	पूर्ण	माढा	
29	10.5x22.5	9	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
21	5.5x11	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	13x6	7	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
69-83	12x19	19	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
71-77	13x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
71-77	13x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
9-20	11x12	10	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
10	14x10.5	14	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
32	9x15	7	पद्य	B	पूर्ण	मीरापुर	
9	21x11.5	12	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
13	11x19	13	पद्य	B	पूर्ण	रहली	
23	14x15	15	पद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
8	7.5x14	9	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
9	9x13	9	पद्य	C	अपूर्ण	अजनास	
4	21x11.5	12	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
8	13x10	18	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
925	6206	छहढाला	कवि बुधजन	हिन्दी/डी	
926	2116	छहद्रव्य वर्णन		हिन्दी/डी	1821
927	2575	छहद्रव्य कथन	ब्र० गोकुल	संस्कृत/डी	
928	3131	जिनप्रतिमा स्वरूप		हिन्दी/डी	1988
929	3174	जिनप्रतिमा स्वरूप		हिन्दी/डी	1936
930	1557	जीव क्षमावाणी	जयराज	हिन्दी/डी	1938
931	3090	जीवकाण्ड	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत/डी	
932	2430	जीवविचार प्रकरण		प्राकृत/डी	
933	5757	जीवविचार प्रकरण		प्राकृत/डी	1695
934	6324	जीव सुलछिना		हिन्दी/डी	
935	3459	जैनप्रबोध श्रावकाचार	पं० पन्नालाल गोधा	हिन्दी/डी	1991
936	5058	जैनप्रबोध श्रावकाचार	पं० पन्नालाल गोधा	हिन्दी/डी	1991
937	5122	जैनप्रबोध श्रावकाचार	पं० पन्नालाल गोधा	हिन्दी/डी	
938	6053	जैन बाल गुटका		हिन्दी/डी	1905
939	2916	जैनविवाह पद्धति	पं० फतहलाल	हिन्दी/डी	
940	4877	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी/डी	
941	5689	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी/डी	1878
942	1832	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
943	2167	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
944	2231	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
945	2851	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	1888
946	5003	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
947	5524	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
948	5714	ज्ञानार्णव	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	1647
949	2025	ज्ञानार्णव सटीक	श्रुतसागर सूरी	संस्कृत/डी	
950	2381	ज्ञानार्णव सटीक	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	1570
951	2428	ज्ञानार्णव सटीक	श्रुतसागर सूरी	संस्कृत/डी	
952	2548	ज्ञानार्णव सटीक	श्रुतसागर सूरी	संस्कृत/डी	1842
953	3326	ज्ञानार्णव सटीक	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
954	5617	ज्ञानार्णव सटीक	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत/डी	
955	1861	ज्ञानार्णव वचनिका	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी/डी	1920
956	3248	ज्ञानार्णव वचनिका	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी/डी	
957	5114	ज्ञानार्णव वचनिका	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी/डी	1903

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	4x9	5	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
3	10x21	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
2	8x14	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	16x27	10	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
67	12.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
9	9x14	12	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
19	8x19.5	11	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
9	8x19.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
4	9x23	11	पद्य	C	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
3	13x17	15	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
96	26x12	12	पद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
100	21x13	12	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
84	13x26	11	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
35	11x17	8	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
63	13.5x18	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
85-112	14x8	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
17	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
60	8.5x22	12	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
80	8x20	9	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
138	8x21	9	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
166	13x22	17	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
116	21x8	10	गद्य	C	पूर्ण	बांसी	
83	9.5x25	12	पद्य	C	अपूर्ण	बून्दी	
99	9.5x23	13	पद्य	B	पूर्ण	टोड़ारायसिंह	
8	9x23	13	गद्य	B	अपूर्ण	भानपुरा	
154	9x25	8	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
146	8x18	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	11x22	15	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
20	9.5x17	9	पद्य	B	अपूर्ण	भानपुरा	
62	9.5x22	12	गद्य	C	अपूर्ण	टोड़ारायसिंह	
287	10x26.5	13	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
148	11x26	11	गद्य	C	पूर्ण	पारोल	
212	12x26	16	गद्य	A	पूर्ण	बबीना	

अनेकांत ज्ञान मंदिर ग्रोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
958	5417	ज्ञानार्णव सटीक		हिन्दी / डी	1918
959	5435	ज्ञानार्णव सटीक		हिन्दी / डी	
960	5712	ज्ञानार्णव सटीक		संस्कृत / डी	
961	5468	ज्ञानार्णव वचनिका	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	1889
962	2904	ज्ञानदर्पण	पं० दीपचंद	हिन्दी / डी	1925
963	3338	ज्ञानसार	देवसेन आचार्य	संस्कृत / डी	
964	5089	ज्ञानभक्ति		संस्कृत / डी	
965	5874	ज्ञानाकुश		संस्कृत / डी	1668
966	6004	ज्ञान दस्तक		हिन्दी / डी	
967	2155	ज्ञान श्रोदय	चरणदास	हिन्दी / डी	
968	1582	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1918
969	1612	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1876
970	1865	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1925
971	2243	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1950
972	2245	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1940
973	3219	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1880
974	3250	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	
975	3261	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1919
976	3269	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1901
977	3284	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1909
978	3320	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1878
979	3328	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1908
980	3373	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1907
981	3408	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1889
982	3461	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1902
983	5231	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1936
984	5459	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1964
985	6329	ज्ञानानंद श्रावकाचार वच०	पं० राजमल	हिन्दी / डी	
986	5943	ढाढसी गाथाएं		प्राकृत / डी	
987	5949	ढाढसी गाथाएं		प्राकृत / डी	
988	5203	णानसार		प्राकृत / डी	
989	1617	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
990	1636	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1946

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
199	10x30	16	गद्य	C	पूर्ण	मीरापुर	
150	10.3x25.5	13	गद्य	C	अपूर्ण	बघरा	
59	9x22	12	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
132	11x22.5	11	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
20	11x24	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
11	11.3x24.5	13	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
18	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
5	12x9	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
5	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
20	10x23.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
181	10x27	11	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
172	10x24	11	पद्य	A	पूर्ण	वमराना	
169	9.5x23.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
195	11x24	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
170	11x24	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
129	10x25.5	12	गद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
155	12.3x23	12	गद्य	A	पूर्ण	पारोल	
159	9.5x24	12	गद्य	B	पूर्ण	पारोल	
169	11x25	11	गद्य	B	पूर्ण	छोटी मुहारी	
171	11x41	12	गद्य	A	पूर्ण	मुहारीकलौं	
141	11x24	12	गद्य	C	पूर्ण	रजवांस	
173	11x24	12	गद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
179	11.3x20	12	गद्य	C	पूर्ण	रजवांस	
201	11x19.5	11	गद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	
170	26x9	9	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
161	15x28	12	गद्य	C	पूर्ण	अजनास	
134	13.5x23	13	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
138	12x24	13	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
10	14x12	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	10.5x11	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
12	12x27	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	11x19	13	गद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
17	11.5x10	12	गद्य	B	पूर्ण	अथाईखेड़ा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
991	1708	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
992	1771	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
993	1816	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
994	2065	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
995	2176	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
996	2214	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
997	2269	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1889
998	2317	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1931
999	2323	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1941
1000	2415	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1001	2587	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1002	2623	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1918
1003	2633	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1004	2880	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1005	3001	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1006	3196	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1007	3209	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1008	3244	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1950
1009	3283	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1010	3291	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1011	3368	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1012	3384	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1013	3393	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1931
1014	3403	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1015	3410	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1016	3413	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1017	3482	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1801
1018	3499	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1908
1019	4813	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1020	4828	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1021	4843	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1022	4857	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1023	4871	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई/CM)	पत्र संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45	12x14	10	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
29	13x23	8	गद्य	B	पूर्ण	चांदपुर	
59	13x20	14	गद्य	A	पूर्ण	मडावरा	
10	10x19	11	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
10	9x21	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
	25x11	32	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
32	14x21	20	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
11	10x23	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16	10x17	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	12x24	20	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
17	9x15.5	10	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
12	8x17	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
31	6x11	7	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
53	15x25	5	गद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
25	6x17	7	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
14	11x14	12	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
	11.5x7	13	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
36	13x21	13	गद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
27	3.5x21	13	गद्य	C	पूर्ण	मुहारीकलौं	
32	7x11	9	गद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौं	
23	10x26	5	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
28	10x18	9	गद्य	C	पूर्ण	दमोह	
64	14x11	17	गद्य	C	पूर्ण	सिलवानी	
43	6x70	7	गद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
41	17x22	15	गद्य	B	पूर्ण	नागपुर	
11	8x23.5	9	गद्य	B	पूर्ण	पारोल	
32	17x12	18	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
26	13x6	7	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
159-168	12x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
152-160	13x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
152-160	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
130-135	12x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
126-133	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (वि.सं. संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1024	4888	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1025	4899	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1026	4938	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1917
1027	4973	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1872
1028	4978	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1952
1029	4980	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1030	4982	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1957
1031	5037	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1945
1032	5104	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1033	5186	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1034	5193	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1035	5219	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1954
1036	5277	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1037	5362	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1990
1038	5374	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1039	5492	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1040	5629	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1041	5983	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1042	5892	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1043	5879	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	1882
1044	5895	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1045	5915	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1046	5951	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1047	5975	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1048	5991	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1049	5992	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1050	6043	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1051	6048	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1052	6070	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1053	6187	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1054	6215	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1055	6227	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	
1056	6255	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
126	12x9	10	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
165-189	9x10	9	गद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
37-42	14x26	28	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
24	18x11	5	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
28	14x6	6	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
	10x14	17	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
44	10x6	6	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
70	20x13	13	गद्य	B	पूर्ण	बांसी	
76-89	8x15	9	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
49	11x16	8	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
13	10x23	8	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
79	14x22	8	गद्य	A	पूर्ण	अजनास	
43	8x14.5	7	गद्य	C	पूर्ण	अजनास	
23	16x12	15	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
12	17x13	13	गद्य	C	पूर्ण	कवाल	
10	11.5x7	10	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
11	14.5x18.5	26	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंग	
23	13x11	15	गद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
55	7.5x6.5	6	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
39	5.2x7	6	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
51	8x12	9	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
32	7.5x13	8	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
26	11x17	12	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
16	20x12	15	गद्य	C	अपूर्ण	पड़ा	
22	12x9	9	गद्य	C	पूर्ण	सुलतानगंज	
18	6x14	8	गद्य	A	पूर्ण	सुलतानगंज	
26	12x8	13	गद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
57-65	18x15.5	20	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
152-159	24x12	25	गद्य	B	पूर्ण	वरकोटी	
29	18x22	12	गद्य	B	पूर्ण	झालरापाटन	
6	4.5x7	7	गद्य	C	अपूर्ण	भुसावल	
87	6x12	6	गद्य	A	पूर्ण	राजाखेड़ा	
40	15.3x12	16	गद्य	C	पूर्ण	नागपुर	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1057	1609	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1941
1058	1661	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1902
1059	2351	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1917
1060	2830	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1932
1061	5036	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1945
1062	5298	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1960
1063	5300	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1910
1064	5550	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1812
1065	5967	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1953
1066	3341	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1929
1067	1590	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1068	1744	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1932
1069	1798	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1954
1070	1957	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1912
1071	2131	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1072	2182	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1073	2264	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	1928
1074	2832	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	
1075	2967	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	
1076	2994	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	1914
1077	3173	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1910
1078	3465	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1870
1079	5042	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	1925
1080	5180	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	
1081	5272	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1936
1082	5356	तत्त्वार्थसूत्र सटीक	मकरंद	हिन्दी/डी	1915
1083	5400	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1867
1084	5517	तत्त्वार्थसूत्र सटीक		हिन्दी/डी	1910
1085	5711	तत्त्वार्थसूत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1086	6130	तत्त्वार्थसूत्र	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	1942
1087	1534	तत्त्वार्थबोध	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	1820
1088	1850	तत्त्वार्थबोध	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	1820
1089	2359	तत्त्वार्थबोध	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	1913

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
51	12.5x26	13	गद्य	B	पूर्ण	केवलारी	
241	9x21.5	11	गद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
301	10x23	13	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
55	8x20	10	गद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
70	20x13	13	गद्य	B	पूर्ण	बांसी	
88	11.5x21.5	11	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
103	9x22	9	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
88	7.5x23	12	गद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
60	10x23	11	गद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
79	11x19.5	12	गद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
34	12x20	13	गद्य	A	पूर्ण	महतपुर	
46	13x17	11	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
50	9.5x26	9	गद्य	A	पूर्ण	सागर	
41	8.5x20.5	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
101	10x22	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
83	9x22	10	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
42	8x22	9	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
124	10x13	5	गद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
14-113	16x12	14	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	प्रारम्भ के 13 पृ० नहीं हैं
54	16x12.5	13	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
65	12.5x19	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
183	24x12	11	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
47	25x14	16	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
62	12x20	13	गद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
140	12x13	11	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
38	14.5x28.5	16	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
109	10x23	10	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
21	15x26	17	गद्य	C	पूर्ण	बइसूमा	
25-79	9x24	10	गद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	प्रा० के 24 पृ० नहीं हैं।
34	11.5x25	11	गद्य	A	पूर्ण	बबीना	
62	12.5x30	14	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
138	10x25	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
126	10.5x18	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1090	3150	तत्त्वार्थबोध	बुधजन कवि	हिन्दी / डी	1879
1091	3285	तत्त्वार्थबोध	बुधजन कवि	हिन्दी / डी	1982
1092	5051	तत्त्वार्थबोध	बुधजन कवि	हिन्दी / डी	1885
1093	6243	तत्त्वसार	देवसेन आचार्य	प्राकृत / डी	
1094	2515	तत्त्वार्थसार	आ० अमृतचंद्र	संस्कृत / डी	1717
1095	6135	तत्त्वार्थसार वच०		हिन्दी / डी	
1096	1810	तत्त्वार्थरत्न-प्रभाकर	गणि प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	1759
1097	2160	तत्त्वार्थरत्न-प्रभाकर	गणि प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	1692
1098	2239	तत्त्वार्थरत्न-प्रभाकर	गणि प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	
1099	2325	तत्त्वार्थरत्न-प्रभाकर	गणि प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	1778
1100	6177	तत्त्वार्थरत्न-प्रभाकर	गणि प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	
1101	2369	तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालंकार	आ० विद्यानंद स्वामी	संस्कृत / डी	1622
1102	2867	तत्त्वार्थ राजवार्तिकसटीक	अकलंक देव / पन्नालाल संघी	हिन्दी / डी	1940
1103	2868	तत्त्वार्थ राजवार्तिकसटीक	अकलंक देव / पन्नालाल संघी	हिन्दी / डी	1940
1104	2869	तत्त्वार्थ राजवार्तिकसटीक	अकलंक देव / पन्नालाल संघी	हिन्दी / डी	1940
1105	2886	तत्त्वार्थ राजवार्तिकसटीक	अकलंक देव / पन्नालाल संघी	हिन्दी / डी	1940
1106	1992	तत्त्वज्ञान तरंगणि	आ०ज्ञान भूषण	संस्कृत / डी	1818
1107	3375	तत्त्वज्ञान तरंगणि	आ०ज्ञान भूषण	संस्कृत / डी	1759 शक स
1108	5212	तत्त्वज्ञान तरंगणि	आ०ज्ञान भूषण	संस्कृत / डी	
1109	6005	तीर्थ षोडशी		हिन्दी / डी	
1110	2042	त्रिलोकसार विचार		संस्कृत / डी	
1111	5546	त्रिलोकसार	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत / डी	1518
1112	5615	त्रिलोकसार सटीक	माधवचन्द्र	संस्कृत / डी	1588
1113	6096	त्रिलोकसार	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत / डी	1518
1114	2763	त्रिलोकसार वच०	आ०नेमीचंद्र / पं०टोडरमल	हिन्दी / डी	1975
1115	3116	त्रिलोकसार वच०	आ०नेमीचंद्र / पं०टोडरमल	हिन्दी / डी	
1116	3469	त्रिलोकसार वच०	आ०नेमीचंद्र / पं०टोडरमल	हिन्दी / डी	1870
1117	5121	त्रिलोकसार वच०	आ०नेमीचंद्र / पं०टोडरमल	हिन्दी / डी	1892
1118	5552	त्रिलोकसार वच०	आ०नेमीचंद्र / पं०टोडरमल	हिन्दी / डी	1682
1119	5593	त्रिलोक-दर्पण	खड्गसेन	हिन्दी / डी	1832
1120	5607	त्रिलोक-दर्पण	खड्गसेन	हिन्दी / डी	
1121	5732	त्रैलोक्य-दर्पण	अभयनंदि मुनि	संस्कृत / डी	1530
1122	5063	त्रिभंगीसार रचना		प्रा० / हिन्दी / डी	1703

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
107	10.5x21.5	12	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
76	14x26	14	पद्य	A	पूर्ण	मुहारीकलौ	
110	23x11	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
78	16.5x14	19	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
14	8x21	19	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
101	18x31.5	16	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
84	9.3x21	13	गद्य	A	पूर्ण	सिरोंज	
116	8x22	9	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
125	8x18	10	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
131	9.5x18.5	12	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
97-106	9x21	11	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
323	10x26	16	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
51	13x21	12	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
209	14x21	13	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
212	14x20	13	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
413	13x21	12	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
22	11x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
53	7.2x15	9	पद्य	A	पूर्ण	झांसी	
11	14x19	17	पद्य	C	अपूर्ण	अजमेर	
6	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
10	9.5x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
22	7.5x31	12	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
149	10x25	11	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
75	9.5x31	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
16	9x17	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
287	15x25	15	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
416	25x10	7	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
303	10x26	12	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
18	7x22	9	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
157	8.5x20.5	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
43	10x24	11	पद्य	D	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	8x25	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
51	23x12	15	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1123	2261	त्रिवर्णाचार	सोमदेव आचार्य	संस्कृत / डी	1925
1124	1991	त्रैलोक्य-दीपक		हिन्दी / डी	
1125	5199	त्रैलोक्य-सार		हिन्दी / डी	
1126	1732	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1127	1741	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1938
1128	2534	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1129	5074	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1130	5184	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1908
1131	5189	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1132	5317	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1936
1133	5415	दशलक्षणधर्म सटीक	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1930
1134	2003	दर्शनसार	देवसेन आचार्य	प्राकृत / डी	1837
1135	6007	दर्शन-शतक		हिन्दी / डी	
1136	5010	दर्शनप्राभृत सटीक	आ० श्रुतसागर	संस्कृत / डी	
1137	5720	दशवैकालिक सूत्र		प्राकृत / डी	1676
1138	1787	दण्डक पाठ		हिन्दी / डी	1847
1139	2828	दानसार	आ० पद्मनंदि	संस्कृत / डी	
1140	5814	दैवसिक प्रतिक्रमण		प्राकृत / डी	
1141	1890	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1911
1142	2462	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1143	2540	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1144	2624	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1731
1145	2902	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1928
1146	2905	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1147	3494	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1148	4890	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1149	4976	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1150	4979	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1151	5155	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1911
1152	5627	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	
1153	5667	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1768
1154	5931	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1638
1155	6059	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
114	10x24	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
122	8x25	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
13	8x27	11	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
16	10x17.5	11	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
23	9x19	8	गद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
12	11x19	15	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
31	11x24	14	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
44	10x24	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
21	12x25	13	गद्य	C	अपूर्ण	अजमेर	
35	13.5x24.5	12	गद्य	C	पूर्ण	जौला	
30	14.5x22	12	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
8	8x21	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
17-19	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
6	25x11	15	गद्य	B	पूर्ण	बांसी	
66	10x21	13	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	12.5x17	11	पद्य	B	पूर्ण	महाना	
33	12x23.5	11	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
7	13.5x10	9	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
14	8x20	3	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	9x23	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
12	11x17	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
18	8x17	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	गाथाओं का हिन्दी में अर्थ।
4	9x20	10	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
11	13x24	19	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
5	21x8	8	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
35-47	9x9	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
40	12x11	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
40	12x11	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
6	10x23	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
5	8x22	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	10x24	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
39-48	11.5x8.5	15	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
12	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1156	6322	द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत / डी	1742
1157	5249	द्रव्यसंग्रह कवित्त		हिन्दी / डी	
1158	1549	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	
1159	1694	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	1934
1160	2903	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	1935
1161	3002	द्रव्यसंग्रह टीका	सहस्रकीर्ति	हिन्दी / डी	1896
1162	3418	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	
1163	5559	द्रव्यसंग्रह टीका	ब्र० गंगासागर	संस्कृत / डी	1716
1164	1967	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	1935
1165	3003	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	1906
1166	5990	द्रव्यसंग्रह वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	1952
1167	3274	द्वादशानुप्रेक्षा		हिन्दी / डी	1967
1168	6231	द्वादश व्रत चौपाई		हिन्दी / डी	1657
1169	2574	द्विजाचार		संस्कृत / डी	
1170	1510	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	
1171	1606	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1920
1172	1762	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1831
1173	1775	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	
1174	1892	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1946
1175	1919	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1829
1176	2964	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1830
1177	3235	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1894
1178	3242	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	
1179	3334	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	
1180	4993	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1931
1181	5210	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1749
1182	5211	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1736
1183	5295	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1736
1184	5971	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	
1185	5985	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1923
1186	5989	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	
1187	6138	धर्मसार	पं० शिरोमणीदास	हिन्दी / डी	1930
1188	2012	धर्मपरीक्षा	अमितगति आचार्य	संस्कृत / डी	1641

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित कर्णों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	13x17	15	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
7	12x33	12	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
25-48	12.5x16	15	गद्य	C	अपूर्ण	अशोकनगर	
17	7.5x25.5	8	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
22	9x21	10	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
24	8x14.5	10	गद्य	A	पूर्ण	झांसी	
42	10x18.5	11	गद्य	D	अपूर्ण	सारोला	
10	7x22	11	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
44	9.5x22.5	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
79	8x15	7	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
52	10x19	10	गद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
37	10x24	11	पद्य	B	पूर्ण	छोटी मुहारी	
14	10x22	15	पद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	
46	9x17	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	12x21	21	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
39	12x20	11	पद्य	B	पूर्ण	केवलारी	
64	11x17.5	11	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
61	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	चांदपुर	
43	12x20	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
32	11x21.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
62	10x15	11	पद्य	A	पूर्ण	झांसी	
83	10x16	8	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
39	23x14	26	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
75	11x17	12	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
68	16x10	21	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
135	10x18	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
48	9x21	10	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
95	10x14	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
62	10x14	10	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
54	10x18	11	पद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
73	11x16.5	12	पद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
65	13x15	13	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
95	9x22.5	10	पद्य / गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर छोष संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1189	2130	धर्मपरीक्षा	अमितगति आचार्य	संस्कृत/डी	
1190	1508	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1191	1700	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1903
1192	1931	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1193	1934	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1194	1969	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1926
1195	2290	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1830
1196	2355	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1923
1197	2799	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1973
1198	2932	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1879
1199	3018	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1942
1200	3028	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1201	3142	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1202	3153	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1963
1203	3216	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1848
1204	3252	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1841
1205	3333	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1762
1206	3363	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1902
1207	3427	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1208	4958	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1209	5005	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1757
1210	5050	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1823
1211	5319	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1909
1212	5440	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1213	5504	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1993
1214	5507	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	
1215	5519	धर्मपरीक्षा	पं० मनोहरदास	हिन्दी/डी	1917
1216	2099	धर्मपरीक्षा प्रबंध	जगतकीर्ति	संस्कृत/डी	
1217	5412	धर्मविलास	पं० द्यान्तराय	हिन्दी/डी	1916
1218	1572	धर्मामृत	पं० आशाधर	संस्कृत/डी	1473
1219	5953	धर्मामृत	पं० आशाधर	संस्कृत/डी	1557
1220	5555	धर्मसंग्रह		संस्कृत/डी	1786
1221	2002	धर्मशर्माभ्युदय	हरिचन्द्र	संस्कृत/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लिंनईx चौड़ाईcm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30	9x21.5	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
106	10x17	11	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
147	9x22	10	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
84	12x25	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
52	10.5x25	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
131	9.5x25	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
121	10x18	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
132	10x18	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
82	14x25	14	पद्य	C	पूर्ण	समसपुर	
100	11x20	13	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
73	14x25	14	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
111	11.5x18	14	पद्य	A	पूर्ण	झांसी	
134	13x18	14	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
177	14x17	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
143	7.5x19	9	पद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
123	9x21	10	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
73	9x19.5	16	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
30	10x17	13	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
102	12x10	13	पद्य	D	पूर्ण	राजपुर	
47	20x14	14	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
60	21x9	14	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
136	24x9	9	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
95	11x23.5	12	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
15-124	12x22	11	पद्य	D	अपूर्ण	बघरा	
64	15.5x28	16	पद्य	A	पूर्ण	महलका	
120	8x27	9	पद्य	C	पूर्ण	बइसूमा	
100	10.5x28	11	पद्य	A	पूर्ण	बइसूमा	
19	10x24.5	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
151	22x13	25	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
31	7x21	10	पद्य	A	पूर्ण	नईसराय	
37	7x23.5	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
45	10x26	14	पद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
119	8x23	10	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1222	1996(क)	धर्मोपदेश श्रावकाचार	रत्नभूषण भट्टा०	संस्कृत/डी	1901
1223	3083	धर्मोपदेश श्रावकाचार	जिन माणिक्य सूरि	संस्कृत/डी	1777
1224	5631	धर्मोपदेश रत्नमाला वच०	पं० भागचंद	हिन्दी/डी	1939
1225	1911	धर्मचर्चा हुण्डी	पं० गुलाबचंद	हिन्दी/डी	1786
1226	6125	धर्मबुद्धि-पापबुद्धि चौपाई		हिन्दी/डी	1818
1227	6194	नवतत्त्व प्रकरण		हिन्दी/डी	
1228	1782	नमोकार पच्चीसी		हिन्दी/डी	
1229	2102	नरपतिजय चर्या	पं० मनोहरदास	संस्कृत/डी	
1230	1747	नरकदुःख वर्णन		हिन्दी/डी	
1231	3440	नयचक्र वचनिका	पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1928
1232	6201	नयचक्र टीका		हिन्दी/डी	1711
1233	6104	नवतत्त्व		प्रा०/हिन्दी/डी	
1234	2512	नवतत्त्व बालाबोध		संस्कृत/डी	1650
1235	5747	नलोदय टीका		संस्कृत/डी	
1236	2069	नारद संहिता		संस्कृत/डी	1893
1237	5844	निरंतर भावना		संस्कृत/डी	
1238	5077	नीति-शतक	भर्तृहरि	संस्कृत/डी	
1239	5169	नीति-शतक	भर्तृहरि	संस्कृत/डी	
1240	5290	नीति श्लोक		संस्कृत/डी	
1241	1897	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	
1242	2028	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	1575
1243	2268	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	1693
1244	5079	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	
1245	5206	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	
1246	5541	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	1788
1247	5663	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	1593
1248	6153	पद्मनंदि पंचविंशतिका	आ० पद्मनंदि	संस्कृत/डी	
1249	1935	पद्मनंदि पंचविंशतिका सटीक	आ० पद्मनंदि/जगतराय	हिन्दी/डी	1794
1250	1993	पद्मनंदि पंचविंशतिका सटीक	आ० पद्मनंदि/जगतराय	हिन्दी/डी	1618
1251	3034	पद्मनंदि पंचविंशतिका सटीक	आ० पद्मनंदि/जगतराय	हिन्दी/डी	
1252	3143	पद्मनंदि पंचविंशतिका सटीक	आ० पद्मनंदि/जगतराय	हिन्दी/डी	1937
1253	3396	पद्मनंदि पंचविंशतिका सटीक	आ० पद्मनंदि/जगतराय	हिन्दी/डी	1930
1254	5237	पद्मनंदि पंचविंशतिका सटीक	आ० पद्मनंदि/जगतराय	हिन्दी/डी	1988

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
146	10x17.5	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
43	10x18	7	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
71	10x17	9	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
20	10x23	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	13x21	22	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
5	12x25	25	गद्य	B(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
4	11x17	13	पद्य	B	पूर्ण	चांदपुर	
54	9x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	13x9	15	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
18	10.5x18.5	11	गद्य	B	पूर्ण	बीना	
30	13x9	10	गद्य	B	पूर्ण	बीना	
27	10.5x20.5	11	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
23	8x22.3	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
33	3x14	4	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
126	7.5x23.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9	12x18.3	13	पद्य	B	पूर्ण	बीना	
20	22x10	15	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
23-44	10x15	12	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
	12x23	21	पद्य	C	पूर्ण	गंजबासोदा	
82	11x20.5	12	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
149	12x 21	7	गद्य/पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
62	14x25	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
77	22x7	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
62	11x18	13	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
68	8.5x23	12	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
61	9x23	11	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
104	9x26	6	पद्य	A(z)	पूर्ण	केम्बिज	
83	8.5x25	11	गद्य	D	अपूर्ण	भानपुरा	
165	10x27	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
322	10x25.5	11	गद्य	C	अपूर्ण	देवरीकलाँ	
307	9.5x25	10	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
268	11.5x25.5	11	गद्य	A	पूर्ण	नागपुर	
444	13x26	11	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1255	5340	पद्मनदि पंचविंशतिका वच०	पं० जौहरीलाल जैन	हिन्दी / डी	1927
1256	5347	पद्मनदि पंचविंशतिका वच०	पं० जौहरीलाल जैन	हिन्दी / डी	1943
1257	5401	पद्मनदि पंचविंशतिका वच०	पं० जौहरीलाल जैन	हिन्दी / डी	
1258	5591	पद्मनदि पंचविंशतिका वच०	पं० जौहरीलाल जैन	हिन्दी / डी	1933
1259	2464	परमात्मप्रकाश	आ० योगीन्दुदेव	अपभ्रंश / डी	
1260	3344	परमात्मप्रकाश	आ० योगीन्दुदेव	अपभ्रंश / डी	
1261	5070	परमात्मप्रकाश	आ० योगीन्दुदेव	अपभ्रंश / डी	
1262	5941	परमात्मप्रकाश	आ० योगीन्दुदेव	अपभ्रंश / डी	
1263	1665	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1933
1264	2453	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
1265	3319	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
1266	4969	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
1267	5217	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
1268	5448	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1894
1269	5938	परमात्मप्रकाश वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
1270	5888	परमात्मप्रकाश कवित्त	सुगमचंद जैन	हिन्दी / डी	
1271	6038	पात्र विचार		हिन्दी / डी	
1272	3292	पाक्षिक आचार		हिन्दी / डी	1965
1273	2522	पार्श्वनाथ की निसाणी		हिन्दी / डी	1824
1274	5715	पिण्ड शुद्धि	जिनबल्लभसूरि	प्राकृत / डी	1601
1275	2052	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय	अमृतचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1850
1276	2810	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय	अमृतचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1818
1277	3433	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय	अमृतचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1914
1278	4896	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय	अमृतचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1889
1279	6140	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय	अमृतचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	
1280	2262	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० खूबचन्द	हिन्दी / डी	1794
1281	2306	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० खूबचन्द	हिन्दी / डी	1919
1282	5124	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० खूबचन्द	हिन्दी / डी	1914
1283	6106	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० खुशालचन्द	हिन्दी / डी	
1284	1678	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० खुशालचन्द	हिन्दी / डी	1920
1285	1853	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1934
1286	1862	पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
1287	5728	पोसह विधि		संस्कृत / डी	1847

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
319	11x23	12	गद्य	A	पूर्ण	जौला	
255	14x26.5	14	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
61	11.5x23.5	12	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
289	19x12	15	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
7	12x24	15	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
2-15	7.5x22	11	गद्य	C	अपूर्ण	रायसेन	प्रा० का 9 पत्र नहीं है।
20	18x11	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
47	12x14	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
168	12x25	13	गद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
174	8x21	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
132	10x26	12	गद्य	B	पूर्ण	रजवांस	
82	22x9	17	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
185	14x21	15	गद्य	A	पूर्ण	सिवनीमालवा	
94	15x27	15	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
196	11.5x8.5	15	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
34	6.5x13	7	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
3	8x20.5	8	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
21	9.5x16	7	पद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलाँ	
4	8x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
8	10x26	12	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
34	9x23.5	4	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
38	6x9.5	7	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
35	6.5x1	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
121-140	11x10	12	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
32	13x26	11	पद्य	B	पूर्ण	पठा	
86	10x25	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
137	12x37	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
101	10x25	11	गद्य	C	पूर्ण	बबीना	
176	10x23	19	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
110	10x25	11	गद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
93	11x24	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
192	10x29	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
2	8x20.2	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1288	1554	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1289	1602	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1290	1626	पोथी (अनुप्रेक्षा)		हिन्दी/डी	
1291	1652	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र आदि)		संस्कृत/डी	
1292	1688	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1293	1691	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र आदि)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	1901
1294	1738	पोथी (द्रव्यसंग्रहादि)	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत/डी	1901
1295	1764	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1296	1779	पोथी (सिन्दूर प्रकरणादि)		संस्कृत/डी	
1297	1824	पोथी(द्रव्यसंग्रहादि)कवित्त		हिन्दी/डी	
1298	2640	पोथी (समाधितंत्र)	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	
1299	2721	पोथी (श्रावक प्रतिक्रमण)	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत/डी	1881
1300	2726	पोथी (नयचकादि)		संस्कृत/डी	1928
1301	2730	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1302	2732	पोथी (तत्त्वार्थसूत्र)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1303	2744	पोथी (सामायिक पाठादि)		हिन्दी/डी	
1304	2753	पोथी (संग्रह ग्रंथ)		संस्कृत/प्रा./डी	
1305	2764	पोथी (संग्रह ग्रंथ)		संस्कृत/प्रा./डी	1638
1306	2775	पोथी (संग्रह ग्रंथ)		संस्कृत/प्रा./डी	
1307	2776	पोथी (संग्रह ग्रंथ)		संस्कृत/प्रा./डी	
1308	3010	पोथी (तत्त्वार्थ सूत्र आदि)	आ० उमास्वामी	संस्कृत/डी	
1309	3062	पोथी (परीषहादि)		हिन्दी/डी	
1310	3121	पोथी (संग्रह ग्रंथ)		हिन्दी/डी	1942
1311	3228	पोथी(राजुल पच्चीसीआदि)		हिन्दी/डी	
1312	3289	पोथी (बाईस परिषहादि)		हिन्दी/डी	
1313	3302	पोथी (सिद्धांतसार)		संस्कृत/डी	
1314	2306	पंच परावर्तन		हिन्दी/डी	1929
1315	2451	पंच मंगल	रूपचंद	हिन्दी/डी	
1316	2479	पंच मंगल	रूपचंद	हिन्दी/डी	1914
1317	5194	पंच मंगल	रूपचंद	हिन्दी/डी	1937
1318	1778	पंचास्तिकाय सटीक	आ० कुंदकुंद/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1915
1319	1814	पंचास्तिकाय सटीक	आ० कुंदकुंद/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1780
1320	2216	पंचास्तिकाय सटीक	आ० कुंदकुंद/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1803

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
61	10x13	10	गद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
11	13x23	14	गद्य	D	पूर्ण	केवलारी	
75	13x15	11	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
181	10.5x20	10	गद्य	C	पूर्ण	पटनागंज	
20	8x13	9	गद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
116	10x15.5	10	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
169	11x18	12	पद्य	B	पूर्ण	चांदपुर	
19	16x16	12	गद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
195	12x24	12	पद्य	C	पूर्ण	चांदपुर	
100	9.5x13	13	पद्य	C	पूर्ण	भुसावल	
108	6.5x9	10	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
158	17x9.5	21	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
142	12x12	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
162	11x9	15	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
165	9x11.5	9	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
238	9x11.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
80	9x13	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
225	23.5x11	28	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	महत्त्वपूर्ण पोथी है।
357	8.5x13	9	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
194	13.5x16.5	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
240	10x12	11	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
75	15.5x10	16	पद्य	C	पूर्ण	माढा	
154	21x13	22	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
71	15.3x9.3	17	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
50	7x8	10	पद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौं	
133	24x10	29	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9	12x20	12	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
4	7x20	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
7	9.5x19.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	10x22	8	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
181	10x17	11	गद्य	B	पूर्ण	चांदपुर	
144	8.5x26.5	9	गद्य	B	पूर्ण	भुसावल	
99	11x22.5	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1321	3466	पंचास्तिकाय सटीक	आ० कुंदकुंद/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1780
1322	5331	पंचास्तिकाय सटीक	आ० कुंदकुंद/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1920
1323	5537	पंचसंग्रह		प्राकृत/डी	1797
1324	5687	पंचलब्धि		हिन्दी/डी	
1325	5652	पंथी आगम पृच्छा		संस्कृत/डी	
1326	5668	पंचमी प्रोषद्य उद्यापन		संस्कृत/डी	1825
1327	5829	पंचमीव्रत उद्यापन		संस्कृत/डी	
1328	5846	प्रतिकमण कल्प		संस्कृत/डी	
1329	2520	प्रतिकमण		प्राकृत/डी	
1330	2663	प्रतिकमण		प्राकृत/डी	
1331	2765	प्रतिकमण		प्राकृत/डी	
1332	2836	प्रतिकमण वच०	पं० दुलीचंद	हिन्दी/डी	1948
1333	3315	प्रतिकमण-सूत्र		प्राकृत/डी	
1334	3386	प्रतिकमण-सूत्र		संस्कृत/डी	
1335	5088	प्रतिकमण-सूत्र		प्राकृत/डी	
1336	5693	प्रतिमा बहत्तरी	पं० ध्यानतराय	हिन्दी/डी	
1337	5845	प्रत्याख्यान कल्प		संस्कृत/डी	
1338	5604	प्रज्ञापना सूत्र		प्राकृत/डी	1784
1339	2417	प्रबोधसार	यशकीर्ति भट्टा०	संस्कृत/डी	
1340	2250	प्रवचनसार	आ० कुन्दकुन्द	प्राकृत/डी	
1341	2007	प्रवचनसार सटीक	आ० कुन्दकुन्द/आ० अमृतचंद	संस्कृत/डी	
1342	3500	प्रवचनसार सटीक	आ० कुन्दकुन्द/आ० अमृतचंद	सं०/हि./डी	1788
1343	2985	प्रवचनसार सटीक	आ० कुन्दकुन्द/पं० देवीदास	हिन्दी/डी	1921
1344	5215	प्रवचनसार सटीक	आ० कुन्दकुन्द/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1709
1345	5460	प्रवचनसार सटीक	आ० कुन्दकुन्द/पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1864
1346	6229	प्रश्नोत्तर		हिन्दी/डी	
1347	5154	प्रश्नोत्तर		हिन्दी/डी	
1348	5565	प्रश्नोत्तर वृत्ति	भट्टा० देवेन्द्र कीर्ति	संस्कृत/डी	1929
1349	5750	प्रश्नोत्तर धर्माभूत		संस्कृत/डी	
1350	1822	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	
1351	2030	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	1894
1352	2044	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	1830
1353	2093	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
85	22x12	17	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	10,12 पृ.जीर्ण-शीर्ण हैं।
160	14x24	13	गद्य	A	पूर्ण	जौला	
172	6x21	7	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
5	9x24	9	पद्य	D	पूर्ण	टोडारायसिंह	
2	8x19	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
6	11x25.5	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
5	9x12	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	12x8.5	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
16	6x18	7	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
14	6.5x19	7	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
8	11x16.5	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	12.5X25	13	गद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
13	7x21	5	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
30	9x18	10	गद्य	B	पूर्ण	दमोह	
4-17	8x15	9	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
3	10x26	14	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
3	12x18.3	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
541	9x20	14	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
18	10x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
39	10x26	17	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
119	10x20	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
410	13x10	13	गद्य	C	पूर्ण	कैलगुवाँ	
40	8x25	10	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
186	15x22	15	गद्य	A	पूर्ण	सिवनीमालवा	
242	22x12	17	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
17	12x22	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
8	10x23	9	गद्य	C	पूर्ण	बबीना	
15-151	8x20	16	गद्य	C	अपूर्ण	बून्दी	प्रा० के 14पत्र नहीं है।
26	8x20	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
13-100	11x21	13	पद्य	C	अपूर्ण	नईसराय	प्रा० के 12पत्र नहीं है।
85	11x27.3	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
129	9x23	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
37	8.5x20.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (झारखण्ड) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1354	2132	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1588
1355	2150	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1754
1356	2154	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1691
1357	2972	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1814
1358	5956	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	
1359	6160	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1767
1360	1662	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1876
1361	1852	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
1362	4961	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1855
1363	4972	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1747
1364	5057	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
1365	5084	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1883
1366	5434	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1907
1367	5461	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
1368	5793	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1904
1369	2153	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	1754
1370	2860	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1944
1371	5563	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	आ० सकलकीर्ति	संस्कृत / डी	
1372	6175	प्रश्न चूड़ामणि		संस्कृत / डी	
1373	1694	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1935
1374	1564	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1909
1375	1833	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1944
1376	1834	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1944
1377	1727	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1976
1378	3378	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1896
1379	3395	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	1986
1380	5135	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	
1381	5191	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	
1382	5258	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	
1383	5977	प्रश्नमाला		हिन्दी / डी	
1384	6169	प्रश्नमाला	इन्द्रनंदि आचार्य	प्राकृत / डी	
1385	5681	प्राकृत त्रिभंगी सटीक	पं० सोमदेव	संस्कृत / डी	
1386	2229	प्रोषध विधि गीत	पं० यशसमुद्र	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
150	10x21.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
162	9x24	9	गद्य / पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
121	9x24	10	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
127	10.5x21	14	पद्य	D	पूर्ण	झांसी	
69-113	10x22	13	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
66	16x23	14	पद्य	A(z)	पूर्ण	बर्लिन	
169	9x224	9	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
137	10x24	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
221	25x13	12	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
123	22x9	11	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
168	20x12	11	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
161	21x11	10	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
108	10x23	11	गद्य	C	पूर्ण	बघरा	
126	22x11	24	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
121	9.5x24	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
162	8x20	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	12x23.5	11		B	पूर्ण	माढ़ा	
142	8.5x20	17	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
5	9x19.5	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
41	11.5x18	14	गद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
32	11.3x26	12	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
38	13.5x23.5	12	गद्य	B	पूर्ण	काण्डव	
38	13.5x23.5	12	गद्य	B	पूर्ण	काण्डव	
32	14x19	14	गद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
73	6x18.5	8	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	21x14.5	14	पद्य	A	पूर्ण	नागपुर	
20	15x21	9	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
32	12x27	12	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
26	12x20.5	12	गद्य	C	पूर्ण	अजनास	
56	8x17	9	गद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
15	9x25	12	पद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
60	11x28	17	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	अप्रकाशित अद्यतन
4	8.5x21.5	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1387	5675	बंध, उदय, सत्त्व त्रिभंगी	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत / डी	
1388	5699	बंध, उदय, सत्त्व त्रिभंगी	आ० नेमिचन्द्र	प्राकृत / डी	
1389	5744	बत्तीस लक्षण छप्पय	अमर	संस्कृत / डी	
1390	4836	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1391	4851	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1392	4865	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1393	4880	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1394	5771	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1395	5910	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1396	6012	बाईस परीषहादि		हिन्दी / डी	
1397	2620	बारह आरा चौपाई		हिन्दी / डी	
1398	2246	बारह व्रत अतिचार वर्णन		हिन्दी / डी	
1399	2607	बारह भावना	पं० भगवतीदास	हिन्दी / डी	
1400	5001	बारह भावना	पं० डालूराम	हिन्दी / डी	
1401	4821	बारह भावना		हिन्दी / डी	
1402	5679	बारह व्रतोद्यापन		संस्कृत / डी	
1403	1524	बुद्धि प्रकाश	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1826
1404	2208	बुद्धि प्रकाश	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
1405	2934	बुद्धि प्रकाश	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
1406	3135	बुद्धि प्रकाश	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1977
1407	5123	बुद्धि प्रकाश	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
1408	5061	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1911
1409	5839	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
1410	2412	बीस ठाणा		प्राकृत / डी	1807
1411	1759	बोध रत्नाकर		हिन्दी / डी	1956
1412	2257	ब्रम्हमाला		हिन्दी / डी	1971
1413	1566	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1962
1414	2336	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1415	2346	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1416	2865	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1947
1417	2927	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1418	3133	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1419	5045	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1918

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	9x24	15	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
4	9.5x27.5	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
2	9x21	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
61-70	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
53-55	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
51-53	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
123-129	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
6	9x18	12	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
121-134	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
45-50	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
13	7.5x15.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
18	9x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
10	6.5x11.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	22x8	6	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
61-70	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
4	11x25	9	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
33	12.5x19	14	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
123	7x20.5	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
175	14x19	11	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
143	12x18.5	13	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
114	13x26	13	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
40	18x10	10	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
47	11x21.5	9	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
50	12x18	23	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9-31	13x20.5	14	पद्य	C	अपूर्ण	अशोकनगर	
49	11x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
419	11x26	13	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
78	13x24	15	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
599	11x19	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
451	11x27	13	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
334	12x28	14	गद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
665	13.5x23	13	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
462	26x11	12	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (वि.सं. संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1420	5111	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1421	5330	भगवती आराधना वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	1925
1422	5592	भगवती आराधना टीका		संस्कृत/डी	1999
1423	5605	भगवतीसूत्र		प्राकृत/डी	
1424	6276	भगवती सूत्र शतक		हिन्दी/डी	
1425	5655	भगवती प्राज्ञापना		प्राकृत/डी	
1426	6182	भरम-पत्र	क्षु० धर्मदास	हिन्दी/डी	
1427	5817	भर्तृहरि-शतक	भर्तृहरि	संस्कृत/डी	
1428	1521	भावदीपिका वच०	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	
1429	2405	भावदीपिका वच०	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1750
1430	3109	भावदीपिका वच०	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1981
1431	3431	भावदीपिका वच०	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1932
1432	5041	भावदीपिका वच०	पं० दीपचंद	हिन्दी/डी	1921
1433	5708	भावसंग्रह	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत/डी	
1434	2000	भावत्रिभंगी	नेमिचन्द्राचार्य	प्राकृत/डी	
1435	2289	भावपाहुड़	आ० कुन्दकुन्द	प्राकृत/डी	
1436	5760	महासती स्वाध्याय		प्राकृत/डी	1824
1437	2241	महादण्डक	भट्टा० विजयकीर्ति	संस्कृत/डी	1892
1438	6057	महावीर जी यात्रा वर्णन	पं० किशनलाल	हिन्दी/डी	
1439	2426	मनुष्य भव दुर्लभ वर्णन		संस्कृत/डी	
1440	6220	महावीर जी की रथोड़ी		हिन्दी/डी	
1441	5997	मालारोहण		संस्कृत/डी	
1442	2581	मिलन भाव		हिन्दी/डी	
1443	1698	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	1938
1444	3192	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	1944
1445	3479	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	1913
1446	5428	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	
1447	5439	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	
1448	5602	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	1857
1449	6093	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	
1450	6115	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	
1451	5131	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	
1452	6281	मिथ्यात्व खण्डन	पं० बखतराम	हिन्दी/डी	1964

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
230	10x26	12	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
562	13x26	12	गद्य	C	अपूर्ण	बबीना	
379	9x22.5	10	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
660	7x17.5	11	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	8x18.3	18	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	9x19	15	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
2	26.5x13	30	पद्य	A(z)	पूर्ण	अशोकनगर	
20	10x8.5	11	पद्य	B	अपूर्ण	भानपुरा	
185	11x23	12	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
172	10x25	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
144	14x26	14	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
185	10x26	11	गद्य	B	पूर्ण	नागपुर	
201	27x11	12	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
31	9x22	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
151	13x20	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	7x18	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
1	10x20	15	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
82	11x26	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
64	11x12	12	गद्य	C	पूर्ण	मुहासा	
4	10x23	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	8x9	17	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
8-10	14x18	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
11	6x17	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
33	8x19.5	7	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
24	14x21	12	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
50	16x10	9	पद्य	C	पूर्ण	कैलगुवाँ	
36	11x12	15	पद्य	B	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	
33	11.5x22.5	14	पद्य	C	पूर्ण	बघरा	
109	7x20	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
24	14x21	13	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
57	9x14	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
34	13x12	13	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
42-61	10x21	14	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1453	2514	मुनीश्वर पूर्वी	ब्र० माणिकचन्द्र	संस्कृत / डी	1845
1454	2809	मूलाचार प्रदीप	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1994
1455	4795	मूलाचार प्रदीप	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1800
1456	3105	मूलाचार वच०	पं० नंदलाल	हिन्दी / डी	1976
1457	5229	मूलाचार वच०	पं० नंदलाल	हिन्दी / डी	
1458	1722	मृत्यु-महोत्सव	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1939
1459	2304	मृत्यु-महोत्सव	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1926
1460	4902	मृत्यु-महोत्सव	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1461	5208	मृत्यु-महोत्सव	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1462	6144	मृत्यु-महोत्सव	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1463	1535	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1464	1597	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1465	2309	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	1919
1466	2872	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	1948
1467	3012	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1468	3023	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1469	3126	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1470	3253	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1471	4974	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1472	5226	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1473	5413	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1474	5577	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1475	5960	मोक्षमार्ग प्रकाशक	पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1476	2553	योगपाहुड़	योगीन्दु देव	अपभ्रंश / डी	
1477	2371	योगसार दोहा	योगीन्दु देव	अपभ्रंश / डी	
1478	2897	योगसार दोहा	योगीन्दु देव	अपभ्रंश / डी	
1479	3497	योगसार दोहा	योगीन्दु देव	अपभ्रंश / डी	
1480	5002	योगसार दोहा	योगीन्दु देव	अपभ्रंश / डी	
1481	5073	योगसार दोहा	योगीन्दु देव	अपभ्रंश / डी	
1482	5307	योगसार दोहा वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1937
1483	6112	योगसार दोहा वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	
1484	2259	योगरत्नमाला	नागार्जुन	संस्कृत / डी	
1485	6188	योनिपाहुड़		प्राकृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	8x21.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
144	11.5x16	11	पद्य / गद्य	B	अपूर्ण	सोलापुर	
81	31x14	16	पद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
486	13.5x22	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
452	12x24	15	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
33	8.5x14	8	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
32	8x17	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
345-347	9x10	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
11	13.5x20	13	गद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
13	9x13	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
299	11x25	12	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
271	14x22	21	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
205	10.5x27	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
343	8x21	10	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
210	9.5x25	11	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
238	9.5x21	11	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
194	10.5x26	12	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
264	8.3x24	10	गद्य	B	पूर्ण	पारोल	
408	15x12	11	गद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
265	12x24	12	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
325	11.5x22	12	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
286	10x25	11	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
253	14.5x24	13	गद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
4	8x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
28	9x18	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
26	7.5x24	7	पद्य	B	पूर्ण	माढा	
34	13x10	11	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
14	20x9	16	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
28	18x12	10	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
36	6x22	7	गद्य	A	पूर्ण	जौला	
36	8x19.5	8	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
22	10.5x27	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
20	7x19	14	पद्य	D(z)	अपूर्ण	पूना	

अनेकांत ज्ञान मंदिर ग्रोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1486	2033	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	आ० समन्तभद्र	संस्कृत / डी	1606
1487	4910	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	आ० समन्तभद्र	संस्कृत / डी	
1488	5427	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	आ० समन्तभद्र	संस्कृत / डी	
1489	5544	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	आ० समन्तभद्र	संस्कृत / डी	
1490	5568	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	आ० समन्तभद्र	संस्कृत / डी	1954
1491	5972	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	आ० समन्तभद्र	संस्कृत / डी	1952
1492	1611	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1493	1713	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1494	1928	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1495	2864	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1946
1496	2926	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1945
1497	3033	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1924
1498	3136	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1499	3220	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1963
1500	5221	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1501	5239	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1941
1502	5336	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1923
1503	5355	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1928
1504	5449	रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1936
1505	2404	रयणसार	आ० कुन्दकुन्द	प्राकृत / डी	
1506	2244	रात्रिभोजन भंजन दृष्टांत		हिन्दी / डी	
1507	6069	लक्षणावली		हिन्दी / डी	
1508	5736	लघु तत्त्वार्थसूत्र	प्रभाचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	
1509	2668	लघु चाणक्य		संस्कृत / डी	
1510	2637	लघु सामायिकपाठ		संस्कृत / डी	
1511	5919	लघु सामायिकपाठ		संस्कृत / डी	
1512	2385	लब्धिसार क्षपणासार सटीक	आ० नेमिचंद / पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	
1513	6134	लब्धिसार क्षपणासार सटीक	आ० नेमिचंद / पं० टोडरमल	हिन्दी / डी	1882
1514	4814	लेश्या-परिणाम		हिन्दी / डी	
1515	4829	लेश्या-परिणाम		हिन्दी / डी	
1516	4844	लेश्या-परिणाम		हिन्दी / डी	
1517	4859	लेश्या-परिणाम		हिन्दी / डी	
1518	2643	लोक-स्थिति		संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	8x21	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
385-395	9x10	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
18	13x22	13	पद्य	C	पूर्ण	मंसूरपुर	
7	9x26	13	पद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
27	7x20	9	पद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
38	8.5x17	9	पद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
416	10x28	11	गद्य	A	पूर्ण	केवलारी	
180	12x21	12	गद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
319	14x26	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
348	13x25.5	14	गद्य	B	पूर्ण	माढा	
251	11x25	12	गद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
451	11x22	13	गद्य	B	पूर्ण	जबलपुर	
405	11x24	12	गद्य	D	पूर्ण	सारोला	
368	12x28.5	13	गद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
231	14x26	14	गद्य	A	पूर्ण	अजनास	
471	10x26	10	गद्य	A	पूर्ण	अजनास	
293	15x26	16	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
396	10.5x27	10	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
383	14x27	14	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
4	11x25	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
26	10x22	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
151-152	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	चौबीस तीर्थकरों का वर्णन
1	8x19.5	7	गद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
5	8x21.5	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
7	7x12	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
43-44	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
150	8x23	8	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
763-977	15x30	16	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
169	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	मात्र १ पत्र है।
1	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
161	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
139-140	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
9	8.5x22.5	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1519	1788	वचनकोष वचनिका	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
1520	1924	वसुनंदि श्रावकाचार वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1847
1521	5242	वसुनंदि श्रावकाचार वच०	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	1930
1522	3137	विद्वज्जन बोधक	पं० पन्नालाल संघी	सं. / हि. / डी	
1523	5230	विद्वज्जन बोधक	पं० पन्नालाल संघी	सं. / हि. / डी	
1524	5235	विद्वज्जन बोधक	पं० पन्नालाल संघी	सं. / हि. / डी	1939
1525	5363	विवाह-पद्धति		हिन्दी / डी	
1526	2689	विवाह-वृन्दावन		संस्कृत / डी	1775
1527	4892	वृहत्सामायिक विधि		सं / हि. / डी	1952
1528	5076	वैराग्य-शतक	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
1529	5536	वैराग्य-शतक	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
1530	6024	वैराग्य-भावना		हिन्दी / डी	
1531	5616	व्याख्याप्रज्ञप्ति		प्राकृत / डी	
1532	6121	व्रत-पत्र		हिन्दी / डी	
1533	2476	व्रत-पत्र		हिन्दी / डी	1957
1534	1915	शांति अष्टक सटीक		संस्कृत / डी	
1535	1781	शिखर पच्चीसी		हिन्दी / डी	
1536	2523	शुक्लध्यान कथन		हिन्दी / डी	
1537	1768	श्लोक-संग्रह		संस्कृत / डी	
1538	5364	श्लोक-संग्रह		संस्कृत / डी	
1539	6328	श्रावकाचार		मराठी / डी	
1540	6274	श्रीखण्ड प्रशस्ति टीका	गुणविनय गणि	संस्कृत / डी	
1541	2342	षट्कर्मोपदेश रत्नमाला	पं० लालचन्द्र पाण्डे	हिन्दी / डी	1807
1542	2970	षट्कर्मोपदेश रत्नमाला	पं० लालचन्द्र पाण्डे	हिन्दी / डी	1641
1543	2527	षट् काल स्वरूप		हिन्दी / डी	
1544	5571	षट्पाहुड	आ० कुन्दकुन्द देव	प्राकृत / डी	1717
1545	6323	षट्पाहुड	आ० कुन्दकुन्द देव	प्राकृत / डी	
1546	2233	षट्पाहुड सटीक	आ० श्रुतसागर सूरि	संस्कृत / डी	1817
1547	2472	षट्पाहुड सटीक	आ० श्रुतसागर सूरि	संस्कृत / डी	1756
1548	1719	षट्पाहुड वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी / डी	
1549	5706	षट्प्लेश्या		हिन्दी / डी	
1550	2602	षट्पंचाशिका		संस्कृत / डी	
1551	2605	षोडशकारण भावना		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
177	9x26	11	गद्य	D	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
68	13.5x19.5	15	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
119	8x25	9	गद्य	A	पूर्ण	सिवनीमालवा	
600	13.5x22.3	13	पद्य / गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
680	12x24	11	पद्य / गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
681-1052	12x24	11	पद्य / गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
15	16.5x12	16	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
19	8.5x21.5	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
57-84	13x14	20	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
19	22x10	15	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
29	6.5x20.5	6	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
169-175	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	बीना	
35	10x28	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	14x21	23	गद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
18	7x18	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
44	10x23	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
50	12x18	18	पद्य	C	पूर्ण	चांदपुर	
3	9x26	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5	9.6x15	9	गद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
11	5.5x17	7	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
32	9.8x26	11	गद्य	C	अपूर्ण	माढा	
51	8x20	15	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
123	11x26	12	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
84	7.5x21	10	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
9	8x21.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
67	9x18	11	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
26	13x17	15	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
62	10x20	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
70	7x16	9	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
75	11x17	15	गद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
2	9x24	9	पद्य	D	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	8.5x15	6	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	9x16	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1552	2127	समयसार सटीक	आ०कुंदकुंद / आ० अमृतचन्द्र	संस्कृत / डी	
1553	3051	समयसार सटीक	आ०कुंदकुंद / आ० अमृतचन्द्र	संस्कृत / डी	
1554	5683	समयसार सटीक	आ०कुंदकुंद / आ० अमृतचन्द्र	संस्कृत / डी	
1555	2205	समयसार सटीक	आ०कुंदकुंद / आ० जयसेन	संस्कृत / डी	1768
1556	2335	समयसार वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी / डी	1915
1557	4962	समयसार वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी / डी	
1558	5056	समयसार वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी / डी	1917
1559	6108	समयसार सटीक	पं० राजमल	हिन्दी / डी	1733
1560	5930	समयसार कलश	आ० अमृतचन्द्र	संस्कृत / डी	1638
1561	2759	समयसार कलश	आ० अमृतचन्द्र	संस्कृत / डी	
1562	1868	समाधितंत्र	पूज्यपाद आचार्य	संस्कृत / डी	
1563	1880	समाधितंत्र	पूज्यपाद आचार्य	संस्कृत / डी	1783
1564	2434	समाधितंत्र	पूज्यपाद आचार्य	संस्कृत / डी	
1565	4897	समाधितंत्र	पूज्यपाद आचार्य	संस्कृत / डी	
1566	2068	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / प्रभाचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	
1567	3429	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / प्रभाचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	
1568	5236	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / प्रभाचन्द्राचार्य	संस्कृत / डी	1834
1569	2163	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	1776
1570	2166	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	1885
1571	2203	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	1811
1572	2212	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	
1573	2863	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पं० माणिकचन्द्र	हिन्दी / डी	
1574	2981	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद /	हिन्दी / डी	1720
1575	3295	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पं० लक्ष्मणदास	हिन्दी / डी	1922
1576	3495	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	1750
1577	5216	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	1716
1578	5743	समाधितंत्र सटीक	आ०पूज्यपाद / पर्वताचार्य	हिन्दी / डी	1765
1579	2585	समाधिमरण पाठ	कवि सूरचन्द्र	हिन्दी / डी	1990
1580	6025	समाधिमरण पाठ	कवि सूरचन्द्र	हिन्दी / डी	
1581	6088	समाधिमरण पाठ	कवि सूरचन्द्र	हिन्दी / डी	
1582	5411	समाधिमरण पाठ वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1582A	6000	समोत्पत्ति		संस्कृत / डी	
1583	5710	समाधिमरण पाठ वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35	9x19.5	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
101	20.5x9.5	27	गद्य	B	पूर्ण	जबलपुर	
23	13x34	14	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
151	9x20	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
120	11x23	12	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
331	25x12	13	गद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद	
300	24x10	10	गद्य	C	पूर्ण	बबीना	
228	8x22	9	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
10-38	11.5x8.5	15	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	प्रा. के ६ पत्र नहीं हैं।
57	6.5x13.2	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
57	9x21	21	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
202	8x22	10	गद्य/पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	हिन्दी टीका भी है।
6	9x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
141-150	11x10	11	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
33	10.5x24.5	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
28	8x19.5	10	गद्य	B	पूर्ण	नागपुर	
19	12x26	14	गद्य	A	पूर्ण	अजनास	
105	12x23	24	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
141	9x25	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
168	9.5x21	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
149	9x22	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
34	7.5x25	6	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
118	7.5x21.5	14	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
19	5.5x12	7	पद्य	A	पूर्ण	मुहारीकलाँ	छंदोबद्ध है।
156	23x8	10	गद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
165	16x21	15	गद्य	B	पूर्ण	सिवनीमालवा	
71	7.8x22	18	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
14	16x11	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
176-182	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
4	14x26	14	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
36	15x23.5	13	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
15-33	14x18	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
17	9x21.5	10	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकांत ज्ञान मंदिर ग्रोथ संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्वम संघत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1583A	5940	सप्ततत्त्व गीत		हिन्दी/डी	
1584	4866	सम्बोधि पंचासिका	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	
1585	4852	सम्बोधि पंचासिका	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	
1586	4881	सम्बोधि पंचासिका	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	
1587	5143	सम्बोधि पंचासिका	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	1889
1588	5911	सम्बोधि पंचासिका	बुधजन कवि	हिन्दी/डी	
1589	3339	सम्यक्त्व कौमुदी	पं० जोधराज गोदिका	हिन्दी/डी	1847
1590	2837	सम्मदशिखर-माहात्म्य	जगतकीर्ति आचार्य	हिन्दी/डी	1951
1591	3369	सम्मदशिखर-माहात्म्य	जगतकीर्ति आचार्य	हिन्दी/डी	1913
1592	3436	सम्मदशिखर-माहात्म्य	जगतकीर्ति आचार्य	हिन्दी/डी	
1593	3484	सम्मदशिखर-माहात्म्य	जगतकीर्ति आचार्य	हिन्दी/डी	1842
1594	5008	सम्मदशिखर-माहात्म्य	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	1880
1595	5173	सम्मदशिखर-माहात्म्य	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	
1596	5303	सम्मदशिखर-माहात्म्य	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	1910
1597	5773	सम्मदशिखर-माहात्म्य	पं० लालचंद	हिन्दी/डी	1884
1598	3268	सम्यक्त्वलीला-विलास	कवि विनोदी लाल	हिन्दी/डी	1954
1599	6325	सम्यग्ज्ञान-दीपिका	क्षु० धर्मदास	हिन्दी/डी	
1600	5576	सम्यग्ज्ञान-चंद्रिका	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	
1601	5811	सम्यग्ज्ञान-चंद्रिका	पं० टोडरमल	हिन्दी/डी	
1602	2361	सज्जनचित्त बल्लभ	मल्लिषेण सूरि	संस्कृत/डी	
1603	3025	सज्जनचित्त बल्लभ	मल्लिषेण सूरि	संस्कृत/डी	
1604	5848	सज्जनचित्त बल्लभ	मल्लिषेण सूरि	संस्कृत/डी	
1605	3437	सज्जनचित्त बल्लभ सटीक	मल्लिषेण सूरि/	हिन्दी/डी	1939
1606	5291	सज्जनचित्त बल्लभ सटीक	मल्लिषेण सूरि/	हिन्दी/डी	
1607	2907	सर्वार्थसिद्धि	आ० पूज्यपाद	संस्कृत/डी	
1608	3110	सर्वार्थसिद्धि वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी/डी	
1609	3305	सर्वार्थसिद्धि वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी/डी	
1610	5455	सर्वार्थसिद्धि वच०	पं० जयचंद छाबड़ा	हिन्दी/डी	1892
1611	2458	सत्ता त्रिभंगी	पं० बालचन्द्र	संस्कृत/डी	1641
1612	6271	सत्ता त्रिभंगी	पं० बालचन्द्र	संस्कृत/डी	
1613	1942	सत्ता त्रिभंगी		हिन्दी/डी	1804
1614	2026	सामायिकपाठ	भट्टा० धर्मचन्द्र	संस्कृत/डी	1665
1615	2538	सामायिकपाठ		संस्कृत/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
54-68	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
56-71	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
130-161	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
6	10x21	8	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
135-141	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
90	10x20	12	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
35	14x23	15	पद्य	D	पूर्ण	सोलापुर	
62	11x20	11	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
14	11.5x21.5	13	पद्य	D	पूर्ण	माढा	
70	18x12	10	पद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
59	20x10	11	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
63	10x15	8	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
63	9x20	9	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
80	6.5x14	7	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
158	9.5x25	10	पद्य	B	पूर्ण	छोटीमुहारी	
94	15x21	13	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
681	11.5x27	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
681	11.5x27	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
28	10x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
70	6.5x11.5	8	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
7	12x18.3	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
25	11.5x23.5	10	पद्य	C	पूर्ण	माढा	
18	22x13	13	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
70	8.5x16	10	गद्य	C	अपूर्ण	माढा	
305	13.5x22	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
320	9x21	13	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
221	13x27	17	गद्य	A	पूर्ण	जानसट	
31	8x23	9	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	10.3x23	15	गद्य	C	अपूर्ण	माढा	
93	12x22	12	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
16	8x20	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	7x19	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर ग्रोथ संस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1616	3198	सामायिक पाठ		संस्कृत/डी	1968
1617	5087	सामायिक पाठ		संस्कृत/डी	
1618	5645	सामायिक पाठ		संस्कृत/डी	
1619	5828	सामायिक पाठ		संस्कृत/डी	
1620	5860	सामायिक पाठ		संस्कृत/डी	
1621	6119	सामायिक पाठ		संस्कृत/डी	
1622	2110	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	
1623	2311	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1933
1624	2533	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1884
1625	2589	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1928
1626	2595	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1935
1627	2604	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1928
1628	2786	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	
1629	2856	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1947
1630	3035	सामायिक पाठ	भट्टा० त्रिलोककीर्ति	हिन्दी/डी	1973
1631	3202	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1938
1632	5172	सामायिक पाठ वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1633	5159	सामायिक पाठ वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1634	6159	सामायिक पाठ वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी/डी	
1635	5676	सामायिक पाठ वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी/डी	1896
1636	6242	सामायिक पाठ भाषानुवाद	पं० गिरधारीलाल शर्मा	हिन्दी/डी	
1637	2388	सामायिक सूत्र		संस्कृत/डी	
1638	5761	सिद्धान्त शास्त्र		संस्कृत/डी	
1639	2535	सिद्धान्त सूत्र चौपाई	पं० जगन्नाथ	हिन्दी/डी	
1640	1528	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	1907
1641	1830	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	1871
1642	2062	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	1815
1643	2588	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	1915
1644	3301	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	1691
1645	3343	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	1882
1646	3493	सिन्दूर प्रकरण	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत/डी	
1647	3406	सिन्दूर प्रकरण सटीक	सोमप्रभ आचार्य/कँवर पाल	हिन्दी/डी	1955
1648	5937	सिन्दूर प्रकरण सटीक	सोमप्रभ आचार्य/कँवर पाल	हिन्दी/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	10x17.5	7	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
3	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
14	10.8x16.8	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
45-52	10x12	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11	8x14.5	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
1	13.5x22	13	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
21	8.5x18	7	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	9x25	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5-36	11x19	13	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
28			गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
23	8.5x12	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
28	8x12	9	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	11.3x16.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
53	10.5x23	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	11x26	14	गद्य	B	पूर्ण	पाटन	
41	15x12	17	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
51	13x15	18	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	10x24	11	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
39	16x21	15	गद्य	B	पूर्ण	आक्सफोर्ड	
29	9.5x23.5	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
37	16.5x14	19	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
23	19x10	31	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
22	11x18	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
7	7x19	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
27	12x14	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	9x10.5	10	पद्य	B	पूर्ण	मझावरा	
20	10.5x26	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
11	10x17	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
40	7x18	7	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
13	7.3x21	13	पद्य	B	अपूर्ण	रायसेन	
10	19x9	11	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
43	12x26	12	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
151-156	11.5x8.5	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1649	2024	सिद्धान्तसार दीपक	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1810
1650	2032	सिद्धान्तसार दीपक	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1820
1651	2047	सिद्धान्तसार दीपक	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1847
1652	2398	सिद्धान्तसार दीपक	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
1653	2821	सिद्धान्तसार दीपक	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
1654	3015	सिद्धान्तसार दीपक वच०	कवि नथमल बिलाला	हिन्दी / डी	1857
1655	5328	सिद्धान्तसार दीपक वच०	कवि नथमल बिलाला	हिन्दी / डी	1960
1656	5405	सिद्धान्तसार दीपक वच०	कवि नथमल बिलाला	हिन्दी / डी	1920
1657	1507	सिद्धान्तसार संग्रह	नरेन्द्रसेन आचार्य	संस्कृत / डी	1845
1658	2101	सिद्धान्तसार संग्रह	नरेन्द्रसेन आचार्य	संस्कृत / डी	
1659	2340	सिद्धान्तसार संग्रह	नरेन्द्रसेन आचार्य	संस्कृत / डी	1944
1660	2896	सिद्धान्तसार संग्रह	नरेन्द्रसेन आचार्य	संस्कृत / डी	1514
1661	3316	सिद्धान्तसार संग्रह	नरेन्द्रसेन आचार्य	संस्कृत / डी	
1662	5802	सिद्धान्तसार संग्रह सटीक	कवि देवीदास	हिन्दी / डी	1933
1663	6172	सिद्धान्तसार संग्रह भाष्य	आ० ज्ञानभूषण	संस्कृत / डी	
1664	1570	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1665	1593	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1883
1666	1812	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1667	1840	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1838
1668	2352	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1669	2938	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1670	3222	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1838
1671	3224	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1672	3243	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1673	3271	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1951
1674	3323	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1910
1675	3454	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1676	3470	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1767
1677	4928	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1868
1678	5055	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1933
1679	5138	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
1680	5584	सुदृष्टि तरंगणि	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1893
1681	2029	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1831

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
233	11.5x21	15	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	हिन्दी टीका भी दी है।
194	8x20	9	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	हिन्दी टीका भी दी है।
154	8x19	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
145	7x21	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
189	8x19	12	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
157	12.5x25	14	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
228	12x23	12	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
244	11x26.5	11	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
132	15.5x30	14	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
186	10x25.5	14	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	हिन्दी टीका भी दी है।
209	9.5x26	12	पद्य/गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	हिन्दी टीका भी दी है।
110	9x25	14	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
72-116	7x19	9	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	प्रा. के 71 पत्र नहीं हैं।
267	11.5x19	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
60	8.5x22.5	9	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
760	11x23	11	गद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
646	10.5x27	10	गद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
267	10x25	11	गद्य	D	अपूर्ण	भुसावल	
593	11.5x26	12	गद्य	B	पूर्ण	काण्डव	
453	11x26	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
300	14x27	10	गद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
557	11x25	12	गद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
358	12x25	12	गद्य	A	पूर्ण	डोंगरा	
	11x26	12	गद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
494	13x25	14	गद्य	A	पूर्ण	छोटीमुहारी	
560	10x24	12	गद्य	C	पूर्ण	रजवांस	
515	23x12	14	गद्य	C	पूर्ण	अकलूज	
449	27x12	12	गद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
546	25x11	13	गद्य	C	अपूर्ण	फिरोजाबाद	
526	23x11	11	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
620	11x21	11	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
704	12x30.5	14	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
23	10x23	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञान मंदिर ग्रोथ संस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1682	2171	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1682
1683	2240	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1792
1684	2314	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1656
1685	3041	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
1686	3311	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
1687	5132	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1903
1688	6151	सुभाषितावली	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	
1689	3130	सुभाषितावली वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	
1690	5329	सुभाषितावली वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1947
1691	5458	सुभाषितावली वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	
1692	5575	सुभाषितार्णव	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1748
1693	3057	सुभाषितार्णव	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1946
1694	2071	सुभाषित रत्नमाला	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1883
1695	2975	सुभाषित रत्नमाला	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1708
1696	2192	सुभाषित रत्नसंदोह	अमितगति आचार्य	संस्कृत / डी	1532
1697	6158	सुभाषित रत्नसंदोह वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1939
1698	2097	सुभाषित ग्रंथ	सकलकीर्ति आचार्य	संस्कृत / डी	1831
1699	5643	सुभाषित धर्म प्रश्नोत्तर	ब्र. ज्ञानसागर	संस्कृत / डी	
1700	2435	सूक्ति मुक्तावलि	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत / डी	1675
1701	2898	सूक्ति मुक्तावलि	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत / डी	
1702	2918	सूक्तिमुक्तावलि सटीक	सोमप्रभ आचार्य	मराठी / डी	
1703	2971	सूक्तिमुक्तावलि	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत / डी	
1704	3042	सूक्तिमुक्तावलि	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत / डी	
1705	6191	सूक्तिमुक्तावलि	सोमप्रभ आचार्य	संस्कृत / डी	
1706	6155	सूत्रप्रज्ञप्ति	श्री मलयगिरि	प्राकृत / डी	
1707	5011	सूत्रप्राभृत सटीक	आ० श्रुतसागर	संस्कृत / डी	
1708	2222	सोमशत-प्रकरण		संस्कृत / डी	
1709	5367	सोलहकारण भावनादि		हिन्दी / डी	
1710	2142	संग्रहणी सूत्र		प्राकृत / डी	1770
1711	5626	संग्रहणी सूत्र	हरिभद्र सूरि	प्राकृत / डी	1907
1712	5721	संग्रहणी सूत्र	चन्द्रमुनि	प्राकृत / डी	
1713	6109	संग्रहणी सूत्र		प्राकृत / डी	1808
1714	5091	संध्या-वंदना		संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27	7x9	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
34	8x22	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
20	9x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
87	6.5x21	8	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
18	9x17.5	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
22	9x19	12	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
17	11x24	11	पद्य	A(z)	पूर्ण	आक्सफोर्ड	
65	13x22.3	13	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
53	16x24	17	गद्य	C	पूर्ण	जौला	
55	16x23.5	17	गद्य	B	पूर्ण	जानसट	
76	7.5x27.5	9	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
113	14x25	12	गद्य	A	पूर्ण	जबलपुर	हिन्दी टीका भी दी है।
23	8.5x21	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
31	7x21	9	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
55	7.5x25.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
265	10x20	9	गद्य	A(z)	पूर्ण	भावनगर	
31	8.5x19	10	पद्य	B	पूर्ण	भावनगर	
65	13x27	15	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	संकलित ग्रन्थ है।
19	9.5x19	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
56	7x26	7	पद्य	A	पूर्ण	माढ़ा	
	10x22	10	गद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
18	9x17.5	7	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
18	8x7.5	6	पद्य	C	अपूर्ण	झांसी	
10	7x16	10	पद्य	A(z)	पूर्ण	आक्सफोर्ड	
291	14x21	13	पद्य/गद्य	A(z)	पूर्ण	कलकत्ता	
6	25x11	15	गद्य	B	पूर्ण	बांसी	
28	9x19	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
58	8x15	7	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
16	9.5x19	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	11x23	12	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
48	9x21	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
17	7.5x18.5	12	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
21-24	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	

अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान, बीना (झारख) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1715	2727	संग्रह ग्रंथ		हिन्दी / डी	
1716	2997	संग्रह ग्रंथ		संस्कृत / डी	1708
1717	3138	संग्रह ग्रंथ		हिन्दी / डी	1936
1718	3399	संग्रह ग्रंथ		हिन्दी / डी	
1719	3480	संग्रह ग्रंथ		संस्कृत / डी	1840
1720	5287	संग्रह ग्रंथ		हिन्दी / डी	
1721	5292	संग्रह ग्रंथ		सं. / हिन्दी / डी	
1722	5769	संग्रह ग्रंथ		सं. / हिन्दी / डी	
1723	6117	संग्रह ग्रंथ		सं. / हिन्दी / डी	
1724	6335	संबोध सत्ताणवी भावना		सं. / हिन्दी / डी	1691
1725	4893	स्वाध्याय पाठ विधि		संस्कृत / डी	
1726	5068	हितोपदेशी धर्म प्रबोधनी	पं० जवाहरलाल	हिन्दी / डी	1946
1727	6124	हंसराज चौपाई	आचार्य सुरेन्द्रकीर्ति (लिपिकार)	हिन्दी / डी	1817

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
170	12x16	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
356	11x19.5	14	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
303	27.5x14	24	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
136	16x22	13	पद्य	C	पूर्ण	दमोह	
142	12x13	11	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
144	13x21	12	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
244	20x12	20	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
14	10.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
65	22x13	18	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	बबीना	
21	24x11	31	पद्य/गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
85-88	13x14	20	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
15	21x12	13	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
14	12.5x20.5	23	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1728	1821	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1729	2057	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1730	2379	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1731	2419	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1732	2529	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1733	3492	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1734	5006	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1735	5012	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	1934
1736	5153	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1737	5533	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	1849
1738	5539	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1739	5709	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1740	5764	अमरकोष	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1741	1823	अनेकार्थ ग्रंथ		संस्कृत / डी	
1742	3077	अनेकार्थ मंजरी		संस्कृत / डी	
1743	2393	अनेकार्थ मंजरी		संस्कृत / डी	
1744	2436	अनेकाक्षर कोष		संस्कृत / डी	1924
1745	6282	अन्यमत सार संग्रह		हिन्दी / डी	
1746	2506	अभिधान चिंतामणि	हेमचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	
1747	2980	अभिधान चिंतामणि	हेमचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	
1748	5724	अभिधान चिंतामणि	हेमचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	1895
1749	2191	अष्टशती	अकलंक स्वामी	संस्कृत / डी	
1750	5836	अष्टसहस्री	आ० विद्यानंद स्वामी	संस्कृत / डी	
1751	5837	अष्टसहस्री	आ० विद्यानंद स्वामी	संस्कृत / डी	1910
1752	5838	अष्टसहस्री	आ० विद्यानंद स्वामी	संस्कृत / डी	
1753	4909	आप्तमीमांसा	समन्तभद्राचार्य	संस्कृत / डी	1890
1754	2251	आप्तपरीक्षा	आ० विद्यानंद स्वामी	संस्कृत / डी	1710
1755	2552	एकाक्षर नाममाला	विश्वशम्भु मुनि	संस्कृत / डी	
1756	2020	एकावन सूत्र	पं० जगन्नाथ	संस्कृत / डी	
1757	2413	कुवलयानंद		संस्कृत / डी	1850
1758	6327	कातन्त रूपमाला वृत्ति	दुर्ग सिंह	संस्कृत / डी	
1759	6045	जैनेन्द्र व्याकरण वृत्ति	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत / डी	1964
1760	4918	जैनेन्द्र व्याकरण सूत्र	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत / डी	1807

ढ्याय, व्याकरण, कोष-ग्रन्थ
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26-100	7x16	9	पद्य	C	अपूर्ण	नईसराय	
62	9x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16-93	7x20	9	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
53	9x22	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
25	7x17	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16	19x7	8	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
45	20x8	15	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
21	10x19	18	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
10	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
87	10.5x23.5	12	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
	9.5x25.5	16	पद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
34	6x11	9	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	8x20	10	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
18	7.5x11	8	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
18	16x8	15	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
14	8x23	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	9x15	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
44	11x18.5	13	गद्य	C	पूर्ण	सारोला	
42	9.5x24.5	18	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
47	7x19	13	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
162	9.5x21	17	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
23	12.5x28.5	15	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
225	10x27	11	गद्य	A	पूर्ण	को० प० बीना	
226	10x27	11	गद्य	A	पूर्ण	को० प० बीना	
288	8x27	10	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
374-384	9x10	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
18	9x21	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	9x21	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	7x18	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
93	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
40	12x28.3	14	गद्य	A	पूर्ण	सारोला	
398	9x22.5	12	गद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
49	20x8	8	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	

कुल श्लोक 158 हैं।

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (झागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1761	1980	तर्कशास्त्र	केशव मिश्र	संस्कृत / डी	
1762	1990	तर्कशास्त्र	केशव मिश्र	संस्कृत / डी	1692
1763	2126	देवागम स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
1764	5851	देवागम स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	1625
1765	2265	देवागम स्तोत्र वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी / डी	1918
1766	5325	देवागम स्तोत्र वच०	पं० जयचन्द्र छाबड़ा	हिन्दी / डी	
1767	5850	देवागम वृत्ति	वसुनंदि आचार्य	संस्कृत / डी	
1768	6196	देवागम वृत्ति	वसुनंदि आचार्य	संस्कृत / डी	1883
1769	2027	धनअय निघण्टु	ब्र० मेघ	संस्कृत / डी	1730
1770	6250	धातुवली		संस्कृत / डी	
1771	5628	धातुपाठ		संस्कृत / डी	
1772	6337	धातुपाठ		संस्कृत / डी	
1773	2048	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
1774	2202	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	1676
1775	2709	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	1824
1776	5257	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
1777	6001	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
1778	5558	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	1750
1779	6340	नाममाला	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
1780	2172	नाम लिंगानुशासन	अमरसिंह	संस्कृत / डी	1835
1781	2232	नाम लिंगानुशासन	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1782	2834	नाम लिंगानुशासन	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1783	5702	नाम लिंगानुशासन	अमरसिंह	संस्कृत / डी	
1784	2782	निघण्टु शब्दकोष	धनअय कवि	संस्कृत / डी	1692
1785	6161	न्यायदीपिका	अभिनव धर्म भूषण	संस्कृत / डी	
1786	5528	न्यायदीपिका	अभिनव धर्म भूषण	संस्कृत / डी	1867
1787	6199	न्यायदीपिका प्रश्नोत्तर		संस्कृत / डी	1954
1788	4898	परीक्षामुख	आ० माणिक्यनंदि	संस्कृत / डी	1890
1789	4990	परीक्षामुख	आ० माणिक्यनंदि	संस्कृत / डी	
1790	5758	पट्टावली		संस्कृत / डी	1830
1791	5768	पट्टावली		संस्कृत / डी	
1792	2537	पंचसंधि		संस्कृत / डी	1699
1793	2900	प्राकृत व्याकरण		प्राकृत / डी	

न्याय, व्याकरण, कोष-ग्रन्थ
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रन्थ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	8x20	16	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
25	8x19.5	13	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	10x21.5	12	पद्य	A	अपूर्ण	भानपुरा	
8	6x13.3	9	पद्य	A	पूर्ण	को० प० बीना	
71	8x25	11	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
62	9.5x23	13	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
35	8.8x21	12	गद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
38	11x17	13	गद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
21	7x22	8	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	21x8.5	27	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	11x24.5	14	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
23	7x20	7	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	8x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
23	8.5x18.5	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
20	10.5x20	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
3	22x13	21	पद्य	C	अपूर्ण	अजनास	
34-62	14x18	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
46-101	8x17.5	10	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
14	26x11	36	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
24	9x20.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
97	7.5x16	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
63	14x20	16	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
19	8x27	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
84	9x23	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
33	10x24	11	गद्य	A(z)	पूर्ण	बर्लिन	
14	10x26	16	गद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
7	14.5x9	15	गद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
153-162	10x11	12	गद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
73	10x17	21	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
24	10x19	15	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
5	7.5x16	9	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
7	8x21	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	11x20	13	गद्य	B	पूर्ण	माढा	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सामर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1794	6180	प्राकृत लक्षण		प्राकृत / डी	
1795	5285	प्रमाणपरीक्षा वच०	पं० भागचन्द्र	हिन्दी / डी	
1796	2040	प्रमेयरत्नमाला	लघु अनंतवीर्य	संस्कृत / डी	1718
1797	4987	प्रमेयरत्नमाला वच०	पं० जयचन्द्र छाबडा	हिन्दी / डी	1936
1798	6338	बृहद् गुर्वावली		हिन्दी / डी	
1799	6042	भट्टी व्याकरण	भट्टी कवि	संस्कृत / डी	
1800	2200	मधुमालती		हिन्दी / डी	1853
1801	2226	राजनीतिशास्त्र	मुनि दयालुदास	संस्कृत / डी	1712
1802	6337	लघुसिद्धान्तकौमुदी	वरदराज	संस्कृत / डी	1699
1803	2048	वचनकोष	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
1804	2202	वचनकोष	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1786
1805	2709	वचनकोष	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	1850
1806	5257	वचनकोष	पं० बुलाकीदास	हिन्दी / डी	
1807	5958	वदन कला निधि	वदन कवि	संस्कृत / डी	
1808	3430	विश्वप्रकाश कोष		संस्कृत / डी	
1809	1877	विदग्ध-मुख-मण्डन	धर्मदास	संस्कृत / डी	
1810	2054	विदग्ध-मुख-मण्डन	धर्मदास	संस्कृत / डी	
1811	2125	विदग्ध-मुख-मण्डन	धर्मदास	संस्कृत / डी	1750
1812	2159	विदग्ध-मुख-मण्डन	धर्मदास	संस्कृत / डी	
1813	6044	वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी		संस्कृत / डी	
1814	5762	शब्दशास्त्र		संस्कृत / डी	
1815	2675	शब्दअधिकार		संस्कृत / डी	1913
1816	2184	शीघ्रबोध	पं० काशीनाथ	संस्कृत / डी	1929
1817	5573	शीघ्रबोध	पं० काशीनाथ	संस्कृत / डी	1820
1818	2021	श्यामर	पं० पूर्णानंद	संस्कृत / डी	1897
1819	5622	षट्पाठ	पं० उमेदराम	हिन्दी / डी	1860
1820	5733	षट्कारक	विनश्वरनंदी	संस्कृत / डी	
1821	2076	षट्पंचाशिका	भट्टोत्पाद	संस्कृत / डी	1814
1822	5694	षट्दर्शन पाखण्ड		संस्कृत / डी	
1823	6105	षट्दर्शन सूत्र	हेमचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	1648
1824	1809	सप्तपदार्थी	शिवादित्य मिश्र	संस्कृत / डी	1848
1825	1988	सप्तपदार्थी	शिवादित्य मिश्र	संस्कृत / डी	
1826	1977	सर्वज्ञाभाव		संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक मुद्रितलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	7x23	15	गद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
110	14x19	14	गद्य	C	पूर्ण	सिवनीमालवा	
135	9x21	8	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
191	20x13	12	गद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद	
13	8x21	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
81	10x17	12	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	18x12	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	8.5x21	15	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
79	8x18	9	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
65	10x24	10	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
161	10.5x20	14	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
143	10x27	12	गद्य	C	पूर्ण	रजवांस	
114	10x25	12	गद्य	C	पूर्ण	जानसट	
6	7x18	13	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
71	8.5x20.5	12	पद्य	B	पूर्ण	नागपुर	
79	8x22	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
22	12x28	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
27	8x19	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
31	10x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
121	9.5x25	12	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
23	9x20	11	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
35	9.5x13	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
81	10x21	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
20	12x18	10	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
41	9x19	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
2	11x27	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
17	9x18	14	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
14	13x27	18	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
1	9x23	10	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4-6	7.5x21	15	गद्य	C	पूर्ण	अजमेर	प्रा.के 3 पत्र नहीं हैं
79	8.5x22	11	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	हिन्दी टीका भी दी है।
9	7x19	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	8x22	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञानमंदिर छोटसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1827	2017	सर्वशास्त्र विशारद	पं० काशीनाथ	संस्कृत / डी	1893
1828	1736	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1829	1894	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1830	2053	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1831	2439	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1832	2820	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1833	2840	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1834	2979	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	1737
1835	2561	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1836	3022	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1837	5302	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	1903
1838	5574	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	1876
1839	5624	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1840	5779	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1841	5832	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1842	6103	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1843	6227	सारस्वत व्याकरण	स्वरूपाचार्य	संस्कृत / डी	
1844	2887	सिद्धिविनिश्चय सटीक	अनंतवीर्य आचार्य	संस्कृत / डी	1662
1845	6157	सिद्धिविनिश्चय सटीक	अनंतवीर्य आचार्य	संस्कृत / डी	
1846	2209	सिद्धान्तचंद्रिका		संस्कृत / डी	1747
1847	2566	सिद्धान्तचंद्रिका		संस्कृत / डी	
1848	5527	सिद्धान्तचंद्रिका सटीक	पं० लोकाेश्वर	संस्कृत / डी	1875
1849	5162	संस्कृतमंजरी		संस्कृत / डी	1660
1850	5672	स्याद्वादमंजरी	मल्लिनाथ सूरि	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29	9x16	16	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9	12x22	7	गद्य	C	अपूर्ण	सहजपुर	
31	10.5x25	12	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
76	8x23	10	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
192	9.5x21	8	गद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
17	9x23	7	गद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
23	12x23	6	गद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
47	7x20	13	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
7	8x16	11	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
63	6.5x13.5	8	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
36	8x23.5	11	गद्य	B	पूर्ण	जौला	
63	7.5x18.5	9	गद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
16	10x24	14	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11	6x16	8	गद्य	B	अपूर्ण	टोडारायसिंह	विसर्ग संधि तक
24	4.5x12	5	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
28	7x19.5	11	गद्य	A	पूर्ण	बांसी	
4	8x19	10	गद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
1080	12x21	16	गद्य	C	पूर्ण	माढा	
587	8x19	13	गद्य	A(z)	पूर्ण	मुम्बई	
41	7x19	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	6.5x15	8	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
113	9x24	10	गद्य	C	अपूर्ण	बून्दी	कुछ प्रष्ट नहीं हैं।
3	10x23	15	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
67	11x21	15	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सामर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1851	4894	अर्हत् स्तुति		संस्कृत / डी	
1852	4883	अरहंतदेव-स्तुति		हिन्दी / डी	
1853	5151	अकीर्तिम चैत्यालय विनती		हिन्दी / डी	
1854	6013	अक्षर चेतावनी		हिन्दी / डी	
1855	5245	अकलंकाष्टक स्तोत्र	आचार्य अकलंक देव	संस्कृत / डी	
1856	1976	अकलंकाष्टक स्तोत्र	आचार्य अकलंक देव	संस्कृत / डी	
1857	2572	अकलंकाष्टक स्तोत्र	आचार्य अकलंक देव	संस्कृत / डी	
1858	3080	अकलंकाष्टक स्तोत्र	आचार्य अकलंक देव	संस्कृत / डी	
1859	4903	अकलंकाष्टक स्तोत्र	आचार्य अकलंक देव	संस्कृत / डी	
1860	6132	अकलंकाष्टक स्तोत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1861	1513	अकलंकाष्टक स्तोत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1915
1862	2835	अकलंकाष्टक स्तोत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
1863	2991	अकलंकाष्टक स्तोत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1638
1864	3937	अकलंकाष्टक स्तोत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1915
1865	5095	अष्टाष्टक स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1866	5933	आत्म-स्तुति		संस्कृत / डी	1638
1867	1900	आत्मावलोकन स्तोत्र वच०		हिन्दी / डी	1825
1868	1912	आदीश्वर-स्तुति		हिन्दी / डी	
1869	6219	आदिनाथ विनती		हिन्दी / डी	
1870	5092	ऋषिमण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1871	1704	ऋषिमण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	1945
1872	1706	ऋषिमण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	1940
1873	2760	ऋषिमण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1874	3439	ऋषिमण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1875	6225	ऋषि मण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1876	6222	ऋषिमण्डल स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1877	4809	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1878	4824	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1879	4839	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1880	4853	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1881	4867	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1882	4884	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1883	4907	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
88-92	13x14	20	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
166-167	12x19	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
59	9x26	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
51-54	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को०प०बीना	
6	18x12	16	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
4	8x20	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	6x14.5	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	19x10	22	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
347-350	9x10	10	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
11	11.5x26.5	12	गद्य	C	पूर्ण	बेलखेड़ा	
8	13x22	24	गद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
12	12x24	12	गद्य	A	पूर्ण	सोलापुर	
18	10x14	12	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
15	20x8	9	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
31पर	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
74-77	11.5x8	5	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	17 श्लोक हैं।
77	9x20.5	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	10x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
12	9x7	8	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
25-28	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
7	9x11	9	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
9	11x14	8	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
16	6.8x10	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	11.5x24	10	पद्य	C	पूर्ण	इन्दौर	
23-31	6x12	6	पद्य	A	पूर्ण	राजाखेड़ा	
28	7.3x10	8	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
89-91	12x19	19	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
81-84	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
81-84	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
72-74	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
68-70	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
167-172	12x9	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
365-369	9x10	10	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (झागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (वि.सं. संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1884	5098	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1885	5156	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1886	5704	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1887	5932	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1888	1829	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1889	1831	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1890	1908	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1891	2539	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1892	5281	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1893	5900	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1894	6018	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1895	2618	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1896	2629	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1911
1897	2761	एकीभाव-स्तोत्र	आ० वादिराज	संस्कृत / डी	
1898	2460	एकीभाव-स्तोत्र सटीक	आ० श्रुतसागर सूरि	संस्कृत / डी	
1899	2674	एकीभाव-स्तोत्र वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1928
1900	6294	कल्याणमंदिर स्तोत्र	डॉ. गिरिधर शर्मा	हिन्दी / डी	
1901	6224	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1902	4905	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1903	5097	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1904	5883	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1905	1614	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1906	2014	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1907	6308	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1908	5782	कल्याणमंदिर स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1948
1909	5916	कल्याणमंदिर स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1910	5893	कल्याणमंदिर स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1941
1911	6008	कल्याणमंदिर स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1912	2015	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1913	2502	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1914	2648	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1915	2677	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	
1916	2747	कल्याणमंदिर स्तोत्र	आ० कुमुदचन्द्र	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37-40	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
4	10x23	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	9.5x21	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
49-73	11.5x8.5	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
19	6x9.5	7	पद्य	B	पूर्ण	मडावरा	
14	7x9	6	पद्य	C	पूर्ण	मडावरा	
7	10x22	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
4	9x16	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
22	7x11	9	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
64	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
73	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
9	7x11	7	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
9	5.5x11	7	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
9	6x10.5	7	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
9	8x22	15	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
13	12x15	13	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
6	12x13	14	पद्य	B	पूर्ण	झालरापाटन	
12-23	6x12	6	पद्य	A	पूर्ण	राजाखेड़ा	
357-362	9x10	10	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
33-36	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
9	5x7.5	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
75	10x14	9	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
4	9.5x19	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9	5.5x11.5	7	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
33-37	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
21	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
20-24	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
4	9.5x19	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
4	8x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	7x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	9x16	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
163	13x13.5	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1917	2503	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1904
1918	2603	एकीभाव-स्तोत्र	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1919	2035	कल्याणमंदिर स्तोत्र सटीक		संस्कृत / डी	1727
1920	5384	कल्याणमंदिर स्तोत्र	पं० बूलचंद	हिन्दी / डी	
1921	5812	कल्याणमंदिर स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1922	5385	कल्याण कल्पद्रुम जिन स्तुति		हिन्दी / डी	
1923	5843	कल्याण कल्पद्रुम जिन स्तुति		हिन्दी / डी	1965
1924	6185	करुणाष्टक	आ० पदमनंदी	संस्कृत / डी	
1925	3004	करुणानिदान स्तुति		हिन्दी / डी	
1926	5924	क्षेत्रपाल स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1927	2598	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		संस्कृत / डी	
1928	2599	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		हि० / सं० / डी	
1929	2756	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		हि० / सं० / डी	
1930	2757	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		संस्कृत / डी	
1931	2772	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		संस्कृत / डी	
1932	2780	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		संस्कृत / डी	
1933	3424	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		हि० / सं० / डी	1876
1934	3432	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		संस्कृत / डी	
1935	5499	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		हि० / सं० / डी	1758
1936	6150	गुटका(स्तुति, स्तोत्र संग्रह)		हिन्दी / डी	
1937	6033	गुरुभक्ति		हिन्दी / डी	
1938	5197	चतुर्विंशति तीर्थकर गुणानुवाद	पं० पदमसुन्दर	संस्कृत / डी	
1939	5825	चिंतामणी पार्श्वनाथ स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1940	6074	चैत्यभक्ति		संस्कृत / डी	
1941	5920	चैत्यवंदना		प्राकृत / डी	
1942	6101	चैत्यवंदना		प्राकृत / डी	
1943	2686	चौबीस तीर्थकर लक्षण		हिन्दी / डी	
1944	2570	चौबीस तीर्थकर पद		हिन्दी / डी	
1945	2536	जिन विनती		हिन्दी / डी	
1946	2688	जिनवर विनती		हिन्दी / डी	
1947	5100	जिनचतुर्विंशति स्तोत्र	भूपाल कवि	संस्कृत / डी	
1948	5145	जिनचतुर्विंशति स्तोत्र	भूपाल कवि	संस्कृत / डी	
1949	5729	जिनचतुर्विंशति स्तोत्र		प्राकृत / डी	1495

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	7x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	7x13.5	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
14	9x18	18	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
25	13.3x15	15	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
25-30	13x34	16	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
12	14.5x12	14	पद्य	C	पूर्ण	कवाल	
46	13.5x11.5	15	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
1	11x26	11	पद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
33	6x11	7	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
118-122	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
95	10.5x11	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
80	12x14	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
60	7x11	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
332	8.5x10	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
167	7.5x10.5	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	दश भक्तियाँ भी हैं।
182	9.5x13.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
172	11x6	7	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
182	7.5x12.5	8	पद्य	C	पूर्ण	सिलवानी	
163	8x19.5	9	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
60	8x13	9	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
208-209	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
118पर	9x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
27-36	10x12	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
193	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
45-46	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
1	9x21	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
1	9x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
17	8x14	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	7x20	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5	8.5x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
45-47	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
2	10x23	21	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
1	9.3x23	16	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1950	6009	जिन-चतुर्विंशति स्तोत्र	कवि देवीदास	हिन्दी / डी	
1951	6028	जिन-चतुर्विंशति स्तोत्र	कवि देवीदास	हिन्दी / डी	
1952	5740	जिन-चतुर्विंशति स्तोत्र	शोभन मुनि	संस्कृत / डी	1483
1953	1697	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1965
1954	1763	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1923
1955	1773	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1956	2223	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1921
1957	2228	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1726
1958	2591	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1959	2612	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1907
1960	2614	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1946
1961	2616	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1758
1962	2989	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	श्रुतसागर आचार्य	संस्कृत / डी	
1963	3141	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1969
1964	3158	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1939
1965	3229	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1854
1966	4895	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1967	4937	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1917
1968	5105	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1969	5264	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
1970	5408	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1971	5856	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1639
1972	5869	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1668
1973	5870	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1668
1974	5921	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1975	5927	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
1976	5981	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1977	6071	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
1978	6142	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
1979	6226	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	
1980	6300	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
1981	4983	जिनसहस्रनाम स्तोत्र लघु		संस्कृत / डी	1957
1982	5917	जिनसहस्रनाम स्तोत्र लघु		संस्कृत / डी	

स्मृति, श्लोक संग्रह
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
25-33	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	अप्रकाशित कृति है।	
190-195	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना		
6	11x26	29	गद्य/पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह		
10	13x21	9	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर		
18			पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर		
23	10x19	12	पद्य	C	पूर्ण	चाँदपुर		
13	7.5x18.5	7	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा		
48	8x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा		
38	15x11	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा		
23	6x11	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा		
31	14x7	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा		
16	10.5x13	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा		
173	9.5x20	11	गद्य	A	पूर्ण	झांसी		
14	12x15	8	पद्य	B	पूर्ण	सारोला		
67	19x10	20	पद्य	A	पूर्ण	सारोला		अंत में कर्म दहन वि० है
68	13x13	13	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा		
92-120	13x12	20	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर		
31-36	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद		
78-89	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद		
6	18x11.5	12	पद्य	B	पूर्ण	अजनास		
12	11x28	14	पद्य	B	पूर्ण	कवाल		
	10x11	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह		
149	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह		
17	12x9	10	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह		
47-61	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह		
13	10x14	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह		
10	13x11	15	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा		
160-166	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी		
91-104	13x13	16	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा		
31-56	6x12	6	पद्य	A	पूर्ण	राजाखेड़ा		
6	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला		
7	10x6	6	पद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद		
38-41	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह		

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1983	2879	जिनसहस्रनाम स्तोत्र टीका	मल्लिषेण आचार्य	हिन्दी / डी	1937
1984	2797	जिन-शतक वाग् वर्तन		संस्कृत / डी	
1985	2611	जिनेन्द्र दर्शनस्तोत्र		हिन्दी / डी	
1986	2712	जिनेन्द्र दर्शनस्तोत्र		हिन्दी / डी	
1987	2708	ज्वालामालिनी स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1988	2801	ज्ञानांकुश स्तोत्र		संस्कृत / डी	
1989	5685	तीर्थवंदना		हिन्दी / डी	
1990	5945	तीर्थवंदना		हिन्दी / डी	
1991	4801	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1992	4816	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1993	4831	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1994	4846	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1995	4860	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1996	4873	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1997	5819	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1998	5891	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
1999	5912	दर्शनस्तोत्र		संस्कृत / डी	
2000	2447	दशभक्ति संग्रह		संस्कृत / डी	1736
2001	3455	दशभक्ति संग्रह		सं० / प्रा० / डी	
2002	4901	दशभक्ति संग्रह		संस्कृत / डी	
2003	5946	दशभक्ति संग्रह		संस्कृत / डी	1819
2004	2560	दानबावनी		हिन्दी / डी	
2005	5094	दृष्टाष्टक स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2006	4805	निर्वाणकाण्ड		प्राकृत / डी	
2007	4820	निर्वाणकाण्ड		प्राकृत / डी	
2008	4835	निर्वाणकाण्ड		प्राकृत / डी	
2009	4850	निर्वाणकाण्ड		प्राकृत / डी	
2010	4864	निर्वाणकाण्ड	प्राकृत / डी		
2011	4879	निर्वाणकाण्ड	प्राकृत / डी		
2012	4943	निर्वाणकाण्ड	प्राकृत / डी	1917	
2013	5691	निर्वाणकाण्ड	प्राकृत / डी		
2014	5882	निर्वाणकाण्ड	प्राकृत / डी		
2015	6047	निर्वाणकाण्ड	प्राकृत / डी		

स्तुति, स्तोत्र संग्रह
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	28x15	27	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
39	5x19	5	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
3	5.5x11	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
2	9.5x15	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	10x22.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	9x19	8	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
13	7.5x21.5	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
6	12x9	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
6	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
6	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
6	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
6	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
3	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
4	9x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
3	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
26	17x9.5	25	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
178	11x21	19	पद्य	A	पूर्ण	अकलूज	
227-341	9x10	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
21-74	10.5x11	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
5	9x20	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
30	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
65-66	12x9	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
59-60	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
59-60	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
52-53	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
50-51	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
121-123	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
53	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
4	7.5x22.5	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
5	5x7.5	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
56-57	18x15.5	20	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	2613	निर्वाणकाण्ड		प्राकृत / डी	
2017	4944	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	1917
2018	5158	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	1741
2019	5783	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	1948
2020	5901	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	1940
2021	5918	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	
2022	2409	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	1741
2023	2519	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	
2024	6213	निर्वाणकाण्ड	पं० भगवती दास	हिन्दी / डी	
2025	2826	नंदीश्वर भक्ति	आ० पूज्यपाद स्वामी	संस्कृत / डी	
2026	6200	परम स्थान स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2027	5948	परमानंद-स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2028	5880	पद्मावती-स्तोत्र		संस्कृत / डी	1882
2029	2252	पद्मावती-स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2030	2256	पद्मावती-स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2031	2817	पद्मावती-स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2032	3391	पद्मावती-स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2033	2571	पार्श्वनाथ-स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2034	5898	पार्श्वनाथ-स्तोत्र		संस्कृत / डी	1940
2035	6186	पार्श्वष्टक	आ० पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
2036	1529	पोथी (भक्तिसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2037	1621	पोथी (भक्तिसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2038	1687	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2039	1977	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2040	2631	पोथी (अष्टकादि)		हिन्दी / डी	
2041	2641	पोथी (भक्तिसंग्रह)		संस्कृत / डी	1701
2042	2715	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2043	2716	पोथी (गीत आदि)		संस्कृत / डी	
2044	2729	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2045	2736	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2046	2737	पोथी (भक्तिसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2047	2743	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2048	2750	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	

स्तुति, स्तोत्र संग्रह
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	6x11	7	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
54	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
3	10x23	8	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
9-13	5.5x11.5	7	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
65-67	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
42-43	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
18	10x19	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
3	7x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	6.5x7	8	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
6	13x23.5	11	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
2	10x18	12	पद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
96-98	10.5x11	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
40-55	5.2x7	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
6	9x21	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
10	10.5x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	9x20	9	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
	9x15	12	पद्य	C	पूर्ण	सि०प०सिलवानी	
5	7x16	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
55-56	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
1	11x26	11	पद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
125	10x25	12	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
56	11x17	14	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
46	7x12	10	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
	24x10	26	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
107	8x10	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
77	7x10.5	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
149	11x9	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
235	12x9	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
144	8.5x11.5	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
225	9x12.5	9	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
260	9x13	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
61	8x11	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
254	9x11.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2049	2949	पोथी (भक्तिसंग्रह)		संस्कृत / डी	1695
2050	2950	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2051	2955	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2052	3024	पोथी (भक्तिसंग्रह)		हिन्दी / डी	
2053	3199	पोथी (भक्तिसंग्रह)		हिन्दी / डी	
2054	3166	पोथी (स्तुति पदादि)		संस्कृत / डी	1946
2055	3383	पोथी (स्तोत्रसंग्रह)		संस्कृत / डी	
2056	4874	पंचमंगल	रूपचंद कवि	हिन्दी / डी	
2057	5246	पंचमंगल	रूपचंद कवि	हिन्दी / डी	
2058	5892	पंचमंगल	रूपचंद कवि	हिन्दी / डी	1941
2059	5950	पंचमंगल	रूपचंद कवि	हिन्दी / डी	
2060	2626	पंचमंगल	रूपचंद कवि	हिन्दी / डी	
2061	5361	पंच स्तोत्र संग्रह सटीक	पं० अखैराज	हिन्दी / डी	
2062	2644	पंच परमेष्ठी गुण		हिन्दी / डी	
2063	6234	पंचागुली स्तोत्र		संस्कृत / डी	1731
2064	2645	बगुलामुखी स्तोत्र	आ० जगतकीर्ति	संस्कृत / डी	
2065	2634	बारहमासी		हिन्दी / डी	
2066	6029	बीस तीर्थकर स्तुति		हिन्दी / डी	
2067	2457	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
2068	2658	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
2069	2770	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
2070	2805	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र सटीक	आ० समन्तभद्र / आ० प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	
2071	1707	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	1942
2072	5103	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
2073	5947	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
2074	5954	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	आ० समन्तभद्र स्वामी	संस्कृत / डी	
2075	3036	बृहत्स्वयंभू स्तोत्र सटीक	आ० समन्तभद्र / आ० प्रभाचन्द्र	संस्कृत / डी	
2076	3029	भजन संग्रह		हिन्दी / डी	
2077	6210	भजन संग्रह		हिन्दी / डी	
2078	6257	भजन संग्रह		हिन्दी / डी	
2079	1589	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंगस्वामी	संस्कृत / डी	
2080	1624	भक्तामर स्तोत्र सटीक		संस्कृत / डी	
2081	1625	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंगस्वामी	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
84	23x9.5	20	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
	11x9	11	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
117	10x13	10	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
90	9.5x16	11	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
29	16x6	16	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
76	22x11.5	25	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
176	10x17	8	पद्य	B	पूर्ण	दमोह	
4-13	14x8	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
6	18x12	16	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
15	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
14	15x10.5	7	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
16	6x11.5	7	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
96	14.5x12.3	15	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
2	5x18	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5	8.5x20	7	पद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	
6	7x19	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	7.5x10	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
196-199	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
18	11x25	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
15	7.5x23.5	7	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
31	12.5x9.5	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
75	12x24	10	गद्य	A	पूर्ण	सोलापुर	
28	9x14	13	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
60-75	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
75-95	10.5x11	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	समन्तभद्र आ० की भी स्तुति दी है।
15	9x24	9	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
53	12.5x26	12	पद्य	B	पूर्ण	पाटन	
26	16x13	15	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
23	11x10	11	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
10	16x11	13	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
26	12x21	13	पद्य	A	पूर्ण	महतपुर	हिन्दी टीका भी दी है।
43	7x20	10	गद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
8	5x10	8	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (झागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2082	1709	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2083	1766	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1947
2084	1804	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1968
2085	1805	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2086	1914	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2087	1970	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1824
2088	1984	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2089	2004	भक्तामर स्तोत्र सटीक	आ० मानतुंग / ब्र० रायमल	संस्कृत / डी	1689
2090	2055	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2091	2061	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2092	2185	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1905
2093	2516	भक्तामर स्तोत्र सटीक		हिन्दी / डी	
2094	6221	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1974
2095	2542	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1920
2096	2608	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2097	2627	भक्तामर स्तोत्र	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	
2098	2630	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2099	2713	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2100	2762	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2101	2773	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1850
2102	2792	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2103	2838	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2104	2889	भक्तामर स्तोत्र सटीक		हिन्दी / डी	1758
2105	2910	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2106	2919	भक्तामर स्तोत्र	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	
2107	3039	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2108	3088	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2109	3098	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1717
2110	3203	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1939
2111	3208	भक्तामर स्तोत्र	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	1838
2112	3265	भक्तामर स्तोत्र सटीक	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	
2113	3336	भक्तामर स्तोत्र	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	
2114	3208	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	10x17	12	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
3	8.6x12.8	14	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
8	15.5x15	12	पद्य	C	पूर्ण	काछी पिपरिया	
2-90	8x23.6	10	पद्य	A	पूर्ण	नईसराय	टीका भी दी है।
21	9x22	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
10	8.5x21	5	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
33	9x24	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	कथाएं भी दी हैं।
35	8x22	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
40	8x23	9	गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
2	8x20	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
18	7x21	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	8x19.5	14	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	7x12	6	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
28	12x18	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	संस्कृत टीका भी दी है।
53	6x11	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	त०सूत्र भी दिया है।
13	6x11	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	7x11.5	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	15x9	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
50	6.3x8	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
12	9x6.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
19	12.5x9.5	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	21x16	23	पद्य	A	पूर्ण	सोलापुर	
44	7x15	8	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
35	12.5x10	13	गद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
20	11.5x19.5	13	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
10	8x20.5	9	पद्य	A	पूर्ण	झांसी	
14	7x11	7	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
10	10x22.5	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
9	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
76	7x11	8	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
30	10x18	8	गद्य	C	पूर्ण	पारोल	
24	11x19.3	12	गद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
61	9x14	8	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (झारखण्ड) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2115	3407	भक्तामर स्तोत्र सटीक	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1832
2116	3409	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2117	3477	भक्तामर स्तोत्र	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	1757
2118	4804	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2119	4819	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2120	4834	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2121	4849	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2122	4863	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2123	4878	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2124	4904	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2105	4975	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2126	6212	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2127	6214	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2128	5102	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2129	5195	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2130	5269	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2131	6223	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2132	5480	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1983
2133	5493	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1900
2134	5700	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1775
2135	5786	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1915
2136	5820	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2137	5853	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2138	5868	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2139	5878	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	1882
2140	5885	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2141	5894	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2142	5913	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2143	5982	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2144	6010	भक्तामर स्तोत्र	आ० मानतुंग स्वामी	संस्कृत / डी	
2145	5280	भक्तामर स्तोत्र सटीक	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	
2146	5479	भक्तामर स्तोत्र	पं० हेमराज	हिन्दी / डी	1983
2147	5549	भक्तामर स्तोत्र सटीक	पं० खुशालचंद	हिन्दी / डी	1844

स्तुति, स्तोत्र संग्रह
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
157	11x26	12	गद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	सचित्र ग्रंथ है।
24	21.5x9.5	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
26	20x8	9	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
61-64	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
44-56	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
44-56	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
49-52	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
48-50	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
113-120	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
351-356	9x10	10	पद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद	
48	16x10	4	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	सचित्र ग्रंथ है।
15	6.5x7	8	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
6	5x7.5	5	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
55-59	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
6	10x23	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
41	17x12.5	12	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
12	6x12	6	पद्य	A	पूर्ण	राजाखेड़ा	
5	15.3x18	14	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
21	14.5x21.5	9	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
5	8.5x21.5	10	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	9x12.5	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	9x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
56-70	7.5x6.5	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
27	5.2x7	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
29-39	5x7.5	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
22-30	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4-11	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11-29	13x11	15	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
34-41	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
5	14x10	12	पद्य	C	अपूर्ण	अजनास	
10	15.3x18	14	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
35	9x28	9	गद्य	C	पूर्ण	बून्दी	

अनेकांत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2148	5993	भक्तामर स्तोत्र सटीक		हिन्दी/डी	1895
2149	6015	भक्तामर स्तोत्र पीठिका		हिन्दी/डी	
2150	6023	भक्तामर स्तोत्र सटीक	पं० हेमराज	हिन्दी/डी	1955
2151	6272	भक्ति संग्रह		प्राकृत/डी	
2152	1674	भक्ति पदावली		हिन्दी/डी	
2153	3040	भावना बेलि		हिन्दी/डी	
2154	5935	भूपाल स्तोत्र सटीक	भूपाल कवि/पं० आशाधर	संस्कृत/डी	
2155	2504	भूपाल स्तोत्र सटीक	भूपाल कवि/पं० आशाधर	संस्कृत/डी	1727
2156	2606	भूपाल स्तोत्र सटीक	भूपाल कवि/पं० आशाधर	संस्कृत/डी	
2157	2847	भूपाल स्तोत्र सटीक	भूपाल कवि/पं० आशाधर	संस्कृत/डी	
2158	3009	भूपाल स्तोत्र सटीक	भूपाल कवि/पं० आशाधर	संस्कृत/डी	
2159	5106	महावीराष्टक स्तोत्र	पं० भागचंद	संस्कृत/डी	
2160	6034	महावीराष्टक स्तोत्र	पं० भागचंद	संस्कृत/डी	
2161	5897	मंगलाष्टक		संस्कृत/डी	1940
2162	6019	मंगलाष्टक एवं गुणमाल		हिन्दी/डी	
2163	5875	यतिभावनाष्टक	पंकजनंदि	संस्कृत/डी	1668
2164	4913	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2165	5854	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2166	5884	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2167	5896	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	1940
2168	5914	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2169	5944	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2170	2691	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2171	6032	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2172	3207	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2173	3372	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2174	6184	लक्ष्मी स्तोत्र	आ० पदमनंदी	संस्कृत/डी	
2175	5984	लघु स्वयंभू स्तोत्र		संस्कृत/डी	
2176	6073	लघु स्वयंभू स्तोत्र		संस्कृत/डी	
2177	3401	लघु स्वयंभू स्तोत्र		हिन्दी/डी	
2178	2621	लघु जिनसहस्रनामस्तोत्र	पं० आशाधर	संस्कृत/डी	
2179	1627	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत/डी	
2180	1819	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27	7.3x15	16	गद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
57-61	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
151-168	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
18	9x23	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
17	12x16	13	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
5	7.5x21	12	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
85-107	11.5x8.5	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	6x11	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
73	11x18	11	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
228	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
102-103	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
210-214	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
54-55	9x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
74-78	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
3	12x9	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
448-450	9x10	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
71-73	7.5x6.5	6	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
28	5x7.5	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
52-53	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
12-13	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
8	7x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
207	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
9	9x11	11	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
76	22x12	18	पद्य	A	पूर्ण	सिलवानी	
1	11x26	11	पद्य	A(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
24-31	13x11	15	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
151-152	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
5	5x11	5	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
6	7.5x12	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	8x12	13	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
53	9x21	9	पद्य	C	पूर्ण	भुसावल	

अनेकांत ज्ञानमंदिर छोषसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2181	1820	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
2182	2628	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
2183	5099	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
2184	4908	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
2185	5902	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
2186	5936	विषापहार स्तोत्र	धनअय कवि	संस्कृत / डी	
2187	5369	विषापहार स्तोत्र सटीक	पं० बूलचंद	हिन्दी / डी	1871
2188	6027	विषापहार स्तोत्र सटीक	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2189	5926	विनती संग्रह		हिन्दी / डी	
2190	5737	वीतराग स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2191	6304	शारदाष्टक	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2192	5867	शांतिनाथ स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2193	2976	शोभन स्तुति		संस्कृत / डी	
2194	5101	समाधि मरण पाठ	पं० सूरचंद	संस्कृत / डी	
2195	5532	समोशरण स्तोत्र		संस्कृत / डी	1855
2196	5767	सरस्वती स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2197	6310	साधु वंदना	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2198	2768	साधु वंदना	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2199	5165	साधु वंदना	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2200	6110	साधु वंदना	पं० बनारसीदास	प्राकृत / डी	1808
2201	5716	सिद्धिदण्डक स्तवन	देवेन्द्र कीर्ति	संस्कृत / डी	
2202	5734	सिद्धगिरि स्तवन		हिन्दी / डी	1940
2203	4906	सिद्धप्रिय स्तवन		संस्कृत / डी	
2204	5934	सिद्धप्रिय स्तवन		संस्कृत / डी	
2205	5093	सुप्रभात स्तोत्र		संस्कृत / डी	
2206	2619	सोनागिर पच्चीसी		हिन्दी / डी	1861
2207	3483	संग्रह ग्रंथ		सं० / हि० / डी	1760
2208	5929	स्तुति पद संग्रह		हिन्दी / डी	1746
2209	6013	स्तुति पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2210	6022	स्तुति पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2211	2557	स्तुति पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2212	1907	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी	
2213	1660	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई)	पत्र संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	6.5x15	9	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
9	5.5x11	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
41-44	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
370-374	9x10	10	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
68-72	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
108-130	11.5x8.5	15	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
17	14x15	16	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
186-189	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
139-156	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
2	9x21	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
35	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
95-127	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
14	7.5x20	9	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
48-54	8x15	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
6	10.5x21	7	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
3	4x15	5	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
९3-84	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
150	19x9	17	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
3	9x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	6x17	7	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
1	10.5x24	5	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
2	5x7.5	6	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
362-365	9x10	10	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
78-84	11.5x8.5	15	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
29	8x15	15	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
6	13x9	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	12x20	19	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
30	14x7	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
51-54	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
85-150	11x26	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
3	8x24	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
56	8x23.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
32	11x18.5	11	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2214	2018	स्तोत्र संग्रह	पं० देवराज	संस्कृत / डी	1738	
2215	2551	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		
2216	2600	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		
2217	2617	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		
2218	2920	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		
2219	3147	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		
2220	3392	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		1947
2221	5282	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		1892
2222	6265	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		1956
2223	6216	स्तोत्र संग्रह		संस्कृत / डी		
2224	3234	स्तोत्र संग्रह		हिन्दी / डी		

अनेकान्त ज्ञानमंदिर ग्रोथसंस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2225	6264	अकलंक स्वामी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1798
2226	1827	अरज पच्चीसी	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2227	2445	अनंत व्रत रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1881
2228	4950	अठाई रासो		हिन्दी / डी	1917
2229	1956	अम्बिकादेवी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1923
2230	2070	अम्बिकादेवी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
2231	2681	अष्टछत्तीसी	रामदास	हिन्दी / डी	
2232	1917	अष्टकर्मप्रकृति रास		हिन्दी / डी	
2233	2718	अंजनासती रास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	1832
2234	2696	अंजनासती रास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	1657
2235	2735	अंजनासुन्दरी काव्य		हिन्दी / डी	1666
2236	6314	अध्यात्म बत्तीसी		हिन्दी / डी	
2237	2078	आदिनाथ रास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	1911
2238	2215	आदिनाथ रास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	1839
2239	2495	आदीश्वर फाग	भट्टा० ज्ञानभूषण	संस्कृत / डी	1597
2240	2499	आदीश्वर फाग	भट्टा० ज्ञानभूषण	संस्कृत / डी	1580
2241	4808	इष्ट छत्तीसी	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2242	4823	इष्ट छत्तीसी	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2243	3007	उपदेश पच्चीसी	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2244	2392	उपासकाध्ययन रास		हिन्दी / डी	1678
2245	6312	कर्म छत्तीसी	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2246	2707	कवि प्रियायां काव्य वर्णन	विविध भूषण	हिन्दी / डी	
2247	5146	काव्य श्लोक		संस्कृत / डी	
2248	5554	किरातार्जुनीय सटीक	मल्लिषेण सूरी	संस्कृत / डी	
2249	5609	किरातार्जुनीय सटीक	मल्लिषेण सूरी	संस्कृत / डी	1851
2250	5610	किरातार्जुनीय सटीक	मल्लिषेण सूरी	संस्कृत / डी	1851
2251	2394	किरातार्जुनीय सटीक	भट्टा० एकनाथ	संस्कृत / डी	
2252	5553	कुमारसम्भव	कालिदास	संस्कृत / डी	
2253	6040	कुमारसम्भव	कालिदास	संस्कृत / डी	
2254	1551	गुटका (भजन संग्रह)		हिन्दी / डी	
2255	2755	गुटका (रास आदि)		हिन्दी / डी	
2256	5842	गुटका (पद आदि)		हिन्दी / डी	1843
2257	2748	चन्द्रप्रभ रास	पं० मेघराज	संस्कृत / डी	1634

ढाटक, वललस, रस, छंदलंकार

(140)

संस्कृत, प्राकृत एवं हलंदी भाषा वलषयक हस्तलखलत ग्रंथों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाईx चौड़ाईcm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थलतल	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्तल स्थल का नाम	वलशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
72	10.3x15	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
10	9x10	10	पद्य	A	पूर्ण	भुसावल	
10	9x17	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
78	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फलरोजाबाद	
10	9x21.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	8.5x21.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
20	11x15.5	14	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
13	10x20	11	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
75	12x8.5	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
39	9x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
35	10.5x11	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
90-91	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
197	9x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
183	9.5x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
22	7x20	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
31	8x22.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
83-86	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
78-79	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
22	9x17	8	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
215	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत
87	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
5	10x22.5	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
2	10x21	18	पद्य	B	अपूर्ण	भानपुरा	
160	9x26	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
67	10x21	11	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसलंह	
67	7x21	11	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसलंह	
194	7x20	13	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
27-41	8x24	12	गद्य	C	अपूर्ण	बून्दी	
113	10x21	13	गद्य	D	पूर्ण	टोडारायसलंह	
113	8x9	9	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
183	7.5x12	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
100	14x11	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
346	11x23	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशलत

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2258	1923	चन्द्रप्रभ तीर्थकर छंद	पं० मेघराज	संस्कृत / डी	1850
2259	2141	चन्द्रप्रभ महाकाव्य	वीरनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	1844
2260	2156	चन्द्रप्रभ महाकाव्य	वीरनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	1844
2261	4916	चन्द्रप्रभ महाकाव्य	वीरनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
2262	4989	चरचा युग्म शतक		हिन्दी / डी	
2263	2181	चारुदत्त श्रेष्ठी रास	ब्र० गोकुल चन्द्र	हिन्दी / डी	1825
2264	2180	चिदविलास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	
2265	2196	चिदविलास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	
2266	2347	छंद-रत्नावली	हरिराम दास निरजनी	हिन्दी / डी	
2267	2567	छंद-शास्त्र	कवि भूषण मिश्र	संस्कृत / डी	
2268	2432	जकडी		हिन्दी / डी	
2269	5474	जकडी		हिन्दी / डी	1945
2270	6031	जकडी		हिन्दी / डी	
2271	2420	जगजीतण	पं० देवचंद	हिन्दी / डी	
2272	1947	जम्बूस्वामी रास	कमलकीर्ति	हिन्दी / डी	1668
2273	1960	जम्बूस्वामी रास	कमलकीर्ति	हिन्दी / डी	1820
2274	2767	जम्बूस्वामी रास	मल्लिभूषण देव	हिन्दी / डी	1588
2275	1998	जातकालंकार	ब्र० जिनसागर	संस्कृत / डी	1827
2276	1871	जिनदत्त रास	पं० जगजीवन	संस्कृत / डी	1822
2277	2164	जिनदत्त रास	पं० जगजीवन	संस्कृत / डी	
2278	6331	जिनेश्वर दास नाटक		हिन्दी / डी	
2279	2201	जीवदया रास	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1740
2280	2475	जीवदया रास	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	1805
2281	1873	जीबन्धर स्वामी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
2282	1965	जीबन्धर स्वामी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1836
2283	2122	जीबन्धर स्वामी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1570
2284	3376	जीबन्धर स्वामी रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1682
2285	5144	जैनछंदावली	पं० वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2286	2292	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1932
2287	2806	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2288	3293	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1781
2289	3300	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1897
2290	3332	जैन-शतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1931

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	10x22	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
145	9.5x21.5	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
138	8.5x20.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	27x8	10	गद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
50	11x14	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
21	8.5x22.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
73	10x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
56	8x19.5	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
13	14x18	16	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
10	9x20	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
30	8x22	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	21x11.5	12	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
204-206	10x12	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
4	9x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
43	10.5x23.5	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
89	9.5x20	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
147	9x10.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
15	11x20	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
40	8x22	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
31	12x21	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
21	27x15	32	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	अप्रकाशित
34	9x24	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
32	7x17.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
60	9x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
70	9x21.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
122	8x23	8	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
40	12x18	15	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
23	7x18	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
17	10x17	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
148	20x10.3	19	पद्य	A	पूर्ण	सोलापुर	
37	5x12.2	7	पद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौ	
18	9.5x15	11	पद्य	B	पूर्ण	सेहराई	
14	8x21	11	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2291	4803	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2292	4818	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2293	4833	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2294	4848	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2295	4862	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2296	4877	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2297	5207	जैनशतक	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2298	2962	जोगीरास गीत		हिन्दी / डी	
2299	5033	जोगीरास गीत		हिन्दी / डी	1665
2300	6302	ज्ञान बाबनी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2301	2454	ज्ञानपद	कवि मनोहरदास	हिन्दी / डी	1923
2302	6293	ज्ञानपच्चीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	1740
2303	3178	ज्ञानपच्चीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2304	6014	ज्ञानपच्चीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2305	6315	ज्ञानपच्चीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2306	1504	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	
2307	2855	ज्ञान सूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1939
2308	2941	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1926
2309	3113	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1936
2310	5080	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1952
2311	5129	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	
2312	5299	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1907
2313	5406	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1955
2314	5601	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० भागचंद	हिन्दी / डी	1932
2315	5966	ज्ञानसूर्योदय नाटक	पं० पारसदास निगोत्या	हिन्दी / डी	1949
2316	2787	ढाल गण		हिन्दी / डी	1931
2317	5198	ढाल गण		हिन्दी / डी	
2318	6006	ढाल गण		हिन्दी / डी	
2319	1904	तीस चौबीसी रास		हिन्दी / डी	
2320	2935	त्रिलोक दर्पण विलास		हिन्दी / डी	1828
2321	5164	त्रिषष्टी पुरुष छंद		हिन्दी / डी	1822
2322	3443	दास बोध		हिन्दी / डी	
2323	5725	दान कवित्त	ब्र० ज्ञानसागर	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
47-60	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
39-43	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
39-43	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
37-48	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
36-47	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
85-112	14x8	9	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
27	13x21	12	पद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
	16x11	17	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
	10x8	10	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
21-28	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
5	8x19.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
50	11x13	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
59	10x22	14	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
51-54	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
92	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
61	11x24	12	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
92	8x24	7	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
49	11x25	12	गद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
45	11x23	12	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
35	27x13	15	गद्य	B	पूर्ण	बबीना	
32	10x20	12	गद्य	C	पूर्ण	बबीना	
71	9x20.5	10	गद्य	A	पूर्ण	जौला	
35	12.5x27	14	गद्य	B	पूर्ण	कवाल	
47	10x23	13	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
46	14x23	13	गद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
5	14x20	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
7	8x28	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7-16	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
9	9x24.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
178	12.5x28	12	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	अप्रकाशित
3	9x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	10x17	13	पद्य	C	पूर्ण	जबलपुर	
3	9x20	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2324	5529	द्विसंधान काव्य सटीक		संस्कृत / डी	1813
2325	2356	देव ब्रम्ह पद		हिन्दी / डी	
2326	5075	दोहरा सप्त शतं	कवि बिहारीदास	हिन्दी / डी	
2327	5940	दौलतपद संग्रह	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
2328	2281	द्यानत विलास	पं० द्यानतराय	हिन्दी / डी	1912
2329	1863	द्यानत विलास	पं० द्यानतराय	हिन्दी / डी	1846
2330	4927	द्यानत विलास	पं० द्यानतराय	हिन्दी / डी	1918
2331	2100	धर्मपरीक्षा रास	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	
2332	2135	धर्मपरीक्षा रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1703
2333	2401	धर्मपरीक्षा रास	पं० धर्मचन्द्र	संस्कृत / डी	1668
2334	3402	धर्मविवेक विलास		हिन्दी / डी	1915
2335	5484	धर्मविलास		हिन्दी / डी	1870
2336	2418	धन्यकुमार रास		हिन्दी / डी	1829
2337	1921	ध्यानामृत रास	पं० सुखराम	हिन्दी / डी	1827
2338	6063	ध्यान-बत्तीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2339	6313	ध्यान-बत्तीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2340	2389	नवकार मंत्र पद	ब्र० माणिकचंद	हिन्दी / डी	
2341	2481	नवल-विलास पद		हिन्दी / डी	
2342	2134	नमिनिर्वाण काण्ड		संस्कृत / डी	
2343	1642	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2344	1648	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1929
2345	1745	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2346	1791	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2347	1866	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1843
2348	1948	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1712
2349	1949	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2350	1950	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2351	1952	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1799
2352	2137	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2353	2295	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2354	2482	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2355	2777	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1802
2356	2790	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
269	9.3x24	13	गद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
121	10x20	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
16	21x8	18	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
34	11x21.5	9	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
234	10x20	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
258	12x21.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
174	27x13	14	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	अप्रकाशित
20	10x25.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
96	9x22	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
83	9x24	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
31	28.5x11	13	पद्य	C	पूर्ण	माढा	अप्रकाशित
303	16x11	18	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	अप्रकाशित
30	9x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
32	9x21.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
77-78	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
88-90	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
26	20x10	22	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
49	9x24	11	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
104	6x18.5	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
81	11x18	12	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
77	12x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
26	12.5x24.5	12	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
20	10x24	16	पद्य	C	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
100	8.5x21	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	8.5x22	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
121	8.5x21	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
51	9x22	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
224	8.5x18	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
99	8x25	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
86	10x17	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
41	9x23	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
54	7x14	18	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
134	11x9	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर होधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2357	2831	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1948
2358	2965	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2359	3181	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1939
2360	3335	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1914
2361	3356	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1867
2362	3420	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1886
2363	3478	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1774
2364	4914	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1858
2365	4963	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1881
2366	4968	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2367	6218	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1780
2368	6244	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1899
2369	6306	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2370	6319	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1742
2371	5007	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1761
2372	5060	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2373	5139	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2374	5286	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1900
2375	5339	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1961
2376	5375	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1917
2377	5388	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1914
2378	5418	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1923
2379	5425	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1930
2380	5437	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2381	5520	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2382	5564	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2383	5887	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1850
2284	5995	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1907
2285	6141	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2286	6262	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2387	6284	नाटक समयसार	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2388	1595	नेमि राजुल बारहमासा		हिन्दी / डी	
2389	1598	नेमि चन्द्रिका		हिन्दी / डी	

नाटक, विलास, रास, छंदालकार

148

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई C.M.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
73	11.5x18	13	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
70	12x15	12	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
69	10x18	13	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
83	9x19	12	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
130	7x17	8	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
33	10.5x18	24	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
45	18x11	11	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
95	28x10	9	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
63	26x12	11	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
131	21x7	8	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
70	13x8	20	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	विशेष सुन्दर लिपि
127	10.5x17	11	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
67	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
69	13x17	15	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	गढ़ चंद्रपुरी में लिखी गई
43	20x9	16	पद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद	
3-71	20x11	12	पद्य	C	अपूर्ण	बबीना	
127	8x14	10	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
203	10x22	11	पद्य	B	अपूर्ण	माढ़ा	
140	12.5x25	13	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
96	15x11	16	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
243-328	15x12	18	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
85	8.5x27	9	पद्य	A	पूर्ण	मीरापुर	
90	15x12.5	15	पद्य	C	पूर्ण	मन्सूरपुर	
56	11x27	12	पद्य	C	अपूर्ण	बथरा	
197	14.5x21	15	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
93	9x19	18	पद्य	C	अपूर्ण	बून्दी	
3-118	7x15	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
72	8x25.5	9	पद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
90	13x13	16	पद्य	B	पूर्ण	पद्दा	
120	12.5x20.5	12	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
45	9x14	13	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
23-95	6.3x18	8	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
84	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	

अठोक्तान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2390	1792	नेमिचन्द्रिका		हिन्दी / डी	1879
2391	3359	नेमिचन्द्रिका		हिन्दी / डी	
2392	3434	नेमिचन्द्रिका		हिन्दी / डी	1962
2393	6148	नेमिचन्द्रिका		हिन्दी / डी	
2394	1607	नेमिपञ्चीसी		हिन्दी / डी	
2395	2090	नेमिनाथ ढाल	ब्र० गोकुलचंद	हिन्दी / डी	1921
2396	2118	नेमीश्वर फाग	भट्टा० विद्यानंद	हिन्दी / डी	1830
2397	2152	नेमीश्वर फाग		हिन्दी / डी	1817
2398	2235	नेमीश्वर फाग	जगजीवन दास	हिन्दी / डी	1831
2399	5731	नेमीश्वर फाग		हिन्दी / डी	
2400	2120	नेमीनाथ रास		हिन्दी / डी	1659
2401	2138	नेमि निर्वाण काव्य	ब्र० विद्यासागर	संस्कृत / डी	1650
2402	2784	नेमि निर्वाण काव्य	वाग्भट्ट	संस्कृत / डी	1786
2403	2147	नेमिनाथ विनती		हिन्दी / डी	
2404	2735	नेमिनाथ विनती		हिन्दी / डी	1666
2405	2769	नेमिनाथ विनती		हिन्दी / डी	1828
2406	3377	नेमिनाथ राजमति		हिन्दी / डी	
2407	3423	नेमिनाथ राजमति आदि		हिन्दी / डी	
2408	2525	नंद लहरी	शंकराचार्य	संस्कृत / डी	1719
2409	1776	नंद विलास		हिन्दी / डी	
2410	6173	नंद बत्तीसी		हिन्दी / डी	
2411	1715	पद संग्रह	पं० दौलतराम	हिन्दी / डी	
2412	6299	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2413	2731	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2414	3276	पद संग्रह	पं० नंद दास	हिन्दी / डी	
2415	5271	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2416	5294	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2417	5278	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2418	6286	पद संग्रह		हिन्दी / डी	1847
2419	5496	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2420	5785	पद संग्रह		हिन्दी / डी	1896
2421	5877	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2422	5815	पद संग्रह		हिन्दी / डी	

नाटक, विलास, रास, छंदालंकार
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	7.5x12	9	पद्य	B	पूर्ण	रहली	दर्शन पच्चीसी भी दी है।
15	13x13	11	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
60	11x19.5	13	पद्य	C	पूर्ण	सिलवाणी	
40	7x11	8	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
42	11x18	16	पद्य	B	पूर्ण	केवलारी	
	8.5x22	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	8.5x20.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
58	9.5x21.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
47	9.5x21.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
40	8.5x21	11	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
13	9.3x23.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
88	8.5x21	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
84	9x23	8	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
4	10x21.5	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
35	10.5x11	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
78	12x17	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
35	9.5x11	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
179	7x12.3	7	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
14	6x21	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
42	9.5x17	11	पद्य	B	पूर्ण	चौदपुर	
5	9x24	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
30	15x12	15	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
100	15x20	15	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
90	8x7	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
29	11.5x21	12	पद्य	A	पूर्ण	छोटीमुहारी	
46	17x12	15	पद्य	B	अपूर्ण	अजनास	
	13x9	14	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
	8.5x11	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	11x12	18	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
85	7.5x11.5	8	पद्य	C	पूर्ण	जानसट	
64	9.5x13	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	अंत में तुलसी के दोहे भी दिए हैं।
27	5.2x7	6	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
17-50	7x12	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकान्त काजमंदिर द्वायसंस्थान, बीजा (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2423	5818	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2424	6095	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2425	6203	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2426	6256	पद संग्रह		हिन्दी / डी	
2427	3176	पदमपुराण रास		हिन्दी / डी	1937
2428	5136	पदमपुराण रास		हिन्दी / डी	
2429	1872	परमहंस रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1934
2430	1951	परमहंस रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1706
2431	1751	परमानंद-विलास	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2432	1936	परमानंद विलास	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2433	2319	परमानंद-विलास	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1939
2434	5182	परमानंद-विलास	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1945
2435	2507	पल्यविधान रास		संस्कृत / डी	1822
2436	2521	पार्श्वनाथ रास		हिन्दी / डी	1618
2437	2199	पिंगलशास्त्र		हिन्दी / डी	
2438	5765	पिंगलशास्त्र		संस्कृत / डी	
2439	5775	पिंगल सारोद्धार		संस्कृत / डी	1601
2440	3294	पुकारपच्चीसी		हिन्दी / डी	
2441	2431	पुष्पांजली रास		हिन्दी / डी	
2442	1683	पोथी (लावनी आदि)		हिन्दी / डी	
2443	1618	पोथी (लावनी आदि)		हिन्दी / डी	
2444	3076	पोथी (लावनी आदि)		हिन्दी / डी	
2445	3089	पोथी (लावनी आदि)		हिन्दी / डी	
2446	1927	पंच परमेष्ठी रास		हिन्दी / डी	
2447	5690	पंचमी शतक	पं० हरिगण	संस्कृत / डी	1461
2448	2465	प्रद्युम्न रास	ब्र० राजमल	हिन्दी / डी	1766
2449	2083	बलभद्र रास		हिन्दी / डी	
2450	1946	बनारसी-विलास	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1832
2451	2080	बनारसी-विलास	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1758
2452	3496	बनारसी-विलास	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1727
2453	5009	बनारसी-विलास	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1804
2454	6320	बनारसी-विलास	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	1742
2455	5032	बारहमासा		हिन्दी / डी	1754

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	10x8.5	11	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
15	19x11	11	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
60	10x10	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
40	16x13	17	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
42	13x18.5	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
	15x21	9	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
35	13x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
58	7x17	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
55	11x21	12	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
79	8.5x20	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
69	10.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
76	24x9	12	पद्य	C	पूर्ण	राजपुरा	
6	7.5x21	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
18	10.5x20	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
19	11x17	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
37	7x21	12	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
20	8x17	8	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
28	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	मुहारीकलौ	
7	9.3x21.5	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
22	22x11.5	17	पद्य	D	पूर्ण	पटनागंज	
106	13x18	13	पद्य	D	पूर्ण	महतपुर	
12	18x12	16	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
39	6x18	7	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
8	10x24	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
1	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
30	10x25.5	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
149	19.5x10.5	19	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
133	9.5x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
160	9.5x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
91	22x11	14	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुर्वाँ	
114	18x10	11	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
149	13x17	15	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
6	12x14	14	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2456	5788	बारह खड़ी	पं० सूरतराम	हिन्दी / डी	1871
2457	1638	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1936
2458	1640	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1880
2459	1743	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1942
2460	6260	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
2461	2255	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1929
2462	2370	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1913
2463	2443	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1953
2464	3074	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1951
2465	2307	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	1913
2466	5053	बुधजन सतसई	कवि बुधजन	हिन्दी / डी	
2467	1932	बेताल बत्तीसी	विक्रमादित्य	हिन्दी / डी	
2468	2384	बंकचूल रास	ब्र० दयासागर	हिन्दी / डी	1805
2469	2524	बंकचूल रास	ब्र० दयासागर	हिन्दी / डी	
2470	2702	बंकचूल रास	ब्र० दयासागर	हिन्दी / डी	1680
2471	1516	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	
2472	1604	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1941
2473	1851	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1913
2474	1929	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	
2475	2143	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1837
2476	2377	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1821
2477	2473	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1882
2478	2930	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	
2479	3212	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1896
2480	3225	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1889
2481	5059	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1908
2482	5130	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1909
2483	5222	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	1954
2484	5255	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	
2485	5968	ब्रम्हविलास	भैया भगवतीदास	हिन्दी / डी	
2486	5623	भडली		हिन्दी / डी	
2487	5522	भजन संग्रह		हिन्दी / डी	
2488	2427	भविष्यदत्त रास	ब्र० देवसागर	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	8.5x13	10	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
36	10.5x17.5	12	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
33	10.5x19.5	11	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
29	11x18	14	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
34	11x19	11	पद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
31	11x19	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
34	9.5x18	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
39	10x17.5	13	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
43	25.5x14.5	24	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
95	10x18	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
78	23x12	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
19	10x10.3	14	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
12	7.5x17	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	अप्रकाशित
10	9.5x23	12	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	अप्रकाशित
9	9x22.5	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	अप्रकाशित
177	8x19	10	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
78	11x21	23	पद्य	A	पूर्ण	केवलारी	
138	10x25	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
107	14x25	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
206	10x20	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
186	8x21	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
214	8x16	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
113	12.5x26	12	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
139	11.5x22	13	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
151	10.5x26	11	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
148	25x12	11	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
137	11x26	12	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
139	12x25	11	पद्य	A	पूर्ण	अजनास	
201	13x23	11	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
181	10.5x19.5	12	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
9	11x24	14	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
113	8x12	8	पद्य	C	पूर्ण	बइसूमा	
37	8x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्वम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2489	2303	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1933
2490	2853	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1866
2491	4924	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1903
2492	5225	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2493	5343	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2494	5373	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	
2495	5505	भूधर विलास	पं० भूधरदास	हिन्दी / डी	1917
2496	5391	भ्रमाष्टक		हिन्दी / डी	
2497	4952	मथुरा पच्चीसी		हिन्दी / डी	1917
2498	5083	मरकत विलास	मरकत कवि	हिन्दी / डी	1983
2499	5465	मरकत विलास वच०	पं० पन्नालाल चौधरी	हिन्दी / डी	1982
2500	5232	मदनमोहन पंचशती	कवि छत्रपति	हिन्दी / डी	1967
2501	6181	मदनमोहन पंचशती	कवि छत्रपति	हिन्दी / डी	
2502	2075	महावीरस्वामी रास		हिन्दी / डी	
2503	5268	महावीर-निर्वाण काव्य		संस्कृत / डी	
2504	1943	माला पिंगल		संस्कृत / डी	1930
2505	2494	मानश्रृंगी मानवती रास	ब्र० पूरणसागर	हिन्दी / डी	
2506	6171	मात्रा प्रसार भेद		संस्कृत / डी	
2507	5487	मित्र-विलास	घीसाराम	हिन्दी / डी	1937
2508	5488	मिथ्यात्व-रास		हिन्दी / डी	1866
2509	2565	मित्रानंद अमरदत्त रास	जयकीर्ति	संस्कृत / डी	1714
2510	5620	मुक्तावली गीत		हिन्दी / डी	
2511	2139	मृग संवादक चौपाई	देवराज मुनि	हिन्दी / डी	
2512	1953	मेघमाला		हिन्दी / डी	1862
2513	2108	मेघ-कुमार गीत		हिन्दी / डी	
2514	2315	मेघदूत काव्य	कवि कालिदास	संस्कृत / डी	
2515	2705	यमाष्टक वृत्ति		संस्कृत / डी	1892
2516	2484	यशोधर रास	पाण्डेदास	संस्कृत / डी	
2517	2906	रघुवंश महाकाव्य	कवि कालिदास	संस्कृत / डी	
2518	5603	रघुवंश महाकाव्य	कवि कालिदास	संस्कृत / डी	
2519	5662	रघुवंश महाकाव्य	कवि कालिदास	संस्कृत / डी	
2520	5755	रघुवंश महाकाव्य	कवि कालिदास	संस्कृत / डी	
2521	1891	रत्नपाल श्रेष्ठी रास	ब्र० माणिकचन्द्र	हिन्दी / डी	1811

नाटक, विलास, रास, छंदालंकार

(156)

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
53	9.5x27	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
127	8x22	9	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
70	28x13	12	पद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
91	13x24	11	पद्य	C	पूर्ण	अजनास	
77	11.5x22	12	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
78	14x12	16	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
84	7.5x25.5	8	पद्य	A	पूर्ण	बड़सूमा	
2	22x13	23	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
83-84	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
129	24x14	15	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
121	14x21	15	गद्य	A	पूर्ण	जानसट	
79	12x25	12	पद्य	C	पूर्ण	अजनास	
122	8x18.5	8	पद्य	A	पूर्ण	गुरवारा	
74	12.5x21.5	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
22	12x12	14	पद्य	C	पूर्ण	अजनास	
13	10x24	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
40	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	9x27	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
67	21.5x12	25	पद्य	A	पूर्ण	जानसट	अप्रकाशित
50	18x12	19	पद्य	C	पूर्ण	जानसट	अप्रकाशित
29	7x19	12	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
2	11x25	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
16	9x20	11	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11	9.5x21.5	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
3	9.5x20	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
39	8x21	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	10.5x26	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
32	9x23	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
11	6x21	8	पद्य	B	अपूर्ण	माढ़ा	
272	8x20.5	12	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
90	7x20	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	7.5x17	9	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
61	10.5x19	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2522	2387	रत्नपाल श्रेष्ठी रास	ब्र० माणिकचन्द्र	हिन्दी / डी	1843
2523	3071	रत्नपाल श्रेष्ठी रास	ब्र० माणिकचन्द्र	हिन्दी / डी	1915
2524	2063	रसमंजरी काव्य		संस्कृत / डी	
2525	1631	राजमति बारहमासा	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1961
2526	6289	राजमति बारहमासा	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	
2527	3008	राजुल पच्चीसी	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	1943
2528	6207	राजुल पच्चीसी	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
2529	5925	राजुल पच्चीसी	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
2530	6211	राजुल पच्चीसी	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	1962
2531	1981	रामचन्द्र रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1754
2532	3287	रामचन्द्र रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
2533	1786	राम पमारौ		हिन्दी / डी	
2534	5107	राम पमारौ		हिन्दी / डी	1969
2535	5016	राम पमारौ		हिन्दी / डी	1928
2536	6003	राग भैरो		हिन्दी / डी	
2537	6035	रेखता	क्षत्रसेन	हिन्दी / डी	
2538	1501	लक्ष्मी-विलास	पं० लक्ष्मीचंद	हिन्दी / डी	2001
2539	5044	लक्ष्मी-विलास	पं० लक्ष्मीचंद	हिन्दी / डी	1983
2540	1742	मंगल भेद		संस्कृत / डी	
2541	1728	लावनी		हिन्दी / डी	
2542	5167	लावनी		हिन्दी / डी	
2543	5278	लावनी		हिन्दी / डी	
2544	5489	लावनी		हिन्दी / डी	
2545	3193	वणिकप्रिया	मायाराम	हिन्दी / डी	1717
2546	1995	वाग्भट्टालंकार		संस्कृत / डी	1850
2547	2400	वाग्भट्टालंकार		संस्कृत / डी	
2548	2559	वाग्भट्टालंकार		संस्कृत / डी	
2549	3307	वाग्भट्टालंकार		संस्कृत / डी	
2550	5551	वाग्भट्टालंकार		संस्कृत / डी	1862
2551	6102	वाग्भट्टालंकार		संस्कृत / डी	
2552	2496	विक्रमादित्य राजा चौपाई	दास	संस्कृत / डी	
2553	6176	विवेक विलास		हिन्दी / डी	
2554	3416	विवेक विलास		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
56	10x18	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
59	11x24	11	पद्य	C	पूर्ण	माढा	
10	9.5x18.5	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	7x14	9	पद्य	C	अपूर्ण	नईसराय	
7	12x12.5	12	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
11	8.3x12	11	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
10	12x19	13	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
123-138	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	11x8	11	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
316	9x25	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
69	13x17	11	पद्य	C	पूर्ण	मुहारीकलों	
32	9x18	9	पद्य	D	पूर्ण	महाना	
37	12x21	11	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
39	18x11	12	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
2	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
214-218	12x10	13	पद्य	C	पूर्ण	को० प० बीना	
323	9x28	6	गद्य/पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
116	25x12	12	गद्य/पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
7	12x19	13	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
3	12x14	13	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
17	9x12	9	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
	8.5x11	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
29	11x12	12	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
30	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
72	6.5x21	8	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
22	10.5x27	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
13	8x19	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
22	7x18.5	9	पद्य	D	अपूर्ण	भानपुरा	
57	9.3x26	17	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
23	7x19	10	पद्य	C	अपूर्ण	अजमेर	
25	8x21	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10-22	11x22	13	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	9 पत्र नहीं हैं।
10	7x19.5	7	पद्य	D	अपूर्ण	सारोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2555	5792	विवेक-विलास		हिन्दी / डी	
2556	1972	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	1663
2557	2056	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	
2558	2094	वृत्तरत्नाकर	भट्टा० केदार	संस्कृत / डी	1734
2559	2321	वृत्तरत्नाकर वृत्ति	सोमचन्द्र	संस्कृत / डी	
2560	2459	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	
2561	2700	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	1692
2562	3100	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	
2563	5526	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	
2564	5531	वृत्तरत्नाकर टीका	जनार्दन विबुध	संस्कृत / डी	
2565	5664	वृत्तरत्नाकर	भट्ट केदार	संस्कृत / डी	1640
2566	2112	वृंदावन सतसई	कवि वृंदावन	हिन्दी / डी	1955
2567	6303	वेदनिर्णय पंचासिका	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2568	2019	वैराग्य-शतकम्	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
2569	2128	वैराग्य-शतकम्	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
2570	2483	वैराग्य-शतकम्	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
2571	5872	शिक्षवचन दोहे	शाह भीष्मसुत	हिन्दी / डी	1668
2572	5821	शिक्षवचन दोहे	शाह भीष्मसुत	हिन्दी / डी	
2573	2009	शिखामण रास		संस्कृत / डी	
2574	6316	शिव पच्चीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2575	6258	शिखर पच्चीसी	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	1871
2576	1913	शील रास		हिन्दी / डी	
2577	1959	शूलभद्र रास		हिन्दी / डी	
2578	2236	श्रावकाचार रास		हिन्दी / डी	1817
2579	2111	श्रीपाल रास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	
2580	2491	श्रीपाल रास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	
2581	2121	श्रेणिक रास	कल्याणकीर्ति सूरि	हिन्दी / डी	1747
2582	2739	श्रेणिक रास	कल्याणकीर्ति सूरि	हिन्दी / डी	
2583	5745	श्रेणिक रास	अमरकीर्ति	संस्कृत / डी	1769
2584	2165	श्रृंगार शतक	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
2585	5078	श्रृंगार शतक	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
2586	5533	श्रृंगार शतक	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	
2587	5742	श्रृंगार शतक	भर्तृहरि	संस्कृत / डी	

नाटक, विलास, रास, छंदालंकार

(160)

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15-70	8.5x20	12	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
27	5x18.5	4	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	9x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
25	9x21	17	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
49	10.5x18	20	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	13x30	20	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	7.5x19	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	8.5x20	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
37	11x25.5	14	गद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
28	11x22	15	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
19	9.5x21.5	11	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
31	9x25	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
29-32	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
21	8x13	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	10x13.5	18	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
21	9x23	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
27	12x9	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	अप्रकाशित
68	12x8	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	अप्रकाशित
4	9x20	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
93-94	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
10	11x18	12	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
7	9.5x22	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	10x21	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
151	8x20.5	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
19	10x21.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
22	9x22	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
53	9x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
90	12x15.5	10	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
40	9x21.5	16	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	अप्रकाशित
50	8.5x21.5	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	22x10	15	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
10	10x23	11	पद्य	A	पूर्ण	बून्दी	
9	6.5x17	9	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2588	6066	श्रृंगार चेतनी		हिन्दी / डी	
2559	2109	सत्गुरु शतक	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1852
2590	2086	सत्गुरु शतक	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1852
2591	2224	सप्त व्यसन रास	ब्र० माणिकचन्द्र	हिन्दी / डी	1842
2592	2594	समाधिशतक छंद	लक्ष्मणदास	हिन्दी / डी	1858
2593	3134	सम्मेशिखर विलास	गुलाबराय मोतीराम	हिन्दी / डी	1847
2594	5118	सम्मेशिखर विलास	गुलाबराय मोतीराम	हिन्दी / डी	1846
2595	3206	संबोधि-पंचाशिका	पं० बुधजन कवि	हिन्दी / डी	1807
2596	1667	सम्यक्त्वलीला विलास	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1950
2597	1898	सम्यक्त्वलीला विलास	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1938
2598	5127	सम्यक्त्वलीला विलास	कवि विनोदीलाल	हिन्दी / डी	1892
2599	6270	सासर वासो रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	
2600	5876	सिक्खा वयणु	श्रीमान कवि	अपभ्रंश / डी	1668
2601	1916	सिंहासन बत्तीसी	विक्रम कवि	संस्कृत / डी	1837
2602	2179	सीता शील विलास	भट्टा० धर्मचन्द्र	हिन्दी / डी	1825
2603	6237	सिद्धचक्र रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1733
2604	2079	सुदर्शन-रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1836
2605	2554	सुदर्शन-रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1815
2606	2490	सुदर्शन स्वामी छंद	हर्ष सागर	हिन्दी / डी	1830
2607	2178	सुकुमाल-रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1728
2608	5390	सुपंथ कुपंथ पच्चीसी	पं० बनारसीदास	हिन्दी / डी	
2609	6036	सूआ बत्तीसी		हिन्दी / डी	
2610	2291	सोलहकारण रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1817
2611	1684	सरल ग्रंथ (पदादि)		हिन्दी / डी	1941
2612	2530	संगीत शास्त्र		संस्कृत / डी	
2613	1874	हनुवंत रास	ब्र० जिनदास	हिन्दी / डी	1921
2614	6292	हिंडोरना		हिन्दी / डी	1740

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
127-129	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
7	7.5x20	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
7	7x19	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
23	10x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
14	10x11	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
162	12x19.5	11	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	अप्रकाशित
49	14x27	12	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	अप्रकाशित
82	8x12.3	10	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	अप्रकाशित
200	12.5x25	12	पद्य	C	पूर्ण	पटनागंज	अप्रकाशित
126	12x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
193	12x19	10	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	अप्रकाशित
10	10x23	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
13	12x9	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	अप्रकाशित
14	8x20.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
150	9x18	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	9x21	15	पद्य	B	पूर्ण	मिर्जापुर	अप्रकाशित
34	9.5x20	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
19	9x22	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अप्रकाशित
6	9x21	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
33	10x24	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
2	22x13	23	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
218-222	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
22	10.5x17	11	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
74	21x11.5	24	पद्य	A	पूर्ण	को० प० बीना	
5	8x20	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
54	8.5x25	10	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	अप्रकाशित
19	11x13	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विष्णु संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2615	1996	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	
2616	2958	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	
2617	3231	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	1891
2618	5142	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	
2619	5274	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	1911
2620	6114	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	1965
2621	6275	अरिहंत पासा केवली	कवि वृंदावन दास	हिन्दी/डी	
2622	2501	अध्यात्म विद्योपदेश विधि	शंकर	संस्कृत/डी	
2623	5751	अनिष्टाध्याय		संस्कृत/डी	
2624	2563	अष्टोत्तरी-दशा-फल		संस्कृत/डी	
2625	2660	इन्द्रजाल		संस्कृत/डी	
2626	2556	इन्द्रजाल		संस्कृत/डी	
2627	1887	उद्यापनमंत्र-पाठ		संस्कृत/डी	1674
2628	6249	कल्पयोग		संस्कृत/डी	
2629	5366	कर्मदहन मंत्र		संस्कृत/डी	
2630	2234	केदार कल्प		संस्कृत/डी	
2631	6280	गणितसार-संग्रह	महावीराचार्य	संस्कृत/डी	
2632	5562	ग्रहलाघव सारणी		संस्कृत/डी	
2633	1825	घण्टाकर्ण महामंत्र		संस्कृत/डी	
2634	5899	घण्टाकर्ण महामंत्र		संस्कृत/डी	1940
2635	2622	घट कर्परं	कालिदास	संस्कृत/डी	1694
2636	2582	चन्द्रग्रहणोदाहरण	पं० गुलाबचंद	हिन्दी/डी	
2637	3240	चन्द्रगुप्त स्वप्न फल		हिन्दी/डी	
2638	5149	ज्योतिष नाममाला		संस्कृत/डी	
2639	5535	ज्योतिष रत्नमाला सटीक	श्री पतिभट्ट/पं० वैजकृत	संस्कृत/हि./डी	1651
2640	5548	ज्योतिष रत्नमाला सटीक	श्री पतिभट्ट/पं० वैजकृत	संस्कृत/हि./डी	1789
2641	5763	ज्योतिषशास्त्र		संस्कृत/डी	
2642	6039	ज्योतिषशास्त्र		संस्कृत/डी	
2643	6230	ज्योतिषशास्त्र		संस्कृत/डी	
2644	4799	ज्योतिषशास्त्र		संस्कृत/डी	
2645	6020	णमोकारमंत्र पीठिका		हिन्दी/डी	
2646	2528	त्रिंशत योगावली		संस्कृत/डी	
2647	2625	नव रत्न		हिन्दी/डी	

ज्योतिष, यंत्र मंत्र, आयुर्वेद (164)
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	9.5x21	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
	9x10	9	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
12	10x9	9	पद्य	B	पूर्ण	डोगरा	
11	7x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	11x12	10	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
12	14x11	18	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
5	8.2x18.5	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
18	7x17	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
6	8x20	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	9x20	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	7.5x20	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
15	9x22	13	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
43	10.5x22.5	14	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
48	8x20	12	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
11	6.5x12	8	गद्य	A	पूर्ण	कवाल	
66	9x17.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	कुल श्लोक 1075 है।
25	7x20	11	पद्य/गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	8.5x19.3	15	गद्य	A	पूर्ण	बून्दी	अंको में लिखा है।
22	9.5x6.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भुसावल	
57 तक	8x12	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
17	7x14.5	6	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
79	5.5x20	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
32	10x21	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
5	9.5x22	15	पद्य	A	पूर्ण	बबीना	
119	9x21	11	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
32	11x7	11	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
6	8x17.5	11	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
41	9.5x23	10	गद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
52	8.5x19.5	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
2-20	12x21	12	गद्य	C	अपूर्ण	अजमेर	
79	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
10	7.5x19	9	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
5	6x11.5	7	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्वकाल संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2648	2652	नक्षत्र बत्तीसी	ब्र० नेमीचन्द्र	हिन्दी / डी	1849
2649	5772	नदु घडियो	शिवा	संस्कृत / डी	1818
2650	3093	नाडिक शास्त्र	हरिभद्र	संस्कृत / डी	1730
2651	6167	नाडी परीक्षा		संस्कृत / डी	
2652	6174	पल्ली विचार		संस्कृत / डी	
2653	6183	पाकावली	हेमराज	हिन्दी / डी	1879
2654	1825	पोथी(घण्टाकरण मंत्रादि)		संस्कृत / डी	
2655	5560	पंचांग कौतूहल	ज्योतिश्वर	संस्कृत / डी	
2656	5776	पंचांग वि.सं.१६१६ का		हिन्दी / डी	
2657	5660	वर्ष फल		संस्कृत / डी	
2658	1630	भक्तामर ऋद्धिमंत्र यंत्र		संस्कृत / डी	
2659	5392	भक्तामर ऋद्धिमंत्र यंत्र		संस्कृत / डी	1962
2660	6011	भक्तामर ऋद्धिमंत्र यंत्र		संस्कृत / डी	
2661	5248	भक्तामर ऋद्धिमंत्र यंत्र		संस्कृत / डी	1800
2662	2911	भक्तामर ऋद्धिमंत्र यंत्र		संस्कृत / डी	
2663	5654	भावफल		संस्कृत / डी	1869
2664	2632	भुवनेश्वरी पटल		संस्कृत / डी	
2665	5567	माधव निदान	माधवाचार्य	संस्कृत / डी	
2666	5168	माशेष फल		संस्कृत / डी	
2667	3102	मुहूर्त चिंतामणी		संस्कृत / डी	
2668	2168	मंत्र महोदधि नौका	महीधर	संस्कृत / डी	1779
2669	6165	मंत्र महोदधि नौका	महीधर	संस्कृत / डी	1934
2670	2468	मंत्र फलाफल		संस्कृत / डी	
2671	2568	मंजन निदान	अग्निवेश	संस्कृत / डी	1755
2672	5566	योग चिंतामणी	हर्षकीर्ति सूरी	संस्कृत / डी	1790
2673	5561	योगाधिकार रत्नदीपक	गणपति	संस्कृत / डी	1803
2674	6120	यंत्र चौपाई		हिन्दी / डी	
2675	6164	रस-रत्नाकर	सैदपहार	हिन्दी / डी	
2676	6228	रस-रहस्य	मिश्र कुलपति	हिन्दी / डी	1792
2677	1954	रस-संकेत कलिका	श्री चावुण्ड	संस्कृत / डी	
2678	2450	रसमंजरी	भानुकवि	संस्कृत / डी	1600
2679	3094	रसतरंगणी	भानुदत्त	संस्कृत / डी	
2680	5542	रसपद्धति	वैद्यवर विंडना	संस्कृत / डी	1829

ज्योतिष, यंत्र मंत्र, आयुर्वेद
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	10x21	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7	8x15	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
6-22	8.5x21	13	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
6	13x21	12	पद्य	B(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
1	8.5x21	15	गद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
12	9x21	11	पद्य	B(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
22	9.5x6.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भुसावल	
6	10x25	22	पद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
12	10x18	17	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
6	11.5x25.5	14	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
39	7x16	11	गद्य	C	अपूर्ण	नईसराय	
26	11.5x20	13	गद्य	C	पूर्ण	कवाल	
42-44	12x10	13	गद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
11	12.5x25.5	16	गद्य	B	पूर्ण	अजनास	
37	16x11	16	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
1	9x21	18	गद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
16	5x11	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
111	6x20	9	गद्य	D	पूर्ण	बून्दी	
8	9x15	11	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
86	8.5x20.5	10	पद्य / गद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
61	7.5x23	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
75	20x30	15	पद्य	A(z)	पूर्ण	जबलपुर	
2	8.5x21	12	गद्य	C	पूर्ण	जबलपुर	
15	6x20	9	पद्य	C	पूर्ण	जबलपुर	
13	8x20	13	पद्य	C	पूर्ण	बून्दी	अप्रकाशित
14	8x21	12	गद्य	C	पूर्ण	बून्दी	
1	13x20	28	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
88	10x24	10	पद्य	A(z)	पूर्ण	अजमेर	
229	8x13.5	7	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	अप्रकाशित
25	9x19.5	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
22	7x17.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	8x18.5	17	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	8x21	10	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2681	2667	रित्यंक गर्भषडावक	देवनंदी	संस्कृत / डी	
2682	5170	लग्न चंद्रिका		संस्कृत / डी	
2683	1855	लङ्घन पथ्य निर्णय		संस्कृत / डी	1895
2684	2508	लीलावती गणित	भास्करनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	1682
2685	2794	लीलावती गणित	पं० मथुरानाथ	हिन्दी / डी	
2686	6156	विद्यानुवाद		संस्कृत / डी	
2687	2087	वैद्य महोत्सव	पं० केशवदास	हिन्दी / डी	1710
2688	6318	वैद्य महोत्सव	पं० केशवदास	हिन्दी / डी	
2689	5677	वैद्य महोत्सव	पं० केशवदास	हिन्दी / डी	
2690	3038	वैद्य जीवन		संस्कृत / डी	
2691	3095	वैद्यक ग्रंथ		हिन्दी / डी	1962
2692	5752	वैद्यक ग्रंथ		संस्कृत / डी	
2693	6245	वैद्यक ग्रंथ		हिन्दी / डी	
2694	6339	वैद्यक ग्रंथ		संस्कृत / डी	1831
2695	2096	शत संवत्सरी फलाफल		संस्कृत / डी	1737
2696	2664	शकुन प्रयोग		संस्कृत / डी	
2697	5570	शार्ङ्गधर		संस्कृत / डी	1686
2698	2022	श्रावकधर्म मंत्रविधि		संस्कृत / डी	
2699	5959	षोडश योग टीका		संस्कृत / डी	1780
2700	5653	सगुन फल		संस्कृत / डी	
2701	3082	सामुद्रिक-शास्त्र		संस्कृत / डी	
2702	5543	सामुद्रिक-शास्त्र		संस्कृत / डी	
2703	6346	सामुद्रिक-शास्त्र		संस्कृत / डी	1683
2704	6290	सुगनोती		हिन्दी / डी	1912
2705	5273	सुगनोती		हिन्दी / डी	
2706	5148	सुगम विवाह शोधन-क्रिया		हिन्दी / डी	
2707	3056	सुधारस-सार वच०		हिन्दी / डी	1897
2708	6162	सुधारस-सार वच०		हिन्दी / डी	1895
2709	1994	स्वप्नाध्याय	पं० हीरानंदन	संस्कृत / डी	1854
2710	2636	स्वरोदय	जीवनाथ	हिन्दी / डी	1888
2711	6192	हट प्रदीपिका		संस्कृत / डी	
2712	5556	होरासार वृत्ति		संस्कृत / डी	

ज्योतिष, यंत्र मंत्र, आयुर्वेद
संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	6.5x22	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
	10x16	17	पद्य / गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
13	12x28.5	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
40	8x22	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
39	11x12	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
326	14x22	13	गद्य	A(z)	पूर्ण	बड़ा मं. कलकत्ता	
19	8x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	12x24	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
3	10x24	11	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
13	9x21	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
49	7x23	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
2	8x20	16	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
56	21.5x12	15	पद्य	C	पूर्ण	को० प० बीना	
32	8x16	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
22	8x21	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	7x19	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
77	8x19.3	13	गद्य	D	पूर्ण	बून्दी	
18	20x13	20	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
20	9x20	14	गद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
1	10x22	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
36	7x19	10	गद्य	C	पूर्ण	झांसी	
23	7.5x24.3	7	गद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
	26x9.5	34	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
11	14x12	17	गद्य	B	पूर्ण	सारोला	
17	10x13	10	पद्य	C	पूर्ण	अजनास	
1	9.5x22	15	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
187	8.5x22	11	गद्य	A	पूर्ण	जबलपुर	अप्रकाशित
178	9x23	11	गद्य	A(z)	पूर्ण	जबलपुर	अप्रकाशित
7	9.5x20.5	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	9x9.5	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
18	10x24	12	गद्य	B(z)	पूर्ण	झालरापाटन	
10	8x24	10	गद्य	C	पूर्ण	बून्दी	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (पिछम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2713	2804	अनंतव्रत पूजन		हिन्दी / डी	1935
2714	2833	अनंतव्रत पूजन		संस्कृत / डी	
2715	2288	अनंतव्रत पूजन	ब्र० शांतिदास	संस्कृत / डी	1842
2716	5618	अनंतव्रत पूजन	ब्र० शांतिदास	संस्कृत / डी	
2717	5632	अनंतव्रत पूजन	रामचन्द्र	हिन्दी / डी	
2718	5639	अनंतव्रत पूजन	रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1869
2719	5864	अनंतव्रत पूजन	ब्र० शांतिदास	संस्कृत / डी	
2720	2545	अनंत व्रत उद्यापन	सकलकीर्ति	हिन्दी / डी	
2721	2140	अनंत व्रत उद्यापन		संस्कृत / डी	1796
2722	2173	अनंत व्रत उद्यापन		संस्कृत / डी	
2723	2332	अनंत चतुर्दशी पूजन		संस्कृत / डी	
2724	2334	अनंत चतुर्दशी पूजन		संस्कृत / डी	1942
2725	2701	अनंत चतुर्दशी व्रतोद्यापन		संस्कृत / डी	1902
2726	2785	अष्टान्हिका पूजन		हिन्दी / डी	
2727	3210	अष्टान्हिका पूजन		संस्कृत / डी	1899
2728	4941	अष्टान्हिका पूजन		हिन्दी / डी	
2729	2740	अष्टान्हिका व्रतोद्यापन		हिन्दी / डी	
2730	3230	अष्टान्हिका व्रतोद्यापन		हिन्दी / डी	
2731	4889	अभिषेक विधि		संस्कृत / डी	
2732	3099	अभिषेक विधि		संस्कृत / डी	
2733	2518	अभिषेक पूजनादि		संस्कृत / डी	1903
2734	5909	अकीर्तिम जिन मंदिर पूजन		हिन्दी / डी	
2735	1583	अकीर्तिम जिन मंदिर पूजन		हिन्दी / डी	1906
2736	5464	अकीर्तिम जिन मंदिर पूजन		हिन्दी / डी	1918
2737	3049	अकीर्तिम चैत्यालय विधान	सुमतिसागर	संस्कृत / डी	1946
2738	5409	अकीर्तिम जिन मंदिर पूजन		हिन्दी / डी	1931
2739	5909	अकीर्तिम चैत्यालय पूजन		हिन्दी / डी	
2740	6030	अकीर्तिम चैत्यालय जयमाला		हिन्दी / डी	
2741	4876	अठाई जी की पूजन		हिन्दी / डी	
2742	2058	अंकुरार्पण विधि		संस्कृत / डी	
2743	2077	अंकुरारोपण		संस्कृत / डी	
2744	2016	इन्द्रध्वज पूजन	विश्वभूषण भट्टा०	संस्कृत / डी	1901
2745	5523	ऋषिमण्डल पूजन	गुणनंदि मुनि	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23	13.5x19	16	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
27	12x9.5	12	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
12	11x21	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	10x21.5	10	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
21	12x14.5	14	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	12x20	13	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
62-65	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
35	9x26	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
14	10x24	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	10.5x21.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
60	12x20	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
18	10x22	11	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
17	8x20	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
18	11.5x17.5	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
15	7x11	9	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
50-51	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
134	11.5x11.3	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
30	15x11	15	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
31-34	9x9	10	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
25	8x20	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
22	7.5x20	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
120	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
189	11x27	9	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
105	14x27	17	पद्य	A	पूर्ण	जानसट	
9	12.3x20	10	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
198	11x26	12	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
120	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
200-203	12x10	13	पद्य	B	पूर्ण	को० प० बीना	
43-84	14x10	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
4	11x23	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
106	9x24	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
151	8x20	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
19	9x21	11	पद्य	C	पूर्ण	बून्दी	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2746	2687	ऋषिमण्डल पूजन	गुणानंदि मुनि	संस्कृत / डी	
2747	1616	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1940
2748	1635	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1944
2749	1690	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1917
2750	1785	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2751	2059	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1674
2752	2366	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1904
2753	2186	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1751
2754	2497	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1663
2755	2665	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2756	2684	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1841
2757	2699	कर्मदहन विधान	वादिराज सूरि	संस्कृत / डी	
2758	2966	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1877
2759	3154	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1963
2760	3046	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1836
2761	3266	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2762	3362	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2763	4995	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1749
2764	5022	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1963
2765	5613	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2766	6060	कर्मदहन विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2767	5922	कलषाभिषेक पाठ		संस्कृत / डी	
2768	5873	कालावली जयमाला		प्राकृत / डी	1668
2769	5827	क्षेत्रपाल पूजन		संस्कृत / डी	
2770	1962	गणधरवल्लय पूजन	शुभचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	
2771	6195	गणधरवल्लय पूजन	शुभचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	
2772	6208	गणधरवल्लय पूजन	शुभचन्द्र आचार्य	संस्कृत / डी	
2773	3119	गिरनार क्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	1947
2774	5803	गिरनार क्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	
2775	1767	गिरनार क्षेत्र फूलमाला		हिन्दी / डी	
2776	4945	गुरु पूजन		हिन्दी / डी	1917
2777	5816	गुटका (पूजनादि)		हिन्दी / डी	
2778	1553	गुटका (पूजनादि)		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6-16	8x24	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
15	12x22	13	पद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
17	11.3x19	13	पद्य	B	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
20	11x17	19	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
32	20x9	23	पद्य	C	पूर्ण	महाना	
19	9.5x24	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
17	8x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
21	8x22.5	23	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3-21	9x22	10	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	प्रा.के २ पत्र नहीं हैं।
12	10x18	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
12	10.5x19	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
17	10.5x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
64	14.5x9.5	19	पद्य	A	पूर्ण	झांसी	अन्य पूजाएं भी दी हैं।
59	19x13.5	18	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
18	9x21	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
24	12x15	14	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
45	11.5x11.3	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
83-106	16x10	21	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
24	21x10	11	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
23	10x18	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
22	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
65	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
6	12x9	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
37-44	10x12	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	9.5x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
18	10x19	21	पद्य	A(z)	पूर्ण	कलकत्ता	
22	7x11	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
68	14x19	12	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
11	12x20	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
2	18x9.5	16	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
55	14x26	18	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
15	8x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
113	8x13	9	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर ग्रोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2779	1657	गुटका (पूजनादि)		हिन्दी / डी	
2780	1555	चतुर्दशी उद्यापन विधि	आ० शुभचन्द्र	हिन्दी / डी	
2781	2049	चतुर्विंशति पूजन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
2782	2050	चतुर्विंशति पूजन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	1581
2783	5822	चतुर्विंशति पूजन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
2784	1705	चन्द्रप्रभ पूजनादि		हिन्दी / डी	1938
2785	2161	चारित्रशुद्धि विधान		संस्कृत / डी	1701
2786	2511	चिंतामणी पार्श्वनाथ पूजन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
2787	5905	चैत्यवन्दना		संस्कृत / डी	
2788	1547	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1909
2789	1543	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2790	1641	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1895
2791	1646	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1936
2792	1651	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1941
2793	1663	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2794	1682	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1946
2795	1605	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2796	1629	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1860
2797	1701	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1872
2798	1717	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1920
2799	1740	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2800	1757	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2801	1784	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2802	1963	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2803	2364	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1940
2804	2424	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1927
2805	2878	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1943
2806	2915	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2807	2924	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2808	3019	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1882
2809	3020	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1870
2810	3103	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1912
2811	3161	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
62	9x12	9	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
15	8x11	10	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
47	10x24	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
46	9.5x25.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	10x12	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
8	8x11	7	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
124	10x23	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
12	8x20	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7	9x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
85	13x21	12	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
75	12x18	13	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
54	11.5x20	12	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंजरहली	
51	13x27	12	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंजरहली	
91	11x22	18	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंजरहली	
79	19.2x12	12	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंजरहली	
65	11.5x16.5	12	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंजरहली	
80	10x19	12	पद्य	C	पूर्ण	केवलारी	
60	12x12	14	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
64	10x17	9	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
106	10x17	10	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
78	11.5x18	11	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
78	10.5x19.5	11	पद्य	D	पूर्ण	अशोकनगर	
18	10x17	11	पद्य	C	पूर्ण	चौंदपुर	
61	9x17	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
46	14x23	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
43	12x19	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	17.5x23	15	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
43	11x23.5	13	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
58	10.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
35	9.5x26	12	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
45	18x12	20	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
50	10x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
72	18x12	20	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2812	3165	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1905
2813	3168	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2814	3200	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2815	3251	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1962
2816	3280	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1906
2817	3299	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1869
2818	3449	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2819	4920	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1860
2820	5021	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1910
2821	5157	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2822	5204	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1906
2803	5238	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1920
2824	5259	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1992
2825	5306	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1924
2826	5341	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1909
2827	2876	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1935
2828	5380	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	
2829	5393	चौबीसी विधान		संस्कृत / डी	
2830	5600	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2831	5784	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	
2832	5796	चौबीसी विधान	बखतराम	हिन्दी / डी	1854
2833	5809	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1907
2834	5813	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2835	5970	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2836	5987	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1892
2837	6051	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2838	6113	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2839	6127	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1922
2840	6238	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	
2841	6240	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1935
2842	3388	चौबीसी पूजन	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1834
2843	3417	चौबीसी पूजन	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2844	5052	चौबीसी पूजन	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	1946

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
70	11.5x17.5	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
68	11.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
59	11.5x11	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
99	10x22	12	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
67	9.5x19	12	पद्य	B	पूर्ण	छोटीमुहारी	
101	11x25.5	13	पद्य	C	पूर्ण	सहराई	
98	9.5x23	9	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
116	20x11.1	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
66	20x11	12	पद्य	D	पूर्ण	बांसी	
10-46	10x27	13	पद्य	C	अपूर्ण	अजमेर	
55	12x24	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
77	12x25	12	पद्य	A	पूर्ण	अजनास	
128	9x19	9	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
86	9x20	10	पद्य	A	पूर्ण	जौला	
54	23x11.5	25	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
15	11.5x18	12	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
81	14x11	15	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
64	9x19.5	11	पद्य	C	पूर्ण	कवाल	
43-93	10x19	13	पद्य	B	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
117	7x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
59	9x22.5	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
52	11x24	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
5-58	9.5x14	12	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
62	10x114	10	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
83	12.3x17	16	पद्य	A	पूर्ण	सुल्तानगंज	
82	10x14	17	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
90	10x16.5	12	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
87	10x17	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
120	14x10.5	13	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
61	15x12	15	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
75	12x10	14	पद्य	A	पूर्ण	दमोह	
63	11x19	11	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
62	26x12	11	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2845	5378	चौबीसी पूजन	भाई चन्द्रहंस	हिन्दी / डी	1852
2846	5477	चौबीसी पूजन	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1871
2847	5516	चौबीसी पूजन	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1848
2848	5656	चौबीसी विधान		संस्कृत / डी	1857
2849	5805	चौबीसी विधान	पं० देवीदास	हिन्दी / डी	
2850	5514	चौबीसी विधान	चौ० रामचन्द्र	हिन्दी / डी	1825
2851	5595	चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1936
2852	1527	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	1964
2853	1558	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	1966
2854	1756	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	1966
2855	3120	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	1937
2856	3167	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	1951
2857	3179	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	
2858	5454	चौषठ ऋद्धि विधान	स्वरूपचन्द्र मुनि	हिन्दी / डी	
2859	5830	२४ तीर्थकर पंचकल्याणक ति.		हिन्दी / डी	
2860	1895	चन्द्रायण गीतादि		हिन्दी / डी	
2861	2105	जिनयज्ञकल्प	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1818
2862	3091	जिनयज्ञकल्प	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
2863	5759	जिनयज्ञकल्प	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	1523
2864	2297	जिनप्रतिमा स्वरूप		हिन्दी / डी	
2865	2397	जिनपंचकल्याणक		संस्कृत / डी	1831
2866	5201	जिन मंदिर बिम्ब प्रतिष्ठा सा.		हिन्दी / डी	
2867	5831	जिनगुणसम्पत्ति पूजन	पं० रतनचन्द्र	संस्कृत / डी	
2868	2846	ढाई द्वीप विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1950
2869	3011	ढाई द्वीप विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
2870	6239	ढाई द्वीप विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1892
2871	1650	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1936
2872	2034	तीस चौबीसी विधान	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
2873	2819	तीस चौबीसी विधान	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
2874	2882	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
2875	3017	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1878
2876	3021	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	1939
2877	3127	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावनदास	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
31	13x11.5	11	पद्य	C	पूर्ण	कवाल	
78	13x9.5	15	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
42	15x29	15	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
10	9x21	10	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
28	11x21.5	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
42	29x14.5	35	पद्य	A	पूर्ण	बइसूमाँ	
127	9x20	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
42	9.5x19	10	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
41	8.5x17	10	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
37	12x14.5	14	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
37	12.5x20	20	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
47	12x18	11	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
5	9.5x14	7	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
30	13x25.3	13	पद्य	A	पूर्ण	जानसट	
	13x12	19	गद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
	23x11.5	23	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
103	11x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
102	7.5x19	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
149	8x19	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
59	18.5x20	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
26	9x21	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
13	23x11	29	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
1	8x12	11	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
100	12x25	12	पद्य	B	पूर्ण	माढा	
102	9x25	12	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
5	11x19	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
64	14x27	14	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
43	8x23	10	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
47	12.5x16	13	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
54	14.5x26	19	पद्य	A	पूर्ण	माढा	
89	10.5x25	12	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
32	12x19.5	12	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
160	17x27.5	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2878	3355	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावन दास	हिन्दी / डी	1900
2879	5370	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावन दास	हिन्दी / डी	1915
2880	5540	तीस चौबीसी विधान	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	1780
2881	5787	तीस चौबीसी विधान	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	1595
2882	1599	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावन दास	हिन्दी / डी	
2883	2273	तीस चौबीसी विधान	कवि वृंदावन दास	हिन्दी / डी	1958
2884	2272	तीन लोक पूजन		हिन्दी / डी	1958
2885	2277	तेरह द्वीप विधान	पं० स्वरूपचंद	हिन्दी / डी	1932
2886	3189	तेरह द्वीप विधान	पं० स्वरूपचंद	हिन्दी / डी	1958
2887	4956	तेरह द्वीप विधान	पं० स्वरूपचंद	हिन्दी / डी	1938
2888	5233	तेरह द्वीप विधान	पं० स्वरूपचंद	हिन्दी / डी	1867
2889	5247	तेरह द्वीप विधान	पं० स्वरूपचंद	हिन्दी / डी	1966
2890	6052	तेरह द्वीप विधान	पं० स्वरूपचंद	हिन्दी / डी	1911
2891	5509	तेरह द्वीप पूजन पाठ		हिन्दी / डी	
2892	2188	त्रिकाल चौबीसी पूजन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	1690
2893	2486	त्रिकाल चौबीसी पूजन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
2894	2969	त्रिलोक विधान		हिन्दी / डी	1854
2895	5808	त्रिलोकसार पूजन		संस्कृत / डी	1853
2896	2322	त्रेपन क्रिया जिन पूजा		संस्कृत / डी	
2897	1699	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2898	1746	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	1937
2899	2073	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2900	5862	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2901	5908	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	1940
2902	5780	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2903	1664	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2904	1675	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	1941
2905	2654	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	1872
2906	4926	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2907	4935	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	1917
2908	2260	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2909	2298	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2910	2635	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
102	9x24	12	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
123	14.5x12	16	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
42	9.5x23	12	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
88	8x12	10	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	12x12	14	पद्य	D	पूर्ण	अशोकनगर	
91	11.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
42	15x24	13	पद्य	C	अपूर्ण	भानपुरा	
145	10x24	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
146	12x20	14	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
217	24x14	13	पद्य	A	पूर्ण	फिरोजाबाद	
135	10x25	11	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
150	13x22	14	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
185	21x11	11	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
158	10.5x26.5	11	पद्य	B	पूर्ण	बड़सूमा	
30	10x23.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
13	8x20	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
143	8x20	10	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
82	10.5x25	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
56	10x17	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
12	13x21.5	19	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
37	12x21.5	10	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
18	10x22	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
51-54	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
107-114	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
12-67	8.5x13	10	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
32	14x15.5	17	पद्य	C	पूर्ण	पटनागंज	
43	10x19	11	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
6	10.5x21.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	27x14	13	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
18-22	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
41	11.3x25	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
36	10x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
90	6x12	7	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2911	5979	दशलक्षण पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी / डी	
2912	1531	दशलक्षण जयमाला		हिन्दी / डी	1958
2913	2067	दशलक्षण जयमाला	भावशर्म	प्राकृत / डी	
2914	2302	दशलक्षण जयमाला	भावशर्म	प्राकृत / डी	
2915	2449	दशलक्षण जयमाला	भावशर्म	प्राकृत / डी	1810
2916	5651	दशलक्षण जयमाला	रङ्गू कवि	अपभ्रंश / डी	
2917	5669	दशलक्षण जयमाला	भावशर्म	प्राकृत / डी	
2918	5738	दशलक्षण जयमाला	रङ्गू कवि	अपभ्रंश / डी	
2919	4912	दशलक्षण जयमाला	भावशर्म	प्राकृत / डी	
2920	5974	दशलक्षण जयमाला टीका		हिन्दी / डी	1953
2921	5029	दशलक्षण जयमाला टीका		हिन्दी / डी	
2922	1755	दशलक्षण उद्यापन		हिन्दी / डी	
2923	2463	दशलक्षण उद्यापन	भट्टा० ज्ञानभूषण	संस्कृत / डी	
2924	3050	दशलक्षण उद्यापन		हिन्दी / डी	
2925	4793	दशलक्षण उद्यापन		संस्कृत / डी	1835
2926	2656	दशलक्षण उद्यापन		संस्कृत / डी	
2927	3485	दशलक्षण उद्यापन		हिन्दी / डी	
2928	2373	देव पूजन		संस्कृत / डी	
2929	2422	देव पूजन		हिन्दी / डी	1919
2930	3238	देव पूजन		हिन्दी / डी	1860
2931	3267	देव पूजन		हिन्दी / डी	1915
2932	5174	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2933	5296	देव पूजन		हिन्दी / डी	1845
2934	5445	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2935	5904	देव पूजन		संस्कृत / डी	
2936	6086	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2937	6087	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2938	4802	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2939	4817	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2940	4832	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2941	5923	देव पूजन		संस्कृत / डी	
2942	5638	देव पूजन		हिन्दी / डी	
2943	1785	देव पूजन		हिन्दी / डी	

पूजन-विधान

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45	12x11	16	पद्य	B	पूर्ण	पड़ा	
17	12x16	14	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
11	8x25	18	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
13	11x28	17	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
10	8x20	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
11	11.5x20.5	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
8	9x23.5	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
8	10x20	14	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
446-448	9x10	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
24	10.5x16.5	11	गद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
39	18x12	13	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
36	8x20.5	10	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	
16	8x23	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16	12x20	10	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
10	24x10	12	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
11	8x20.5	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
	12x20	19	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
20	18x20	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
23	11x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
24	9.5x14	11	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
12	6x12	7	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
10	12x16	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
61	8x11	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
31	21.5x11.5	23	पद्य	B	पूर्ण	बघरा	
78-83	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11	11.5x19	13	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
10	12.5x30	32	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7-46	12x9.1	19	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
7-37	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
7-39	13x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
117	7.5x13	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
16	11.5x21.7	18	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
35	10x8	12	पद्य	C	पूर्ण	महाना	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2944	1918	देव पूजन		हिन्दी/डी	
2945	3188	देव पूजन		हिन्दी/डी	1892
2946	4847	देव सिद्ध पूजन		हिन्दी/डी	
2947	4875	देव सिद्ध पूजन		हिन्दी/डी	
2948	4900	देव सिद्ध पूजन		संस्कृत/डी	
2949	2467	देव सिद्ध पूजन		संस्कृत/डी	
2950	3164	देव सिद्ध पूजन		संस्कृत/डी	1918
2951	4861	देव सिद्ध पूजन		हिन्दी/डी	
2952	5305	देव सिद्ध पूजन		संस्कृत/डी	
2953	3186	देवांगुली पूजन		संस्कृत/डी	
2954	5441	देव पूजन वच०		हिन्दी/डी	
2955	5031	देव,शास्त्र,गुरु पूजन	पं० दौलतराम	हिन्दी/डी	
2956	5266	देव,शास्त्र,गुरु पूजन	पं० दौलतराम	हिन्दी/डी	
2957	5426	देव,शास्त्र,गुरु पूजन	पं० दौलतराम	हिन्दी/डी	1966
2958	1633	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	
2959	1673	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	
2960	1765	नवग्रह विधान	सुखसागर	संस्कृत/डी	1963
2961	1772	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	
2962	1789	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	1880
2963	2423	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	1944
2964	2592	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	
2965	2666	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	1892
2966	3180	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	
2967	5015	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	1945
2968	5117	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	1983
2969	5398	नवग्रह विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी/डी	
2970	3304	नवग्रह विधान	सुखसागर	संस्कृत/डी	1672
2971	5859	नवग्रह विधान	सुखसागर	संस्कृत/डी	
2972	1540	नित्य नियम पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी/डी	1950
2973	2372	नित्य नियम पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी/डी	1945
2974	2489	नित्य नियम पूजन		संस्कृत/डी	
2975	3122	नित्य नियम पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी/डी	
2976	4794	नित्य नियम पूजन	पं० दानतराय	हिन्दी/डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22	9x19.5	20	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	अष्टक भी हैं।
38	13.5x19	13	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
7-37	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
13-42	14x8	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
191-226	9x10	9	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
13	9x23.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
21	8x16	10	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
7-36	12x19	19	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
10	8x22	10	पद्य	B	पूर्ण	जौला	
20	9x19	10	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
93	11.5x20.3	12	गद्य	D	अपूर्ण	बधरा	
5	10x14	18	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
4	13x17	19	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
28	11x21	12	गद्य	C	पूर्ण	मनसूरपुर	
22	11x13	12	पद्य	C	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
16	11x18	13	पद्य	C	पूर्ण	पटनागंज	
52	8.3x11	8	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
27	14.3x21	10	पद्य	C	पूर्ण	चौंदपुर	
21	8x17	10	पद्य	A	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
17	11x19	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
25	10.5x13.5	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	8.5x20.5	10	पद्य	D	पूर्ण	अथाईखेड़ा	
14	11x20	13	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
15	20x12.13	13	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
304-552	12x25	12	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
35	7x23	7	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
5	9.5x23.3	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
10	14x9	17	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
22	15x22	13	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
42	11x21	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
9	8x19	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
30	23x16	10	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
48	20x13	16	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2977	5368	नित्य नियम पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	
2978	5377	नित्य नियम पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	
2979	5387	नित्य नियम पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	
2980	5797	नित्य नियम पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	1940
2981	6266	नित्य नियम पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	
2982	1725	नित्य नियम पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	1935
2983	2861	नित्य नियम पूजन वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1921
2984	2990	नित्य नियम पूजन वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
2985	1639	नित्य नियम पूजन वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1923
2986	2326	नित्य नियम पूजन वच०	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1928
2987	1619	निर्वाण क्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	
2988	1734	निर्वाण क्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	1936
2989	4942	निर्वाण क्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	1917
2990	1666	निर्वाण मंगल विधान	जयराम	हिन्दी / डी	1846
2991	1689	निर्वाण मंगल विधान		हिन्दी / डी	1846
2992	2936	निर्वाण मंगल विधान		हिन्दी / डी	1926
2993	3491	निर्वाण मंगल विधान		हिन्दी / डी	1890
2994	5064	निर्वाण मंगल विधान		हिन्दी / डी	1889
2995	4955	नेमीनाथ मंगल		हिन्दी / डी	1917
2996	1647	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	
2997	2287	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	1932
2998	2296	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	1936
2999	3452	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	1998
3000	2789	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	1990
3001	3070	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	1934
3002	5799	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	1935
3003	3111	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	
3004	5205	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	
3005	2441	नंदीश्वर विधान	जिनेश्वर दास	हिन्दी / डी	
3006	2037	नंदीश्वर पूजन	सुमति सागर	संस्कृत / डी	1853
3007	2271	नंदीश्वर पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	
3008	5188	नंदीश्वर पूजन	पं० ध्यानतराय	हिन्दी / डी	
3009	5698	नंदीश्वर पूजन	सुमति सागर	संस्कृत / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16	9x12	9	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
46	12.5x12.5	13	पद्य	A	पूर्ण	कवाल	
70	13x11	8	पद्य	C	पूर्ण	कवाल	
60	9x21	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	9.5x15	10	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
92	11x17.3	9	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
55	7x24	7	गद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
46	11x18	12	गद्य	B	पूर्ण	झांसी	
51	10.5x17.5	11	गद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
41	10.5x20	12	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
8	12x12	13	पद्य	B	पूर्ण	महतपुर	
20	8x10	7	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
52	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
30	10.5x20	11	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
43	13x16	9	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
28	11x18	12	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
46	19x8	9	पद्य	A	पूर्ण	कैलगुवाँ	
37	17x10	10	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
89-94	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
18	12x20	13	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
19	11x18	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
187	14x20	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
39	14x20	14	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
106	14x27	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
19	11.5x24	13	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
45	11x22	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
64	19x27	14	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
55	16x28	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
13	10x18	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
17	9x24	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
33	11.5x26	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6-16	13x27	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
3	9x25	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (झारखण्ड) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3010	5824	नंदीश्वर पूजन		संस्कृत / डी	
3011	5866	नंदीश्वर पूजन		संस्कृत / डी	
3012	2661	नंदीश्वर पंक्ति पूजन		संस्कृत / डी	
3013	3254	नंदीश्वर उद्यापन		हिन्दी / डी	1936
3014	5781	नंदीश्वर उद्यापन		संस्कृत / डी	1857
3015	1983	पल्य विधान	रत्ननंदी भट्टा०	संस्कृत / डी	1679
3016	1978	पल्य विधान	रत्ननंदी भट्टा०	संस्कृत / डी	
3017	2513	पल्य विधान	ब्र० गोकुलदास	संस्कृत / डी	
3018	5572	पल्य विधान	रत्ननंदी भट्टा०	संस्कृत / डी	1859
3019	2119	पल्य विधान रास	ब्र० रत्नपाल	संस्कृत / डी	
3020	2646	पल्य विधान रास	ब्र० रत्नपाल	संस्कृत / डी	
3021	2653	पल्य विधान रास	ब्र० रत्नपाल	संस्कृत / डी	
3022	2579	पद्म प्रभु पूजन		हिन्दी / डी	
3023	2576	पद्मावती पूजन		हिन्दी / डी	
3024	5881	पद्मावती पूजन		संस्कृत / डी	1882
3025	2466	पद्मावती पूजन	पं० जगजीवन	हिन्दी / डी	1829
3026	3435	पद्मावती कल्प विधान		संस्कृत / डी	
3027	2081	पुष्पांजली पूजन		हिन्दी / डी	1892
3028	3415	पुष्पांजली पूजन	भट्टा० रतनचंद	संस्कृत / डी	
3029	4934	पुष्पांजली पूजन		हिन्दी / डी	1917
3030	4939	पुष्पांजली पूजन		हिन्दी / डी	1917
3031	5025	पुष्पांजली पूजन		हिन्दी / डी	1942
3032	2220	पुष्पांजली पूजन		संस्कृत / डी	1563
3033	5649	पुष्पांजली व्रतोद्यापन	पं० गंगादास	संस्कृत / डी	1898
3034	1723	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1925
3035	1801	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1971
3036	2275	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	1945
3037	2357	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3038	2425	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3039	2597	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3040	2812	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3041	2829	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3042	2841	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11-14	10x12	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
78-94	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
7	9x22	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
37	8.3x21	11	पद्य	C	पूर्ण	पारोल	
17	7.5x16.5	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	9x24.5	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
4	8x23	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
7	9x23	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
7	12.3x17	17	पद्य	B	पूर्ण	बून्दी	
5	8.5x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7	7.5x18.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
3	8.5x21	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
7	6x13	8	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	8x17.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
56-61	5.2x7	6	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	11x21.5	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
115-169	18.5x13.5	15	पद्य	A	पूर्ण	सिलवानी	सचित्र
15	10x20	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
78	10x18	11	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
12	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
43-48	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
14	18x9	8	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
109	9x23.5	10	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
9	13x21.5	10	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
27	17.5x9.5	17	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
197	12x15	15	पद्य	B	पूर्ण	सागर	
80	12x20	13	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
130	11x16	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
24	13.5x19	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
130	12x12	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
206	11x15.5	11	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
27	13.5x21	12	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	
65	15x21	14	पद्य	C	पूर्ण	सोलापुर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (झारखण्ड) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3043	2888	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3044	2909	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3045	2963	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3046	3061	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1902
3047	3441	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3048	3488	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3049	4959	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1924
3050	5014	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1964
3051	5019	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1913
3052	5020	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1913
3053	5213	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3054	5227	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3055	5260	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3056	5263	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3057	5283	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1911
3058	5379	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1953
3059	5446	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3060	5494	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1900
3061	5500	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1958
3062	5521	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3063	5635	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1934
3064	5789	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3065	5855	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1639
3066	5928	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3067	5980	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3068	5986	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3069	6046	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3070	6050	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3071	6055	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3072	6072	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3073	6107	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3074	6128	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3075	6139	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1880

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक मुक्तलिखित कर्षों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
140	9x16	10	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
113	11.5x11	13	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
102	12x16	12	पद्य	A	पूर्ण	झांसी	
125	8.5x11	19	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
135	13x19	10	पद्य	C	पूर्ण	सोनीपत	
54	20x11	12	पद्य	C	पूर्ण	कैलगुवाँ	
20	12x20	15	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
18	18x12	11	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
40	19x12	11	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
63	20x12	12	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
28	12x17	10	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
194	26x15	26	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
40	12x17	10	पद्य	C	पूर्ण	अजनास	
115	19x12	13	पद्य	C	पूर्ण	अजनास	
161	9x11.5	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
104	11.3x11	11	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
120	18.5x12.5	17	पद्य	B	पूर्ण	बहारा	
13	14.5x12.5	9	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
74	12.5x16	15	पद्य	B	पूर्ण	महलका	
102	22x12	19	पद्य	B	पूर्ण	बइसूमा	
41	12x18	13	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
128	8x11	7	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
134	10x11	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
130	10x14	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
92	12x13	12	पद्य	C	पूर्ण	पड़ा	
75	14x16	16	पद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
56	18x15.5	20	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
81	18x15.5	20	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
	6x13	7	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
190	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
155	9x8	11	पद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
68	11x16	9	पद्य	C	पूर्ण	अजमेर	
43	13x17	11	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विष्णु सवर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3076	6143	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3077	6147	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3078	6202	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1711
3079	6248	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3080	6253	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3081	6254	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3082	6259	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3083	6261	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1769
3084	6283	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3085	6297	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3086	6332	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3087	6334	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3088	2442	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3089	2795	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3090	3361	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3091	3382	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3092	3169	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3093	5491	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1927
3094	5886	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	1958
3095	5858	पूजन संग्रह		हिन्दी / डी	
3096	2367	पूजन संग्रह		संस्कृत / डी	
3097	3160	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1951
3098	3345	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	1926
3099	4811	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
3100	4826	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
3101	4841	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
3102	4855	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
3103	4869	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
3104	4886	पूजन संग्रह वचनिका	पं० सदासुखदास	हिन्दी / डी	
3105	1514	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3106	1522	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3107	1548	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3108	1552	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लिंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
58	10x13	12	पद्य	C	पूर्ण	सिरोंज	
58	12x8	13	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
81	13x9	10	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
16			पद्य	A	पूर्ण	सिलवानी	
26	10.8x15.5	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
49	15.5x11	15	पद्य	B	पूर्ण	सुल्तानगंज	
52	10x16	10	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
125	20x11.3	22	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
	10x14.5	11	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
130	17.5x13	13	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
22-104	27x15	32	पद्य	B	पूर्ण	अजमेर	
26	9.5x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
104	11x16	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
59	14x9.5	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
142	14x18	17	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
33	16.5x11.8	20	पद्य	C	पूर्ण	दमोह	रविव्रत कथा भी दी है।
78	11x16	13	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	स्वयंभू स्तोत्र भी है।
83	9x14	10	पद्य	C	पूर्ण	जानसट	
203	8.5x14	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
196	9x12	10	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	9x24	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
51	12.5x18.5	11	गद्य	C	पूर्ण	सारोला	
49	7x19.5	13	गद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
99-140	12x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
92-133	13x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
92-133	13x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
81-116	12x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
77-110	12x19	19	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
189-271	12x9	10	गद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
34	12x22	23	पद्य	A	पूर्ण	अशोकनगर	
110	11x21	22	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
124	13x20	18	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
132	7x13	14	पद्य	B	पूर्ण	अशोकनगर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विश्व संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3109	1587	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3110	1588	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3111	1622	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3112	1632	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3113	1637	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1876
3114	1654	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1916
3115	1676	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1941
3116	1720	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3117	1730	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3118	1731	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3019	1752	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3120	1753	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3121	1758	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3122	1795	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3123	1807	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1939
3124	1808	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3125	1839	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3126	2438	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3127	2717	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1731
3128	2722	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3129	2724	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3130	2733	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	1694
3131	2734	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3132	2742	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3133	2749	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3134	2751	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3135	2754	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3136	2815	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3137	2937	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3138	2948	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3039	2953	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3140	2957	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3141	2961	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
72	11x15	11	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
59	12x13	16	पद्य	C	पूर्ण	महतपुर	
38	9x11	12	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
60	9x13	10	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
103	10x15	10	पद्य	C	पूर्ण	पटनागंज	
134	11.5x24	13	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
84	20x11.5	22	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
63	18x12	18	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
54	14x11	12	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
100	18x10	19	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
32	12.5x15	13	पद्य	A	अपूर्ण	सहजपुर	
70	12x12	12	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
65	19x11.5	17	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
47	18x10	20	पद्य	B	पूर्ण	रहली	
50	8x10.5	8	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
106			पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
87	12.5x11	11	पद्य	D	पूर्ण	काण्डव	
150	23x10	24	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
49	9x11	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
126	18.5x9	24	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
78	12x13	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
360	10x13	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
128	11x12	19	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
94	11.5x9.5	14	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
267	11x17	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
155	13x13	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
145	15x8	22	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
102	12x17.5	13	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
29	12.5x21.5	14	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
153	15x8	18	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
106	17x12.5	18	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
90	10x10	8	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
110	12x13	14	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	

अनेकादत ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

कमांक	ग्रंथ कमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम सम्वत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3142	2968	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3143	3063	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3144	3087	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3145	3145	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3146	3148	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3147	3159	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1936
3148	3162	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3049	3201	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3150	3227	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3151	3204	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1896
3152	3205	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3153	3232	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1832
3154	3239	पोथी (पूजन)		हि. / संस्कृत / डी	
3155	3264	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3156	3277	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1964
3157	3290	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1887
3158	3296	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3059	3357	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3160	3358	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3161	3364	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1964
3162	3380	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3163	3387	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3164	3389	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3165	3405	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1942
3166	3422	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3167	3425	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3168	3445	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1901
3069	4948	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1917
3170	5000	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1955
3171	5013	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3172	5024	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1942
3173	5026	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3174	5027	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई X चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
85	10x14	12	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
99	12x15.5	15	पद्य	C	पूर्ण	माढ़ा	
33	7x11	11	पद्य	B	पूर्ण	माढ़ा	
79	13x19	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
172	11.5x19.5	9	पद्य	D	पूर्ण	सारोला	
41	20x13	19	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
118	12x20.5	14	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
80	12x11	12	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
55	16x10	17	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
26	7.3x10	8	पद्य	B	पूर्ण	सारोल	
97	7x10	8	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
100	17x9	20	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
250	14x13	15	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
20	15x12	16	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
19	11x18	11	पद्य	A	पूर्ण	छोटीमुहारी	
14	7x14.5	9	पद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौं	
100	8x10	9	पद्य	B	पूर्ण	मुहारीकलौं	
60	17x10	17	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
46	9x12.3	11	पद्य	C	पूर्ण	रायसेन	
19	10.5x17.3	11	पद्य	A	पूर्ण	सारोला	
52	19x15	12	पद्य	C	पूर्ण	दमोह	
123	11.5x10	10	पद्य	C	पूर्ण	दमोह	
70	8x10	8	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
31	8x11	9	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
44	13x10	11	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
410	10x13.5	10	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
45	8x13	9	पद्य	C	पूर्ण	मिर्जापुर	
60-76	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
25	10x12	10	गद्य	C	पूर्ण	फिरोजाबाद	
17	18x11	12	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
31	18x9	8	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
9	12x13	10	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	
44	12x13	9	पद्य	C	पूर्ण	बांसी	

अनेकादत ज्ञानमंदिर सौधसंस्थान, बीना (झागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विष्णु संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3175	5028	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3176	5072	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3177	5262	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3178	3385	पोथी (पूजन)		संस्कृत / डी	
3079	4929	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	1917
3180	5284	पोथी (पूजन)		हिन्दी / डी	
3181	1526	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3182	1550	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3183	1559	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3184	1585	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3185	1714	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3186	1726	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3187	1780	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3188	2738	पोथी (विधान)		संस्कृत / डी	
3089	2745	पोथी (विधान)		संस्कृत / डी	
3190	2774	पोथी (विधान)		संस्कृत / डी	1702
3191	2778	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3192	2952	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3193	2956	पोथी (विधान)		संस्कृत / डी	
3194	2995	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	1940
3195	3081	पोथी (विधान)		हिन्दी / डी	
3196	3394	पोथी (विनती)		हिन्दी / डी	
3197	1532	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3198	1545	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3099	1546	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3200	1653	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3201	1680	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3202	1696	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1964
3203	1702	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1945
3204	1721	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1943
3205	1739	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1964
3206	1754	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3207	1790	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
61	12x15	17	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
45	17x8	8	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
148	15x12	14	पद्य	D	पूर्ण	अजनास	
46	12.5x11	13	पद्य	B	पूर्ण	दमोह	
5	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
125	17x14	14	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
60	12x17	11	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
78	15x16	15	पद्य	D	पूर्ण	अशोकनगर	
35	11x14.5	17	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
82	12x20	15	पद्य	C	पूर्ण	नईसराय	
80	11.5x22	11	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
77	10.3x18	7	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
190	12x19	13	पद्य	B	पूर्ण	चौंदपुर	
185	12.5x9.5	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
90	14x12.5	18	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
140	12x11	18	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
279	14.5x18.5	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
	11.5x12	11	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
120	11x8	12	पद्य	B	पूर्ण	आनंदपुर	
32	18x11	19	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
103	12x16	13	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
	12.5x16	13	पद्य	B	पूर्ण	सिलवानी	
21	10x17	12	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
31	12x19	12	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
24	11.3x20	13	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
15	20x9.5	23	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
39	6.5x15	9	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
18	11.5x25.5	12	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
	10x17	9	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
10	10x17	12	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
27	12.5x21	12	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	
21	10x16	11	पद्य	C	अपूर्ण	अशोकनगर	
28	13x19	15	पद्य	C	पूर्ण	अथाईखेड़ा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3208	1802	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3209	1818	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3210	1835	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3211	1964	पंचकल्याणक विधान	पं० न्यायसागर	हिन्दी / डी	
3212	1999	पंचकल्याणक विधान		संस्कृत / डी	
3213	2106	पंचकल्याणक विधान	पं० भैरोप्रसाद	हिन्दी / डी	
3214	2510	पंचकल्याणक विधान		संस्कृत / डी	
3215	2682	पंचकल्याणक विधान		संस्कृत / डी	1905
3216	2891	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1947
3217	2982	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3218	2986	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3219	3078	पंचकल्याणक विधान	पं० मोहनलाल	हिन्दी / डी	1897
3220	3233	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3221	3340	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1931
3222	3412	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3223	4922	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1907
3224	4923	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1936
3225	4994	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1749
3226	5018	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1936
3227	5034	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3228	5062	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3229	5066	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1947
3230	5187	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3231	5486	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1955
3232	5777	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3233	5978	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1885
3234	6061	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1800
3235	6217	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1958
3236	6241	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3237	2091	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1932
3238	3047	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1869
3239	2194	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1794
3240	2305	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1908

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
80	9.8x18	11	पद्य	B	पूर्ण	चाँदपुर	
70	11x14	12	पद्य	C	पूर्ण	मडावरा	
15	13.5x24.5	14	पद्य	B	पूर्ण	काण्डव	
11	12.5x23	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
21	13.5x19.5	17	गद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
37	8x22	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
17	8x20	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
20	11.5x18	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
52	8.5x12.5	9	पद्य	B	पूर्ण	माढा	
33	6x19	7	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
31	9x24	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
68	9.5x17	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
34	9.5x12	11	पद्य	C	पूर्ण	डोंगरा	
35	20x9.5	19	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
38	9x16.5	9	पद्य	C	पूर्ण	पारोल	
28	25x13	15	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
24	27x14	13	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
69-82	16x10	21	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
48	10x14	15	पद्य	A	पूर्ण	बांसी	
10	28x12	10	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
44	18x8	8	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
22	20x12	15	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
13	13.5x19.5	8	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
23	11x20	12	पद्य	B	पूर्ण	जानसट	
28	9x15	9	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
33	14x10	15	पद्य	B	पूर्ण	पडा	
13-22	24x12	25	पद्य	B	पूर्ण	बरकोटी	
78	4x12.3	5	पद्य	A	पूर्ण	अजनास	
69	18x12	14	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
9	9x19	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
20	9.5x22	4	पद्य	C	पूर्ण	झांसी	
	9x19.5	13	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
34	10x17	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3241	2659	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3242	5030	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1918
3243	4948	पंचकल्याणक विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1917
3244	2386	पंचमेरु विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3245	5798	पंचमेरु विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1887
3246	4940	पंचमेरु विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1917
3247	4954	पंचमेरु विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1933
3248	5861	पंचमेरु विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3249	5906	पंचमेरु विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3250	2946	पंच मंगल विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3251	4951	पंच मंगल विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1905
3252	2107	पंच मंगल विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3253	3184	पंच मंगल विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3254	3079	पंचपरमेष्ठी विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3255	4988	पंचपरमेष्ठी विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1898
3256	5244	पंचपरमेष्ठी विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1903
3257	6131	पंचपरमेष्ठी विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3258	3257	पंचपरमेष्ठी विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1913
3259	5833	पंचबालयती पूजन		हिन्दी / डी	1961
3260	5998	पंडित पूजन		हिन्दी / डी	
3261	1623	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	वसुनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
3262	1750	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	वसुनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
3263	2802	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	वसुनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
3264	2038	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	वसुनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
3265	2843	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	जिनसेनाचार्य	संस्कृत / डी	1979
3266	2350	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	वसुनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
3267	5841	प्रतिष्ठापाठ संग्रह	वसुनंदी आचार्य	संस्कृत / डी	
3268	6115	फूलमाल		हिन्दी / डी	1965
3269	2227	बारह व्रत पूजन विधान		संस्कृत / डी	1854
3270	2421	बारह सौच्योत्तीसव्रतोद्यापन	आ० शुभचन्द्र	संस्कृत / डी	
3271	6307	बासटि मार्गणा विधान	कवि बनारसीदास	हिन्दी / डी	
3272	2276	बीस तीर्थकर विधान	पं० वृंदावनदास	हिन्दी / डी	
3273	2485	बृहद् सिद्ध चक्र पूजन		संस्कृत / डी	1641

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य / पद्य	स्थिति	पूर्ण / अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	8x23	19	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
31	17x10	12	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
60-76	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	काण्डव	
25	9x18	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
24	10.5x21	11	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
49	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
86-88	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
45-51	7x11	8	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
91-97	8x12	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
39	19x11	18	पद्य	D		आनंदपुर	
79-82	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
7	11x21	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
14	10.5x14	7	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
31	10x18	11	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	
27	25x12	10	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
36	11x21	13	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
21	11.3x25	12	पद्य	C	पूर्ण	बेलखेड़ा	
44	11x19	12	पद्य	A	पूर्ण	पारोल	
8	6x12	7	पद्य	B	पूर्ण	कटनी	
12	14x18	13	पद्य	B	पूर्ण	बीना	
32	10x20	11	पद्य	A	पूर्ण	नईसराय	
32	10.5x18.5	12	पद्य	C	अपूर्ण	सहजपुर	
122	8x14	10	पद्य	B	पूर्ण	सोलापुर	
31	8x21	11	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
78	12x13	13	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
35	9.5x19	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
82	12.5x17	10	पद्य	B	पूर्ण	बीना	
4	16x11	18	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
18	9.5x23	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
81	8x22	9	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
68-70	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
27	13x21	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
32	9x22	13	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3274	6342	बृहद् सिद्धचक्र पूजन		संस्कृत / डी	
3275	2680	भक्तामर यंत्र विधान		संस्कृत / डी	1908
3276	5650	भक्तामर व्रतोद्यापन		संस्कृत / डी	1850
3277	5955	भक्तामर विधान		संस्कृत / डी	
3278	3101	भुवनेश्वरी नित्य पूजा		संस्कृत / डी	
3279	5952	भैरव पद्मावती कल्प		संस्कृत / डी	1888
3280	2714	महेश पूजा		संस्कृत / डी	
3281	5659	मुक्तावली व्रतोद्यापन		संस्कृत / डी	
3282	5718	मेघमाला व्रतपूजा		प्राकृत / डी	
3283	1569	रत्नत्रय विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1943
3284	2082	रत्नत्रय विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3285	2328	रत्नत्रय विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	
3286	2339	रत्नत्रय विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1988
3287	2944	रत्नत्रय विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1952
3288	5065	रत्नत्रय विधान	पं० टेकचंद	हिन्दी / डी	1900
3289	5678	रत्नत्रय विधान	आ०पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
3290	2710	रत्नत्रय पूजा	आ०पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
3291	4936	रत्नत्रय पूजा		हिन्दी / डी	1917
3292	5682	रत्नत्रय पूजा	आ०पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
3293	5823	रत्नत्रय पूजा	आ०पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
3294	5865	रत्नत्रय पूजा	आ०पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
3295	6154	रत्नत्रय पूजा	आ०पद्मनंदी	संस्कृत / डी	
3296	2676	रविव्रत उद्यापन		संस्कृत / डी	
3297	3489	रोहिणी व्रतोद्यापन	विमलभूषण भट्टा०	संस्कृत / डी	1752
3298	1578	लघु पंचकल्याण विधान		हिन्दी / डी	1925
3299	3360	लघु पंचकल्याण विधान		हिन्दी / डी	1925
3300	5657	लब्धि विधान उद्यापन		संस्कृत / डी	1898
3301	2008	वर्तमानजिनागतपूजाविधि	ब्र० जिनदास	संस्कृत / डी	
3302	1668	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	
3303	1724	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	1918
3304	2329	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	
3305	3030	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	
3306	3177	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लम्बाई x चौड़ाई cm)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	12.5x27	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
24	16x12	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
14	11.5x18.5	10	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
22-27	10x25	11	पद्य	C	अपूर्ण	टोडारायसिंह	
34	5.5x17.5	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	जैनेतर ग्रंथ है।
29	10x25	10	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
16	6.5x11	16	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	जैनेतर ग्रंथ है।
14	8x23	9	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
4	8.5x21	9	पद्य	A	पूर्ण	टोडारायसिंह	
28	12x28	13	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
78	9x16	9	पद्य	D	पूर्ण	भानपुरा	
44	10x19	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
41	12x25	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
39	14x26	14	पद्य	A	पूर्ण	आनंदपुर	
41	18x11	13	पद्य	B	पूर्ण	बबीना	
3	14x30	20	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
29	11x19.5	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
23-30	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
5	11x24	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
10	10x12	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
65-77	7x11	8	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
9	11x25	13	पद्य	A(z)	पूर्ण	क्रेम्बिज	
7	9.5x16	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
10	24x10	11	पद्य	B	पूर्ण	कैलगुवाँ	
17	13.5x12	13	पद्य	B	पूर्ण	रायसेन	
25	5.5x15	6	पद्य	B	पूर्ण	नईसराय	
10	9x21	10	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
39	8x19.5	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
64	13x16	15	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
10	11.3x17	11	पद्य	C	पूर्ण	सहजपुर	
21	10x20	12	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
90	10x16.5	13	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
22	9x22	10	पद्य	C	पूर्ण	सारोला	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर शोधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विक्रम संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3307	3486	विधान संग्रह		संस्कृत / डी	
3308	4997	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	1812
3309	6305	विधान संग्रह		हिन्दी / डी	
3310	4931	विदेहक्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	1917
3311	2746	व्रतोद्यापन		संस्कृत / डी	1889
3312	3037	वृहद् शांतिविधान		संस्कृत / डी	
3313	4946	शास्त्र पूजन		हिन्दी / डी	1917
3314	4930	शांतिपाठ		संस्कृत / डी	1917
3315	2237	शांतिनाथ पूजन		संस्कृत / डी	
3316	2374	शांतिक विधान		संस्कृत / डी	1683
3217	5630	शांतिचक्र पूजा		संस्कृत / डी	1869
3318	5688	शांति विधान	पं० धर्मदेव	संस्कृत / डी	1814
3319	6058	शान्त्यर्थ होम विधान	पं० आशाधर	संस्कृत / डी	
3320	1656	शिखर-महात्म्य	पं० लालचन्द्र	हिन्दी / डी	
3321	1693	शिखर-महात्म्य	पं० लालचन्द्र	हिन्दी / डी	1912
3322	1846	शिखर-महात्म्य	पं० लालचन्द्र	हिन्दी / डी	1967
3323	2013	शिखर-महात्म्य	पं० लालचन्द्र	हिन्दी / डी	
3324	1896	शिखर-महात्म्य	जगतकीर्ति	संस्कृत / डी	
3325	2577	शुक्लपंचमी व्रतोद्यापन		संस्कृत / डी	
3326	2596	श्रीपार्श्वनाथ पूजन		हिन्दी / डी	
3327	2023	श्रुतस्कंध	पं० हेमचन्द्र	हिन्दी / डी	
3328	5670	श्रुतस्कंध पूजन		संस्कृत / डी	1871
3329	2704	श्रुतबोध विलास	कालीदास	संस्कृत / डी	1847
3330	5973	षोडशकारण जयमाला		हिन्दी / डी	
3331	5611	सकलीकरण विधान		संस्कृत / डी	
3332	2505	सकलीकरण विधान विधि		संस्कृत / डी	
3333	2657	संध्या विधि	ब्र० जिनसागर	संस्कृत / डी	1833
3334	2788	सप्त ऋषि पूजन		हिन्दी / डी	
3335	3183	सप्त ऋषि पूजन		हिन्दी / डी	
3336	5612	सप्त परमस्थान पूजा		संस्कृत / डी	
3337	3400	समुच्चय पूजन		हिन्दी / डी	
3338	1649	समोशरण विधान	पं० रूपचंद्र	हिन्दी / डी	1929
3339	1711	समोशरण विधान	पं० रूपचंद्र	हिन्दी / डी	1834

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (लंबाई x चौड़ाई CM)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	16x15	14	पद्य	C	पूर्ण	कैलगुवाँ	
307	15x10	12	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
45	12x14	14	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
8	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
44	13x15	16	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	8x18	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
56	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
6-7	14x26	28	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
9	7x21	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
82	7x19	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	12x19	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
37	11x30	15	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
11	9x10	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
24	11x17	10	पद्य	C	पूर्ण	पटनागंज	
40	12x20.5	14	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
27	13x27	14	पद्य	A	पूर्ण	भानपुरा	
36	8x15	8	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
63	11x17	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
14	9.5x13	11	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
4	9.5x13	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	12x18	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
3	9.5x24	12	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
8	11.5x18	17	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
36	10.5x17	11	गद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
1	12x25	16	पद्य	C	पूर्ण	टोडारायसिंह	
3	7x19	7	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
5	8x19	10	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
4	12x17.5	9	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
6	13.5x18	8	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
1	11x25	14	पद्य	D	पूर्ण	टोडारायसिंह	
13	18x11.5	11	पद्य	B	पूर्ण	दमोह	
73	11x23	10	पद्य	B	पूर्ण	पटनागंज	
95	9.5x25	11	पद्य	A	पूर्ण	सहजपुर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर ग्रोथसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक / टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विष्णु संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3340	1848	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1938
3341	1849	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1938
3342	1878	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	
3343	2084	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1932
3344	2947	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1834
3345	2992	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1918
3346	3144	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	
3347	3217	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1970
3348	3255	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1880
3349	3262	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1939
3350	4960	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1909
3351	5223	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1960
3352	5382	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1865
3353	5582	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1933
3354	3256	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	
3355	596.1	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1954
3356	5035	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1852
3357	5442	समोशरण विधान	पं० रूपचंद	हिन्दी / डी	1907
3358	1518	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3359	1679	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	1890
3360	1712	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3361	1774	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3362	1796	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3363	1797	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3364	1899	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3365	2945	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3366	5023	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	
3367	6204	सम्मदशिखर विधान	पं० लालचंद	हिन्दी / डी	1907
3368	1608	सम्मद शिखर क्षेत्र पूजन		हिन्दी / डी	
3369	2247	सम्मदशिखर पूजन		हिन्दी / डी	
3370	2414	सम्मदशिखर पूजन		हिन्दी / डी	1949
3371	4796	सम्मदशिखर पूजन		हिन्दी / डी	1891
3372	5432	सम्मदशिखर पूजन		हिन्दी / डी	

संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी भाषा विषयक हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची

पत्र संख्या	आकार (से.मी. x चौ.से.मी.)	पत्र पंक्ति संख्या	गद्य/पद्य	स्थिति	पूर्ण/अपूर्ण	ग्रंथ प्राप्ति स्थल का नाम	विशेष
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
95	10.5x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
95	10x22	11	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
51	10x20	12	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
107	10x17	10	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
99	10.5x19	11	पद्य	A	पूर्ण	आनंदपुर	
23	10x18	11	पद्य	B	पूर्ण	झांसी	
139	19.5x18	18	पद्य	B	पूर्ण	सारोला	
136	7.5x16	9	पद्य	B	पूर्ण	डोंगरा	
77	10.5x23	12	पद्य	B	पूर्ण	पारोल	
95	11x22	12	पद्य	C	पूर्ण	पारोल	
56	28x14	15	पद्य	B	पूर्ण	फिरोजाबाद	
105	12x25	11	पद्य	B	पूर्ण	अजनास	
108	17x11	15	पद्य	B	पूर्ण	कवाल	
98	9x22.5	11	पद्य	B	पूर्ण	टोडारायसिंह	
150	11x20	11	पद्य	C	पूर्ण	पारोल	
100	10.5x21	11	पद्य	A	पूर्ण	पड़ा	
71	20x12	13	पद्य	B	पूर्ण	बांसी	
51	17.5x15	23	पद्य	B	पूर्ण	बघरा	
19	7x20	9	पद्य	C	पूर्ण	अशोकनगर	
32	9x11.5	7	पद्य	A	पूर्ण	पटनागंज	
14	12x20	13	पद्य	B	पूर्ण	सहजपुर	
22	17.6x11	17	पद्य	C	पूर्ण	चाँदपुर	
13	16x15	13	पद्य	C	पूर्ण	रहली	
20	9x17	10	पद्य	B	पूर्ण	रहली	
29	14x25.5	15	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
16	8x118.5	11	पद्य	C	पूर्ण	आनंदपुर	
6	15x13	13	पद्य	C	अपूर्ण	बांसी	
36	8x12	8	पद्य	C	पूर्ण	बबीना	
20	11x17	10	पद्य	B	पूर्ण	केवलारी	
13	11x23	14	पद्य	B	पूर्ण	भानपुरा	
17	11x14	9	पद्य	C	पूर्ण	भानपुरा	
23	10x14	15	पद्य	A	पूर्ण	अजमेर	
12	16x12.3	15	पद्य	B	पूर्ण	मुजफ्फरनगर	

अनेकान्त ज्ञानमंदिर होधसंस्थान, बीना (सागर) म.प्र.

क्रमांक	ग्रंथ क्रमांक	ग्रंथ का नाम	लेखक/टीकाकार का नाम	भाषा व लिपि	लिपिकाल (विष्णु संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3373	5637	सम्मदशिखर क्षेत्र पूजन		हिन्दी/डी	1942
3374	5774	सम्मदशिखर क्षेत्र पूजन		हिन्दी/डी	
3375	5069	सम्मदशिखर क्षेत्र पूजन		हिन्दी/डी	1938
3376	5646	सम्मदाचल उद्यापन	पं० गंगादास	संस्कृत/डी	
3377	5863	सरस्वती पूजन		संस्कृत/डी	
3378	6168	सरस्वती पूजन	पं० बनारसीदास	हिन्दी/डी	
3379	6189	सरस्वती पूजन	पं० बनारसीदास	हिन्दी/डी	
3380	6209	सारस्वत यंत्र पूजन		संस्कृत/डी	
3381	2593	सिद्धपूजा		संस्कृत/डी	
3382	4932	सिद्धपूजा		हिन्दी/डी	1917
3383	6118	सिद्धपूजा		हिन्दी/डी	1956
3384	2706	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	
3385	5185	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1882
3386	5253	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1931
3387	5443	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1896
3388	5588	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1992
3389	5589	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1987
3390	5590	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1987
3391	5421	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	
3392	5433	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1928
3393	5503	सिद्धचक्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1990
3394	6267	सिद्धक्षेत्र पूजा	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	
3395	2885	सिद्धपूजा विधान	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	
3396	3129	सिद्धचक्र विधान	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	
3397	3146	सिद्धचक्र विधान	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	
3398	5502	सिद्धचक्र विधान	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1931
3399	3308	सिद्धचक्र विधान	कवि संतलाल	हिन्दी/डी	1989
3400	2010	सिद्धचक्राष्टक टीका	श्रुतसागर सूरि	संस्कृत/डी	1573
3401	2444	सिद्धचक्र उद्यापन विधि		हिन्दी/डी	1850

में आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
(अ)		अनंत चतुर्दशी पूजन	2723, 2724
अकलंकाष्टक	1855,1856,1857,1858,1859, 1860,1861,1862	अनंत चतुर्दशी उद्यापन	2725
अकलंकाष्टक वच०	1863,1864	अनादि बत्तीसी	664
अकलंक स्वामी रास	2225	अनिरुद्ध हरण कथा	13,15
अकीर्तिम चैत्यालय	1853	अनिष्टाध्याय	2623
अकीर्तिम चैत्यालय विधान	2737	अनुभव प्रकाश	661,662,663
अकीर्तिमजिन मंदिर पूजन	2734, 2735, 2736, 2738, 2739	अनेकार्थ ग्रन्थ	1741
अकीर्तिमचैत्यालय जयमाला	2740	अनेकार्थ गंजरी	1742, 1743
अक्षर चैतावनी	1854	अनेकाक्षर कोष	1744
अंकुरारोपण	2743	अन्यमत सार संग्रह	1745
अंकुरार्पण विधि	2742	अभिधान चिंतामणी	1746, 1747, 1748
अंजनासति रास	2233,2234	अभक्ष्य वर्णनादि	674
अंजनासुंदरी काव्य	2235	अभिषेक विधि	2731, 2732
अजितनाथ पुराण	1	अभिषेक पूजनादि	2733
अठाई जी की पूजन	2741	अमरकोष	1728,1729,1730,1731, 1732,1733,1734,1735, 1736,1737,1738,1739,1740,
अठारह नाते की कथा	14	अम्बिका देवी रास	2229, 2230
अठाई रासो	2228	अमितगति श्रावकाचार	666
अध्यात्म बत्तीसी	2236	अमितगतिश्रावकाचार टीका	667
अध्यात्म कल्पद्रुम	668	अद्याष्टक स्तोत्र	1865
अध्यात्म तरंगणि	669	अरहंत देव स्तुति	1852
अध्यात्म फाग	670	अरज पच्चीसी	2226
अध्यात्म बारहखड़ी	671	अरिहंत पासा केवली	2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621
अध्यात्म प्रदीप	673	अर्हत् स्तुति	1851
अध्यात्म बिन्दु विवरण	672	अर्थ प्रकाशिका	686, 687
अध्यात्म विद्योपदेश	2622	अष्ट छत्तीसी	2231
अनंगार धर्माभूत	665	अष्ट कर्मप्रकृति रास	2232
अनंतव्रत रास	2227	अष्टशती	1749
अनंतव्रत कथा	2,3,4	अष्टसहस्री	1750, 1751, 1752
अनंतव्रत कथा रास	5	अष्टपाहुड़	675, 676
अनंतचतुर्दशी कथा	6,7,8,9,10,11	अष्टपाहुड़ वच०	677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
अनंतव्रत पूजन	2713,2714,2715,2716,2717, 2718, 2719		
अनंतव्रत उद्यापन	2720, 2721, 2722		

श्री आगत ग्रंथों की अक्षरानुक्रमिक सूची

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
अष्ट कर्मप्रकृति	685	आराधनासार टीका	716
अष्ट भाषा स्तव अष्टचूर्ण	688	आराधनासार वच०	720
अष्टान्हिकाव्रत कथा	12	आराधनासार, प्रतिबोधसार	721, 722
अष्टोत्तरी दशाफल	2624	आलाप-पद्धति	708, 709, 710
अष्टान्हिका पूजन	2726, 2727, 2728	आलोचना-सूत्र	711, 712, 713
अष्टान्हिका व्रत उद्यापन	2729, 2730	आलोचना-कल्प	714
(आ)		आलोचना पाठ	715
आकाश पंचमी कथा	30, 31	(इ)	
आगम सारोद्धार	729	इतवार कथा	35
आचारसार वच०	725	इन्द्रजाल	2625, 2626
आठ कर्मप्रकृति	706, 707	इन्द्रध्वज पूजन	2744
आत्मानुशासन	689	इष्ट छत्तीसी	735, 736, 2241, 2242
आत्मानुशासन वच०	690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,	इष्टोपदेश	731, 732, 733
आत्म सदबोध भावना	705	इष्टोपदेश टीका	734
आत्मावलोकन	723, 724, 1867	(उ)	
आत्मप्रबोध	728	उत्तरपुराण कवित्त	36, 37, 38
आत्मस्तुति	1866	उत्तरपुराण वच०	39
आदिपुराण	16, 17, 18, 19	उद्यापन मंत्र पाठ	2627
आदिपुराण वच०	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	उपदेश देशना	739
आदिपुराण रास	20	उपदेश पंचाशक	740
आदिनाथ रास	2237, 2238	उपदेशसिद्धांत रत्नमाला	743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751,
आदिनाथ विनती	1869	उपदेश सिद्धांत रत्नमाला--	752, 753, 754, 755, 756,
आदिनाथ स्वामी के भवांतर	727	वचनिका	757, 758, 759, 760, 761,
आदित्यव्रत कथा	32, 33	उपदेश माला	762
आदित्यवार वेल	34	उपासकाचार	737, 738
आदीश्वर फाग	2239, 2240	उपासकाध्ययन	741, 742
आदीश्वर स्तुति	1868	उपासक दशसूत्रवृत्ति	763
आनंद श्रावक संधि	726	(ऊ)	
आप्तमीमांसा	1753	ऊँकार की वचनिका	764, 765
आप्तपरीक्षा	1754	(अ)	
आर्य बसुंधारा	730	अभिमण्डल स्तोत्र	1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876
आराधनासार	717, 718, 719	अभिमण्डल पूजन	2745, 2746

जैन आगत ग्रंथों की अकरादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
(ए)		कल्याणमंदिर स्तोत्र	1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921,
एकावन सूत्र	1756	कल्याणमंदिर स्तोत्र- टीका	1919, 1920
एकीभाव स्तोत्र	1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,	कल्याण-कल्पद्रुम जिन -स्तुति	1923, 1924,
एकीभाव स्तोत्र टीका	1898	कलषाभिषेक पाठ	2767
एकीभाव स्तोत्र वच०	1899	कवि प्रियायां काव्य वर्णन	2246
(ऐ)		कातन्त्र-रूपमाला वृत्ति	1758
ऐतवार कथा	40, 41	कार्तिकेयानुप्रेक्षा	787, 788, 789, 790, 791, 792
(क)		कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका	793
कथाकोष	46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,	कालावली जयमाला	2768
कमल बत्तीसी	786	काव्य श्लोक	2247
कर्मप्रकृति	766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776	क्रिया कोष	794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
कर्मविपाक विचार	777	किरातार्जुनीय टीका	814, 2248, 2249, 2250, 2251,
कर्मविपाक सूत्र	778	कुदेवादि वर्णन	815, 816
कर्मग्रन्थ	779	कुमारपाल चरित्र	57
कर्मकाण्ड	781, 782	कुमारसम्भव	2252, 2253
कर्मकाण्ड टीका	783,	कुलभूषण देशभूषण-	58, 59
कर्मछत्तीसी	2245	केवली कथा	
कर्मदहन मंत्र	2629	कुवलयानंद	1757
कर्मदहन विधान	2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766,	कृपण जगावन कथा	60
करकण्डु कथा	42	केदारकल्प	2630
करकण्डु चरित्र	43, 44	क्षेत्रपाल स्तोत्र	1926
करकण्डु चरित्र टीका	45	क्षेत्रपाल पूजन	2769
करुणा निदान स्तुति	1925	(ख)	
करुणसूत्र	780	खेमावास विचार	817
करुणयोग	2528		
कल्याणमाला	784, 785		

में आमत बंधों की अकारादि क्रम से अनुक्रमबद्ध

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
(ग)			854, 855, 856, 857, 858, 859,
ग्यारह प्रतिमा	834		860, 861, 862, 863, 864, 865,
गत्यागति वर्णन	818		866, 867, 868, 869, 871,
गणधर वलय पूजन	2770, 2771, 2772,	वर्धा शतक (सचित्र)	870
गणितसार संग्रह	2631	वर्धा-सार	872, 873
गिरनार मार्ग कथा	61	वर्धा सार वचनिका	874
गिरनार क्षेत्र पूजन	2773, 2774	वर्धा 148 कर्म प्रकृतियोंकी	876
गिरनार क्षेत्र फूलमाला	2775	घतुर्विंशति तीर्थकर-	1938
गुटका संग्रह	819, 820	गुणानुवाद	
गुटका (स्तुति, स्तोत्र- संग्रह)	1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,	चतुर्दशी उद्यापन विधि	2780
गुटका (भजन संग्रह)	2254	घतुर्विंशति पूजन	2781, 2782, 2783
गुटका (रास आदि)	2255	घतुः प्रत्येक बुद्ध चौपाई	877
गुटका (पद आदि)	2256	घाणक्य नीति	879
गुटका (पूजनादि)	2777, 2778, 2779	घार दान कथा	66
गुणस्थान पीठिका	825	घार ध्यान स्वरूप	880
गुणस्थान क्रमारोह	826	घारित्रसार	67, 68, 69
गुरावली तिलक	821	घारित्रसार वचनिका	878
गुरु की सीख	822	घारित्र-शुद्धि विधान	2785
गुरु स्वाध्याय	823, 824	घारुदत्त कथा	70
गुरु स्तुति	1737	घारुदत्त प्रबंध	71
गुरु पूजन	2776	घारुदत्त चरित्र	72, 73, 74, 75, 76
ग्रह लाघव सारिणी	2632	चिंतामणी पार्श्वनाथ स्तोत्र	1939
गोम्मतसार	827, 828, 830	चिंतामणी पार्श्वनाथ पूजन	2786
गोम्मतसार टीका	829, 831	चेतन कर्म चरित्र	77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
गोम्मतसार चर्चा	832	चैत्यभक्ति	1940
गौतम चरित्र वच०	62	चैत्यवन्दना	1941, 9142, 2787
गौतम पृच्छा	833	चौदह गाथादि	906
(ग)		चौदह गुणस्थान	907
चर्चासमाधान	835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843	चौबीस ठाणा	882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897,
चर्चानामावली	844, 845, 846, 847	चौबीस वण्डक	898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905
चर्चा शतक	848, 849, 850, 851, 852, 853,	चौबीस तीर्थकर वर्णन	908

में आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
चौबीस तीर्थकर लक्षण	1943	जगजीतण	2271
चौबीस तीर्थकर पद	1944	जम्बू स्वामी कथा	88, 89, 90
चौबीस तीर्थकर		जम्बू स्वामी चरित्र	91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
पंचकल्याण तिथियाँ	2759	जम्बूस्वामी रास	2272, 2273, 2274
चौबीसी विधान	2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842,	जयकुमार सुलोचना चरित्र	101
चौबीसी पूजन	2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851,	जातकालंकार	2275
चौरासी बोल	881	जिन प्रतिमा	928, 929
चौषट ऋद्धि विधान	2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858,	जिन विनती	1945
चन्द्रप्रभ पुराण	63, 64	जिनवर विनती	1946
चन्द्रप्रभ पूजनादि	2784	जिन प्रतिमा स्वरूप	2846
चन्द्रायण गीतादि	2860	जिन यज्ञ कल्प	2861, 2862, 2863
चन्द्रग्रहणोदाहरण	2636	जिनदत्त रास	2276, 2277
चन्द्रगुप्त स्वप्न फल	875, 2537	जिन पंच कल्याणक	2865
चम्पक श्रेष्ठी कथा	65	जिन गुण सम्पत्ति पूजन	2867
(छ)		जिन चतुर्विंशति स्तोत्र	1947, 1948, 1949, 1950, 1951
छहदाला	909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,	जिन चतुर्विंशति स्तोत्र टीका	1952
छह द्रव्य वर्णन	926	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
छह द्रव्य कथन	927	जिनसहस्रनाम स्तोत्र लघु	1981, 1982,
(ज)		जिनसहस्रनाम स्तोत्र टीका	1983,
जकड़ी	2268, 2269, 2270	जिन-शतक वाग् वर्तन	1984,
		जिनमंदिर बिम्ब प्रतिष्ठा	
		सामग्री	2866
		जिनेन्द्रदर्शन स्तोत्र	1985; 1986,
		जिनेश्वरदास नाटक	2278
		जीवकाण्ड	931
		जीव क्षमावाणी	930
		जीव विचार प्रकरण	932, 933
		जीव दयाशास	2279, 2280



ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
जीवन्धर चरित्र	102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110	ज्ञानार्णव वच० (व)	955, 961
जीवन्धर स्वामी रास	2281, 2282, 2283, 2284	बाल गण	2316, 2317, 2318
जीव कुलछिन्ना	934	दादसी गाथाएं	986, 987
जैनमार्तण्डकर्मविपाकपुराण	111	डाई द्वीप विधान	2368, 2369, 2370
जैन बाल गुटका	938	(ण)	
जैनविवाह पद्धति	939	णाणसार	988
जैन-शतक	940, 941, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297,	णमोकार मंत्र पीठिका	2645
जैन-छंदावली	2285	(त)	
जैनेन्द्र व्याकरण वृत्ति	1759	तत्त्वार्थ सूत्र	989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
जैनेन्द्र व्याकरण सूत्र	1760		
जोगीरास गीत	2298, 2299		
ज्वःलामालिनी स्तोत्र	1987,		
ज्येष्ठ जिनवर कथा	112		
ज्योतिष नाममाला	2638		
ज्योतिष रत्नमाला टीका	2639, 2640		
ज्योतिष शास्त्र	2641, 2642, 2643, 2644		
(श)			
ज्ञानसार	963	तत्त्वार्थसूत्र वच०	1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
ज्ञानदर्पण	962		
ज्ञानभक्ति	964		
ज्ञानांकुश	965		
ज्ञान दस्तक	966		
ज्ञानपद	2301		
ज्ञान बाबनी	2300		
ज्ञान पञ्चीसी	2302, 2303, 2304, 2305		
ज्ञानश्रीदय	967		
ज्ञानसूर्योदय नाटक	2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315		
ज्ञानांकुश स्तोत्र	1988	तत्त्वार्थबोध	1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092,
ज्ञानानंद आरकाचार	968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985,		
	942, 943, 944, 945, 946, 947, 948	तत्त्वार्थसार	1094,
	949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960	तत्त्वार्थसार वचनिका	1095,
		तत्त्वसार	1093,
		तत्त्वार्थरत्नप्रभाकर	1096, 1097, 1098, 1099, 1100,

में आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका



ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
तत्त्वार्थराजवार्तिक टीका	1102, 1103, 1104, 1105,	(द)	
तत्त्वार्थवार्तिक व्याख्यानालंकार	1101,	दण्डक पाठ	1138
तत्त्वज्ञान तरंगणि	1106, 1107, 1108,	दशलक्षण पूजन	2897, 2898, 2899, 2900, 2901,
तर्कशास्त्र	1761, 1762		2902, 2903, 2904, 2905, 2906,
तीर्थ षोडशी	1109,		2907, 2908, 2909, 2910, 2911,
तीर्थ-वन्दना	1989, 1990	दशलक्षण उद्यापन	2922, 2923, 2924, 2925, 2926,
तीन लोक पूजन	2884		2927,
तीन चौबीसी विधान	2882, 2883	दशलक्षण जयमाला	2912, 2913, 2914, 2915, 2916,
तीन चौबीसी रास	2319		2917, 2918, 2919, 2920, 2921,
तीस चौबीसी विधान	2871, 2872, 2873, 2874, 2875,	दशलक्षण धर्म टीका	1126, 1127, 1128, 1129, 1130,
	2876, 2877, 2878, 2879, 2880,		1131, 1132, 1133,
	2881,	दशलक्षण कथा	114
तेरह द्वीप विधान	2885, 2886, 2887, 2888, 2889,	दश भक्ति संग्रह	2000, 2001, 2002, 2003,
	2890	दशवैकालिक सूत्र	1137
तेरह द्वीप पूजन पाठ	2891	दर्शनकथा	115, 116, 117, 118, 119, 120,
(त्र)			121, 122, 123, 124,
त्रिभंगीसार रचना	1122	दर्शनस्तोत्र	1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
त्रिलोकसार	1111, 1112, 1113,		1996, 1997, 1998, 1999
त्रिलोकसार वचनिका	1114, 1115, 1116, 1117, 1118,	दर्शनसार	1134
त्रिलोकसार विचार	1110	दर्शनशतक	1135
त्रिलोकसार पूजन	2895	दर्शनप्राभृत टीका	1136
त्रिलोक विधान	2894	दानकथा	125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
त्रिलोक दर्पण विलास	2320		132, 133, 134,
त्रिलोक दर्पण	1119, 1120	दानसार	1139
त्रिकाल चौबीसी पूजन	2892, 2893	दान काव्यी	2004
त्रिवर्णाचार	1123	दान कवित्त	2323
त्रिषष्टी पुरुष छंद	2321	दास बोध	2322
त्रिशत योगावली	2646	दृष्टान्त शतक	134
त्रेपन क्रिया जिन पूजा	2896	देव पूजन	2928, 2929, 2930, 2931, 2932,
त्रेषद शलाका पुरुष नाम	113		2933, 2934, 2935, 2936, 2937,
त्रैलोक्यदर्पण	1121		2938, 2939, 2940, 2941, 2942,
त्रैलोक्यदीपक	1124		2943, 2944, 2945, 2946, 2947,
त्रैलोक्यसार	1125		2948, 2949, 2950, 2951, 2952,

श्री आचार्य योगी की अध्यात्मिक ग्रन्थों की अनुसूची

ग्रन्थ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रन्थ का नाम	रत्नावली क्रमांक
देव पूजन तकनीक	2954,	धर्म परीक्षा	1188,1189, 1190,1191, 1192,
देवांगुली पूजन	2953,		1193,1194, 1195, 1196, 1197,
देव. शास्त्र, गुरु पूजन	2955, 2956, 2957,		1198, 1199, 1200,1201, 1202,
देव ब्रम्ह पद	2325		1203,1204, 1205, 1206, 1207,
देवागम स्तोत्र	1763, 1764		1208, 1209, 1210,1211, 1212,
देवागम स्तोत्र तकनीक	1765, 1766		1213,1214, 1215
देवागम वृत्ति	1767, 1768	धर्मपरीक्षा प्रबंध	1216
दैविक प्रतिक्रमण	1140	धर्मपरीक्षा रास	2331, 2332, 2333
दोहरा सप्त शतं	2326	धर्मविलास	1217
दौलतपद संग्रह	2327	धर्मविवेक विलास	2334
छानत विलास	2328, 2329, 2330	धर्माभूत	1218, 1219,
द्रव्यसंग्रह	1141, 1142, 1143, 1144, 1145,	धर्मचर्चा हुण्डी	1225
	1146, 1147, 1148, 1149, 1150,	धर्मबुद्धि-पापबुद्धि चौपाई	1226
	1151, 1152, 1153, 1154, 1155,	धर्मसंग्रह	1220
	1156	धर्मशर्माभ्युदय	1221
द्रव्यसंग्रह कवित्त	1157	धर्मोपदेश आठकाचार	1222, 1223
द्रव्यसंग्रह टीका	1158, 1159, 1160, 1161, 1162,	धर्मोपदेश रत्नमाला च०	1224
	1163	धातुवली	1770
द्रव्यसंग्रह तकनीक	1164, 1165, 1166	धातु पाठ	1771, 1772
द्रष्टाष्टक स्तोत्र	2005	ध्यानाभूत रास	2337
द्वादशानुप्रेक्षा	1167	ध्यान बत्तीसी	2338, 2339
द्वादश व्रत चौपाई	1168	(न)	
द्विजाचार	1169	नक्षत्र बत्तीसी	2648
द्विसंधान महाकाव्य टीका	2324	नदु घडियो	2649
(ध)		नमि निर्वाण काव्य	2342
धन्यकुमार रास	2336	नमोकार पच्छीसी	1228
धन्यकुमार कथा	150	नयचक्र तकनीक	1231
धन्यकुमार चरित्र	135, 136, 137, 138, 139, 140,	नयचक्र टीका	1232
	141, 142, 143, 144, 145, 146,	नयपति जय चर्या	1229
	147, 148, 149,	नरक दुःख वर्णन	1230
धनजय निघण्टु	1769,	नलोदय टीका	1235
धर्मसार	1170, 1171, 1172, 1173, 1174,	नव तल्प	1233
	1175, 1176, 1177, 1178, 1179,	नवतरंग बालावबोध	1234
	1180, 1181, 1182, 1183, 1184,	नवतरंग प्रकरण	1227
	1185, 1186, 1187,	नवकार मंत्र पद	2340



ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
नवल विलास पद	2341	निर्वाण काण्ड	2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
नव रत्न	2647		2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
नवग्रह विधान	2958, 2959, 2960, 2961, 2962,		2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
	2963, 2964, 2965, 2966, 2967,		2021, 2022, 2023, 2024,
	2968, 2969, 2970, 2971	निर्वाणक्षेत्र पूजन	2987, 2988, 2989
नागकुमार चरित्र	156, 157	निशि-भोजनत्याग कथा	162, 163, 164
नागकुमार चरित्र वचनिका	158, 159	नीति शतक	1238, 1239
नागदत्त पुराण	152	नीति-श्लोक	1240
नापदमनी कथा	151	नेम पच्चीसी	2394
नागश्री कथा	153, 154, 155	नेमीनाह चरित्र	178
नागकुमार पंचमी कथा	160, 161	नेमिनाथ ढाल	2395
नाटक समयसार	2343, 2344, 2345, 2346, 2347,	नेमिनाथ पुराण	167, 168, 169, 170, 171
	2348, 2349, 2350, 2351, 2352,	नेमिनाथ पुराण वचनिका	172, 173, 174, 175, 176, 177
	2353, 2354, 2355, 2356, 2357,	नेमिनाथ विवाह	179
	2358, 2359, 2360, 2361, 2362,	नेमिनिर्वाण काव्य	2401, 2402
	2363, 2364, 2365, 2366, 2367,	नेमिनाथ विनती	2403, 2404, 2405
	2368, 2369, 2370, 2371, 2372,	नेमिचन्द्रिका	2389, 2390, 2391, 2392, 2393
	2373, 2374, 2375, 2376, 2377,	नेमि राजुल बारहमासा	2388
	2378, 2379, 2380, 2381, 2382,	नेमिनाथ राजमति बारहमासा	2406, 2407
	2383, 2384, 2385, 2386, 2387,	नेमिनाथरास	2400
नाममाला	1773, 1774, 1775, 1776, 1777,	नेमिश्वर फाग	2396, 2397, 2398, 2399
	1778, 1779,	नेमिनाथ मंगल	2995
नाम लिंगानुशासन	1780, 1781, 1782, 1783,	नंद लहरी	2408
नाडिक शास्त्र	2650	नंद विलास	2409
नाडी परीक्षा	2651	नंद बत्तीसी	2410
नारद संहिता	1236	नंदीश्वर भक्ति	2025
नित्य नियम पूजन	2972, 2973, 2974, 2975, 2976,	नंदीश्वर विधान	2996, 2997, 2998, 2999, 3000,
	2977, 2978, 2979, 2980, 2981,		3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
	2982,	नंदीश्वर पूजन	3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
नित्य नियम पूजन वच०	2983, 2984, 2985, 2986,		3011
निरन्तर भावना	1237	नंदीश्वर पंक्ति पूजन	3012
निघण्टु शब्द कोष	1784	नंदीश्वर उद्यापन	3013, 3014
निर्दुःख संसारी कथा	165, 166	नंदीश्वर अष्टाह्निका कथा	180
निर्वाण मंगल विधान	2990, 2991, 2992, 2993, 2994	न्यायदीपिका	1785, 1786

में आवत ग्रंथों की अग्रसारि कम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
न्यायदीपिका ग्रन्थोत्तर (प)	1787	परीक्षामुख	1788, 1789,
पद्मावली	1790, 1791	पत्य विधान रास	2435, 3019, 3020, 3021
पद्मनाथ चरित्र	181	पत्नी विचार	2652
पद्मनाथ पुराण	182	पत्य विधान	3015, 3016, 3017, 3018
पद्मपुराण कवित्त	183, 184	पाकावली	2653
पद्मपुराण वचनिका	185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215.	पाक्षिक आचार	1272
पद्मनंदि पंचविंशतिका	1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1252, 1254, 1257	पाण्डवपुराण	217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
पद्मनंदि पचविंशतिका टीका	1249, 1250, 1251,	पात्र विचार	1271
पद्मनंदि पचविंशतिका वच०	1253, 1255, 1256, 1258	पार्श्वनाथ चरित्र	239
पद्मावती स्तोत्र	2028, 2029, 2030, 2031, 2032	पार्श्वपुराण	240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
पद्मपुराण रास	2427, 2428	पार्श्वनाथ की निसाणी	1273
पद्मप्रभु पूजन	3022	पार्श्वनाथ स्तोत्र	2033, 2034
पद्मावती पूजन	3023, 3024, 3025,	पार्श्वोष्टक	2035
पद्मावती कल्प विधान	3026,	पार्श्वनाथ रास	2436
पद संग्रह	2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426,	पिंगलशास्त्र	2437, 2438
परधान चरित्र	216	पिंगलसारोद्धार	2439
परमात्मप्रकाश	1259, 1260, 1261, 1262,	पिंडशुद्धि	1274
परमात्मप्रकाश वचनिका	1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269	पुकार पच्चीसी	2440
परमात्मप्रकाश कवित्त	1270	पुण्याश्रव कथाकोष	269, 280, 281, 282, 283, 288,
परमस्थान स्तोत्र	2026	पुण्याश्रव कथाकोष— वचनिका	270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 284, 285, 286, 287,
परमानंद स्तोत्र	2027	पुरुषार्थसिद्धि—उपाय	1275, 1276, 1277, 1278, 1279
परमहंस रास	2429, 2430	पुरुषार्थसिद्धि—उपाय— वचनिका	1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286,
परमानंद विलास	2431, 2432, 2433, 2434	पुष्पांजलीव्रत कथा	289, 290, 291, 292
		पुष्पांजली पूजन	3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032

में आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
पुष्पांजली व्रतोद्यापन	3033		3136, 3137, 3138, 3139, 3140,
पुष्पांजली रास	2441		3141, 3142, 3143, 3144, 3145,
पूजन संग्रह	3034, 3035, 3036, 3037, 3038,		3146, 3147, 3148, 3149, 3150,
	3039, 3040, 3041, 3042, 3043,		3151, 3152, 3153, 3154, 3155,
	3044, 3045, 3046, 3047, 3048,		3156, 3157, 3158, 3159, 3160,
	3049, 3050, 3051, 3052, 3053,		3161, 3162, 3163, 3164, 3165,
	3054, 3055, 3056, 3057, 3058,		3166, 3167, 3168, 3169, 3170,
	3059, 3060, 3061, 3062, 3063,		3171, 3172, 3173, 3174, 3175,
	3064, 3065, 3066, 3067, 3068,		3176, 3177, 3178, 3179, 3180,
	3069, 3070, 3071, 3072, 3073,		3181, 3182, 3183, 3184, 3185,
	3074, 3075, 3076, 3077, 3078,		3186, 3187, 3188, 3189, 3190,
	3079, 3080, 3081, 3082, 3083,		3191, 3192, 3193, 3194, 3195,
	3084, 3085, 3086, 3087, 3088,		3196
	3089, 3090, 3091, 3092, 3093,	पोसह विधि	1287
	3094, 3095, 3096,	पंच दण्डी कथा प्रबंध	297
पूजन संग्रह	3097, 3098, 3099, 3100, 3101,	पंचमी व्रत कथा	298, 299, 300
	3102, 3103, 3104,	पंचमी प्रोषध उद्यापन	1326
पोथी	293, 294, 295, 296, 1288, 1289,	पंचमी व्रत उद्यापन	1327
	1290, 1291, 1292, 1293, 1294,	पंच परावर्तन	1314
	1295, 1296, 1297, 1298, 1299,	पंच मंगल	1315, 1316, 1317, 2056, 2057,
	1300, 1301, 1302, 1303, 1304,		2058, 2059, 2060
	1305, 1306, 1307, 1308, 1309,	पंच संग्रह	1323
	1310, 1311, 1312, 1313, 2036,	पंच लब्धि	1324
	2037, 2038, 2039, 2040, 2041,	पंच संधि	1792
	2042, 2043, 2044, 2045, 2046,	पंच स्तोत्र संग्रह टीका	2061
	2047, 2048, 2049, 2050, 2051,	पंच परमेष्ठी गुण	2062
	2052, 2053, 2054, 2055, 2442,	पंच परमेष्ठी रास	2446
	2443, 2444, 2445, 2654, 3105,	पंचमी शतक	2447
	3106, 3107, 3108, 3109, 3110,	पंच कल्याणक विधान	3197, 3198, 3199, 3200, 3201,
	3111, 3112, 3113, 3114, 3115,		3202, 3203, 3204, 3205, 3206,
	3116, 3117, 3118, 3119, 3120,		3207, 3208, 3209, 3210, 3211,
	3121, 3122, 3123, 3124, 3125,		3212, 3213, 3214, 3215, 3216,
	3126, 3127, 3128, 3129, 3130,		3217, 3218, 3219, 3220, 3221,
	3131, 3132, 3133, 3134, 3135,		3222, 3223, 3224, 3225, 3226,
			3227, 3228, 3229, 3230, 3231,

ग्रे भाषात संघी की अकारादि क्त से अनुक्रमणिका

ग्रन्थ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रन्थ का नाम	रत्नावली क्रमांक
	3232, 3233, 3234, 3235, 3236,	प्रवचनसार	1340, 1344, 1345
	3237, 3238, 3239, 3240, 3241,	प्रवचनसार टीका	1341, 1342
	3242,	प्रवचनसार पद्यानुवाद	1343
पंच कल्याणक पाठ	3243,	प्रश्नोत्तर	1346, 1347
पंचमेरु विधान	3244, 3245, 3246,	प्रश्नोत्तर वृत्ति	1348
पंचमेरु पूजन	3247, 3248, 3249,	प्रश्नोत्तर धर्माभूत	1349
पंचमंगल विधान	3250, 3251, 3252, 3253,	प्रश्नोत्तर उपासकाचार	1350, 1351, 1352, 1353, 1354,
पंच परमेष्ठी विधान	3254, 3255, 3256, 3257, 3258,		1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
पंच बालयति विधान	3259		1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
पंचास्तिकाय टीका	1318, 1319, 1320, 1321, 1322		1365, 1366, 1367, 1368,
पंचांगुली स्तोत्र	2063	प्रश्नोत्तर रत्नमाला	1369, 1370, 1371
पंचांग कौतूहल	2655	प्रश्न धूडामणी	1372
पंचांगविक्रमसंवत् 1916 का	2656	प्रश्नमाला	1373, 1374, 1375, 1376,
पथी आगम पृच्छा	1325		1377, 1378, 1379, 1380,
पंडित पूजन	3260		1381, 1382, 1383
प्रज्ञापना सूत्र	1338	प्राकृत त्रिभंगी टीका	1385
प्रत्याख्यान कल्प	1337	प्राकृत व्याकरण	1793
प्रतिक्रमण कल्प	1328	प्राकृत लक्षण	1794
प्रतिक्रमण	1329, 1330, 1331	प्रायश्चित्त शास्त्र	1384
प्रतिक्रमण वच०	1332	प्रीतंकर चरित्र	321
प्रतिक्रमण सूत्र	1333, 1334, 1335	प्रोषध विधि गीत	1386
प्रतिमा बहत्तरी	1336	(फ)	
प्रतिष्ठा पाठ संग्रह	3261, 3262, 3263, 3264, 3265,	फूलमाला	3268
	3266, 3267	(ब)	
प्रद्युम्न रास	2448	बगुलामुखी स्तोत्र	2064
प्रद्युम्न प्रबन्ध	301, 302	बत्तीस लक्षण छप्पय	1389
प्रद्युम्न चरित्र	303, 304, 305, 306, 307, 308,	बनारसी विलास	2450, 2451, 2452, 2453, 2454
	309, 310, 311, 312, 313, 314,	बन्ध उदय, सत्त्व त्रिभंगी	1387, 1388
	315, 316, 317, 318, 319	वर्षफल	2657
प्रद्युम्न कथा	320	बलभद्र रास	2449
प्रबोधसार	1339	बाईस परिषदादि	1390, 1391, 1392, 1393,
प्रमाणपरीक्षा वच०	1795		1394, 1395, 1396
प्रमेयरत्नमाला	1796	बारह आरा चौपाई	1397
प्रमेयरत्नमाला वच०	1797	बारह भावना	1399, 1400, 1401

जें आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
बारह मासा	2455		347, 348, 349
बारह खड़ी	2456	भक्तामर स्तोत्र	2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150
बारह मासी	2065		
बारह व्रत अतिचार वर्णन	1398		
बारह व्रतोद्यापन	1402		
बारह व्रत पूजन विधान	3269		
बारह सौ चौतीस			
व्रतोद्यापन	3270		
बासटि मार्गणा विधान	3271		
बीस तीर्थकर स्तुति	2066		
बीस तीर्थकर विधान	3272		
बीस ठाणा	1410		
बुद्धि प्रकाश	1403, 1404, 1405, 1406, 1407		
बुद्धिविषये बुद्धि सागर— दृष्टांत	322		
बुधजन सतसई	1408, 1409, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464	भक्तामर ऋद्धिमंत्र तंत्र	2658, 2659, 2660, 2661, 2662
बुधजन विलास	2465, 2466	भक्ति संग्रह	2151
बृहत्स्वयंभू स्तोत्र	2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075	भक्ति वरदावली	2152
बृहत्पुर्वावली	1798	भगवती आराधना वच०	1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422
बृहत्सिद्ध चक्र पूजन	3273, 3274	भगवती प्रज्ञापना	1425
बेताल बत्तीसी	2467	भगवती सूत्र	1423
बोधरत्नाकर	1411	भगवती सूत्र शतक	1424
बंकचूलरास	2468, 2469, 2470	भजन संग्रह	2076, 2077, 2078, 2487
ब्रम्हगुलाल मुनि चरित्र	323	भट्टी व्याकरण	1799
ब्रम्हमाला	1412	भडली	2486
ब्रम्हविलास	2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485	भर्तृहरि शतक	1427
(अ)		भद्रबाहु चरित्र	324, 325, 326
भक्तामर कथा चरित्र	328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 41, 342, 343, 344, 345, 346,	भद्रबाहु चरित्र वच०	327
		भूरमपत्र	1426
		भविष्यदत्तचरित्र	350, 351, 352
		भविष्यदत्तचरित्र वच०	353
		भविष्यदत्तरास	2488

में आवत ग्रंथों की अकादमि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
भावदीपिका वक्र०	1428, 1429, 1430, 1431, 1432	माधव निदान	2665
भावसंग्रह	1433	मानश्रृंगी मानवती रास	2505
भावत्रिभंगी	1434	माला पिंगल	2504
भावपाहुड	1435	मालारोहण	1441
भावना बेलि	2153	माशेष फलं	2666
भावफल	2663	मित्र विलास	2507
भुवनेश्वरी पटल	2664	मित्रानंद अमरदत्त रास	2509
भूधर विलास	2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495	मिथ्यात्व खण्डन	1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452,
भूपाल स्तोत्र टीका	2154, 2155, 2156, 2157, 2158	मिथ्यात्व रासो	2508
भ्रमाष्टक	2496	मिलन भाव	1442
(म)		मुक्तावली कथा	379, 380
मथुरा पच्चीसी	2497	मुक्तावली गीत	2510
मदन मोहन पंचशती	2500, 2501	मुक्तावली व्रतोद्यापन	3281
मधु मालती कथा	354, 355, 1800	मुनीश्वर पूर्वी	1453
मनुष्य भव दुर्लभ वर्णन	1439	मूलाचार प्रदीप	1454, 1455
मरकत विलास	2498	मूलाचार वच०	1456, 1457
मरकत विलास वच०	2499	मूर्हत चिन्तामणी	2667
मल्लिनाथ चरित्र	356, 357, 358	मृग संवादक चौपाई	2511
मल्लिनाथ चरित्र वच०	359, 360, 361, 362, 363, 364	मृत्यु महोत्सव	1458, 1459, 1460, 1461, 1462
महावीर चरित्र	365	मेघकुमार गीत	2513
महावीर पुराण	366, 367, 368	मेघमाला	2512
महावीर जी यात्रा वर्णन	1438	मेघमाला व्रत पूजा	3282
महावीर जी की रथोड़ी	1440	मेघदूत काव्य	2514
महावीर स्वामी रास	2502	मोक्षमार्ग प्रकाशक	1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475
महावीर निर्वाण काव्य	2503	मंगलाष्टक	2161
महावीराष्टक स्तोत्र	2159, 2160	मंगलाचरण एवं गुणमाल	2162
महापुराण	369, 370, 371, 372, 373	मंजन निदान	2671
महापुराण कवित्त	374	मंत्र महोदधि नौका	2668, 2669
महीपाल चरित्र	375	मंत्र फलाफल	2670
महीपाल चरित्र वच०	376, 377, 378	(य)	
महादण्डक	1437	यति भावनाष्टक	2163
महासती स्वाध्याय	1436	यमाष्टक वृत्ति	2515
मात्रा प्रस्तार भेद	2506		

में आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
यशोधर चरित्र	381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,	रससंकेत कलिका	2677
यशोधर कथा	398	रसमंजरी	2678
यशोधर रास	2516	रसतरंगिणी	2679
योगपाहुड़	1476	रसपद्धति	2680
योगसार दोहा	1477, 1481	राजनीति शास्त्र	1801
योगसार वच०	1482, 1483	राजमती बारहमाला	2525, 2526
योगरत्नमाला	1484	राजुल पच्चीसी	2527, 2528, 2529, 2530
योगचिंतामणी	2672	रात्रिमोजनत्याग कथा	413, 414, 415, 416
योगाधिकार रत्नदीपक	2673	रात्रिमोजनभंजन दृष्टांत	1506
योनिपाहुड़	1485	राग भैरो	2536
यंत्र चौपाई	2674	रामपुराण	410, 411, 412
(र)		रामचन्द्र रास	2531, 2532
रक्षा बंधन कथा	399	रामपमारौ	2533, 2534, 2535
रघुवंश महाकाव्य	2517, 2518, 2519, 2520	रित्यंक गर्भ षडावक	2681
रत्नत्रय व्रत कथा	400, 401	रेखता	2537
रत्नत्रय विधान	3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289	रोहणीव्रत कथा	417, 418, 419
रत्नत्रय पूजा	3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295	रोहणीव्रतोद्यापन	3297
रत्नपाल चरित्र	409	(ल)	
रत्नपाल श्रेष्ठीरास	2521, 2522, 2523	लक्षणावली	1507
रत्नकरण्ड श्रावकाचार	1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491	लक्ष्मीस्तोत्र	2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174
रत्नकरण्ड श्रावकाचार वच०	1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504	लक्ष्मीविलास	2538, 2539
रथणसार	1505	लग्नचन्द्रिका	2682
रविव्रत कथा	402, 403, 404, 405, 406, 407, 408	लघु तत्त्वार्थसूत्र	1508
रविव्रत उद्यापन	3296	लघु चाणक्य	1509
रसमंजरी काव्य	2524	लघु सामायिकपाठ	1510, 1511
रसरत्नाकर	2675	लघु सिद्धांतकौमुदि	1802
रसरहस्य	2676	लघु स्वयंभूस्तोत्र	2175, 2176, 2177
		लघु जिनसहस्रनाम स्तोत्र	2178
		लघु पंचकल्याणक विधान	3298, 3299
		लङ्घन पथ्यनिर्णय	2683
		लब्धिसार क्षणसार टीका	1512, 1513
		लब्धिविधान उद्यापन	3300
		लालमंगल	2540

ने जागत संघों की अकादमि कम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
लावनी	2541, 2542, 2543, 2544	वृंदावन सतसई	442
लीलावती गणित	2684, 2685	वृत्तरत्नाकर	2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2663, 2564, 2565
सुब्बदत्त सेठ चौपाई	420	वृषभनाथ चरित्र	443, 444, 445
लेख्या परिणाम	1514, 1515, 1516, 1517	वृहद् कथाकोष	446
लोकस्थिति	1518	वृहद् सामायिकविधि	1527
(ब)		वृहद् शांतिविधान	3312
वचन कोष वच०	1519, 1803, 1804, 1805, 1806	वेद निर्णय पंचासिका	2567
वदनकला-निधि	1807	वेद्य महोत्सव	2687, 2688, 2689
वणिक-प्रिया	2545	वेद्य जीवन	2690
वर्तमानागत जिन पूजा विधि	3301	वैयाकरण सिद्धांतकौमुदी	1813
वर्द्धमानपुराण	421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431	वेद्यक ग्रन्थ	2691, 2692, 2693, 2694
वरांगचरित्र	432, 433, 434, 435, 436, 437	वैराग्य शतकम्	2568, 2569, 2570, 1528, 1529
वसुनंदी श्रावकाचार वच०	1520, 1521	वैराग्य भावना	1530
वाग्भट्टालंकार	2546, 2547, 2548, 2549, 2550 2551	व्याख्याप्रज्ञप्ति	1531
विक्रमादित्य राजा चौपाई	2552	व्रत-पत्र	1532
विचारकथा	438	व्रतसार	1533
विदग्धमुखमण्डन	1809, 1810, 1811, 1812	व्रत-कथाकोष	447, 448, 449
विदेहक्षेत्र पूजन	3310	व्रतोद्यापन	3311
विद्यानुवाद	2686	(श)	
विद्वज्जन बोधक	1522, 1523, 1524	शकुन प्रयोग	2696
विधानसंग्रह	3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309	शत संवत्सरी फलाफल	2695
विनती संग्रह	2189	शब्दशास्त्र	1814
विवाहपद्धति	1525	शब्द-अधिकार	1815
विवाहवृंदावन	1526	शार्ङ्गधर	2697
विवेकविलास	2553, 2554, 2555	शाराष्टक	2191
विष्णुकुमार कथा	439, 440, 441	शालिभद्रमुनि चरित्र	462, 463, 464, 465, 466, 467
विषापहार-स्तोत्र	2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188	शास्त्रपूजन	3313
विश्वप्रकाशकोष	1808	शांत्यर्थ होम विधान	3319
वीतराग-स्तोत्र	2190	शांतिनाथ चरित्र	450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
वीरभाण उदययाण चरित्र	442	शांति अष्टक टीका	1534
		शांतिनाथ-स्तोत्र	2192
		शांतिपाठ	3314
		शांतिनाथ पूजन	3315

में आगत ग्रंथों की अकरादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
शाक्तिक विधान	3316	शूलभद्र रास	2577
शाक्तिचक्र पूजा	3317	श्रेणिकचरित्र	525,526,527,528,529,530,531
शाक्तिविधान	3318	श्रेणिकरास	2581,2582, 2583
श्रावकाचार	1539	शोभन-स्तुति	2193
श्रावकाचार रास	2578	श्रृंगारचरित्र	2584, 2585, 2586, 2587
श्रावकधर्म मंत्रविधि	2698	श्रृंगारचेतनी	2588
शिक्षावचन दोहे	2571, 2572	श्यामर	1818
शिखर पच्चीसी	1535, 2575	श्लोक संग्रह	1537, 1538
शिखर माहात्म्य	3320, 3321, 3322, 3323, 3324	(ष)	
शिखामण रास	2573	षट्कर्मापदेश रत्नमाला	1541, 1542,
शिव पच्चीसी	2574	षट्काल स्वरूप	1543
शीघ्रबोध	1816, 1817	षट्कारक	1820
शील कथा	468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490	षट्दर्शन पाखण्ड	1822
शील-बत्तीसी	491	षट्दर्शन सूत्र	1823
शीलरास	2576	षट्पाहुड़	1544, 1545, 1547
श्रीखण्डप्रशस्ति टीका	1540	षट्पाहुड़ टीका	1546
श्रीपालकथा	493, 494, 495	षट्पाहुड़ वच०	1548
श्रीपालचरित्र	496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523	षट्पाठ	1819
श्रीपालरास	2579, 2580	षट् पंचासिका	1550, 1821
श्रीपार्श्वनाथ पूजन	3326	षट् लेश्या	1549
शुक्लध्यान कथन	1536	षोडशकारण भावना	1551
शुक्लपंचमी व्रतोद्यापन	3325	षोडशकारण जयमाला	3330
शुक्लपंचमी कथा	524	षोडश योग टीका	2699
शुक्लस्कंध	3327	(स)	
शुक्लस्कंध पूजन	3328	सकलीकरण विधान	3331
शुक्लबोध विधान	3329	सकलीकरण विधान विधि	3332
शूलभद्र रास बेलि	492	सगर चक्रवर्ती आख्यान	545, 546
		सगुन फल	2700
		सज्जनचित्त बल्लभ	1602, 1603, 1604, 1605
		सज्जनचित्त बल्लभ टीका	1606
		सत्ता त्रिभंगी	1611, 1612, 1613
		सत् गुरु शतक	2589, 2590
		सप्त व्यसन चरित्र	532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542

गै आगत ग्रंथों की अकादमि कम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
सप्त व्यसन गीत	1583	सम्मोदशिखर माहात्म्य	1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597
सप्त ऋषि पूजन	3334, 3335	सम्मोदशिखर विधान	3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367
सप्त परमस्थान पूजन	3336	सम्मोदशिखर क्षेत्र	3368
सप्तपदार्थी	1824, 1825	सम्मोदशिखर पूजन	3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375
सप्त व्यसन रास	2591	सम्मोदाचल उद्यापन	3376
समकित अष्टांग कथा	543, 544	सम्मोद शिखर विलास	2593, 2594
समयसार टीका	1552, 1553, 1555, 1559	सम्यग्ज्ञान दीपिका	1599
समयसार वचनिका	1554, 1556, 1557, 1558	सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका	1600, 1601
समयसार कलश	1560, 1561	साधु-वंदना	2197, 2198, 2199, 2200
समाधितंत्र	1562, 1563, 1564, 1565, 1575	सामायिक पाठ	1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1628, 1629, 1633,
समाधितंत्र टीका	1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1576, 1577, 1578	सामायिक पाठ वच०	1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1630, 1631, 1632, 1634, 1635
समाधि-शतक छन्द	2592	सामायिक पाठ भाषानुवाद	1636
समाधिमरण पाठ	1579, 1580, 1581, 2194	सामायिक सूत्र	1637
समाधिमरण पाठ वच०	1582, 1583	सामुद्रिक शास्त्र	2701, 2702, 2703
समुच्चय पूजन	3337	सारस्वत व्याकरण	1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843
समोत्पत्ति	1582A	सारस्वत यंत्र पूजन	3380
समोशरण विधान	3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357	सासर वासो रास	2599
समोशरण स्तोत्र	2195	सिक्खा वयणु	2600
सरस्वती पूजन	3377, 3378, 3379	सिद्धपूजा	3381, 3382, 3383
सरस्वती स्तोत्र	2196	सिद्धचक्र पूजा	3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393
सर्वार्थसिद्धि	1607, 1610	सिद्धचक्र व्रत कथा	589
सर्वार्थसिद्धि वचनिका	1608, 1609	सिद्धक्षेत्र पूजा	3394
सर्वज्ञाभाव	1826	सिद्धपूजा विधान	3395
सर्वशास्त्र विशारद	1827	सिद्धचक्र विधान	3396, 3397, 3398, 3399
सम्यक्त्वकौमुदी कथा	547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557		
सम्यक्त्वकौमुदी	1589		
सम्यक्त्वलीला-विलास	1598, 2596, 2597, 2598		
सम्बोधि-पंचासिका	1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 2595		

में आगत ग्रंथों की अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका

ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक	ग्रंथ का नाम	रत्नावली क्रमांक
सिद्धचक्राष्टक टीका	3400		1674,1675,1676,1677,
सिद्धचक्र उद्यापन विधि	3401		1678, 1679, 1680
सिद्धगिरि स्तवन	2202	सुधारससार वचनिका	2707, 2708
सिद्धप्रिय स्तवन	2203, 2204	सुपंथ-कुपंथ पच्चीसी	2608
सिद्धचक्र रास	2603	सुप्रमात-स्तोत्र	2205
सिद्धान्तशास्त्र	1638	सुभाषितावली	1681,1682,1683,1684,
सिद्धान्तसूत्र चौपाई	1639		1685, 1686, 1687, 1688
सिद्धान्तसार दीपक	1649, 1650, 1651, 1652, 1653	सुभाषितावली वचनिका	1689, 1690, 1691
सिद्धान्तसार वचनिका	1654, 1655	सुभाषितार्णव	1692, 1693
सिद्धान्तसार संग्रह	1657,1658, 1659, 1660, 1661	सुभाषित ग्रन्थ	1698
सिद्धान्तसार टीका	1662	सुभाषित रत्नमाला	1694, 1695
सिद्धान्तसार भाष्य	1663	सुभाषितरत्नसंदोह	1696
सिद्धान्त-चन्द्रिका	1846, 1847	सुभाषितरत्नसंदोह वच०	1697
सिद्धान्त-चन्द्रिका टीका	1848	सुभाषित धर्म प्रश्नोत्तर	1699
सिद्धि-दण्डक स्तवन	2201	सूक्तिमुक्तावली	1700,1701,1703,1704,1705
सिद्धिविनिश्चय टीका	1844, 1845	सूक्तिमुक्तावली टीका	1702
सिन्दूर-प्रकरण	1640, 1641, 1642, 1643, 1644,	सूत्रप्रज्ञप्ति	1706
	1645, 1646, 1648	सूत्रप्राभृत टीका	1707
सिन्दूर-प्रकरण टीका	1647	सेठ मतिसागर चरित्र	593
सिंहासन बत्तीसी	2601	सोनागिर पच्चीसी	2206
सीताचरित्र	590, 591, 592	सोमशत प्रकरण	1708
सीताशील-विलास	2602	सोलहकारण व्रत कथा	594, 595, 596
सुकुमाल चरित्र	558, 559, 560, 561, 562, 563,	सोलहकारण भावनादि	1709
	564, 565, 566, 567, 568, 569,	सोलहकारण रास	2610
	570, 571, 572, 573, 574	संगीतशास्त्र	2612
सुकुमाल रास	2607	संग्रह-ग्रन्थ	2207, 2611
सुगन्ध दशमी कथा	581, 582, 583, 584, 585, 586, 587	संध्या-विधि	3333
सुगनोती	2704, 2705	संस्कृत मंजरी	1849
सुगम विवाह-शोधन-क्रिया	2706	स्तुति-पदसंग्रह	2208,2209, 2210,2211,
सुदर्शन-चरित्र	575, 576, 577, 578, 579,580	स्तोत्र-संग्रह	2212, 2213,2214,2215,
सुदर्शन-रास	2604, 2605		2216,2217,2218,2219, 2220,
सुदर्शनस्वामी छंद	2606		2221, 2222, 2223,2224
सुदृष्टि तरंगणि	1664, 1665, 1666, 1667, 1668,	स्याद्वादमंजरी	1850
	1669, 1670, 1671, 1672, 1673,	स्वप्नाध्याय	2709
		स्वरोदय	2710

में आवत ग्रंथों की अकादमि क्रम से अनुक्रमिका

ग्रंथ का नाम	सूची क्रमांक	ग्रंथ का नाम	सूची क्रमांक
(ह)			
हनुमान कथा	597		
हनुमान चरित्र	598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616		
हरिवंश महात्म्य	617		
हरिवंश पुराण	618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654		
हरिषेण चक्रवर्ती कथा	655		
होलिका चरित्र	656, 657, 658, 659, 660		
हितोपदेशी धर्म प्रबोधिनी	1726		
हंसराज चौपाई	1727		
हनुवंत रास	2613		
हिंडोरना	2614		
हट प्रदीपिका	2711		
होरासार वृत्ति	2712		

के शब्दों के लेखकों की अकासदि क्रम से अनुक्रमणिका

(अ)	केशरी संघ (पं०)	जयचन्द्र छाबड़ा (पं०)	देवीदास (कवि)
अकलंक देव (आचार्य)	क्षत्रसेन (कवि)	जयराज	देवराज (मुनि)
अखैराज (पं०)	(ख)	जयसेन (आ०)	देवसागर (ब्र०)
अग्निवेश	खड्गसेन (पं०)	जयकीर्ति (आ०)	देवनंदी
अजित (ब्र०)	खुशालचंद्र (पं०)	जवाहरलाल (पं०)	देवेन्द्रकीर्ति (भट्टा०)
अनंतवीर्य (आ०)	खूबचन्द्र (पं०)	जशकीर्ति (भट्टा०)	देवाब्रम्ह
अनंतवीर्य लघु (आ०)	(ग)	जिनदास (ब्र०)	दौलतराम (पं०)
अभयदेव (आ०)	गणपति (पं०)	जिनसेन (आ०)	द्यानतराय (पं०)
अभयनंदि मुनि	गिरिधारीलाल (पं०)	जिनचन्द्र (भट्टा०)	(घ)
अभिनव धर्मभूषण	गुणनंदि (मुनि)	जिनकीर्ति (भट्टा०)	धनअय (कवि)
अमर	गुणविनयगणि	जिनदास पाण्डे (पं०)	धर्मविजय
अमरसिंह	गुणभद्र (आ०)	जिनसागर (ब्र०)	धर्मचन्द्र (भट्टा०)
अमरकीर्ति (आ०)	गुलाबचन्द्र (पं०)	जिनबल्लभ सूरि	धर्मभूषण (भट्टा०)
अमितगति (आ०)	गुलाबराय मोतीराम	जिनेश्वरदास (पं०)	धर्मदास गणि
अमीचंद श्रावक	गोकुलदास (ब्र०)	जीवनाथ (पं०)	धर्मदास (क्षु०)
अमृतचंद (आ०)	गोपालदास	जोधराज (पं०)	धर्मचन्द्र (पं०)
असग (कवि)	गगादास (पं०)	ज्योतिश्वर	धर्मदेव
(आ)	(घ)	(झ)	(न)
आशाधर (पं०)	घीसाराम (पं०)	ज्ञानभूषण (ब्र०)	नथमल विलाला
(इ)	(ड)	ज्ञानसागर (आ०)	नवलशाह (कवि)
इन्द्रनदी (आ०)	डालूराम (पं०)	(ट)	नरेन्द्रसेन (भट्टा०)
(उ)	(घ)	टेकचन्द्र (पं०)	नागार्जुन
उमास्वामी (आ०)	चन्द्रहंस	टोडरमल (पं०)	नारचन्द्रार्य
उमेदराम (पं०)	चम्पालाल (पं०)	(ठ)	नेमीदत्त (ब्र०)
(ए)	चम्बेदास (पं०)	ठाकुरदास	नेमीचन्द्र सिद्धान्तिदेव
एकनाथ (भट्टा०)	चरणदास (पं०)	(त)	नेमीचन्द्र (ब्र०)
(क)	चारित्रभूषण (मुनि)	त्रिलोककीर्ति (भट्टा०)	नदलाल (पं०)
कमलकीर्ति (भट्टा०)	(छ)	(थ)	नंददास
कँवरलाल	छत्रपति	थान (कवि)	न्यायसागर (पं०)
कार्तिकेय (मुनि)	(ज)	(द)	(प)
कालिदास (कवि)	जगतकीर्ति	दयालुदास (मुनि)	पंकजनंदि
काशीनाथ (पं०)	जगताराय (पं०)	दयासागर (ब्र०)	पदमनंदि (भट्टा०)
किशन सिंह (पं०)	जगन्नाथ (पं०)	दीपचंद (पं०)	पदमसुन्दर (पं०)
किशनलाल (पं०)	जगजीवन (पं०)	दुर्गसिंह	पन्नालाल चौधरी (पं०)
कुन्दकुन्द (आ०)	जगजीवन दास	दुलीचंद (पं०)	पन्नालाल गोष्ठा (पं०)
कुमुदचन्द्र (आ०)	जनार्दन बिबुध	देवसेन (आ०)	पन्नालाल संघी (पं०)
केशव मिश्र (पं०)	जयसागर (ब्र०)	देवचंद (पं०)	परिमल (कवि)

ये कवियों के लेखकों की अक्षर्यादि क्रम में अनुक्रमणिका

पर्वताचार्य	मरकत (कवि)	(व)	(स)
पारसदास निगोत्या (पं०)	मलयगिरि	वदन (कवि)	सकलकीर्ति (भट्टा०)
पाण्डेदास	मल्लूकचंद (पं०)	वर्द्धमान (भट्टा०)	सदासुखदास (पं०)
पूज्यपाद (आ०)	मल्लिषेणसूरि (आ०)	वरदराज	समन्तभद्र (आ०)
पूरनचंद (ब्र०)	मल्लिभूषण (आ०)	वसुनंदी (आ०)	सहस्रकीर्ति
पूरणसागर (ब्र०)	मल्लिभूषण देव	वाग्भट्ट	सायार (कवि)
पूर्णानंद	सहायीराचार्य	वादीभसिंह (आ०)	सुखसागर
प्रभाचन्द्र आचार्य	महीधर	वादीराज (आ०)	सुखराम
प्रभाचन्द्रगणि	महतिसागर	विक्रमादित्य	सुगमचंद
(फ)	माधवचन्द्र (आ०)	विजयकीर्ति (भट्टा०)	सुमतिसागर
फतहलाल (पं०)	मानतुंग (आ०)	विजयदेवेश्वर सूरि	सुन्दरसूरि (मुनि)
(ब)	माणिकचन्द्र (आ०)	विद्यासागर (ब्र०)	सुरेन्द्रकीर्ति (भट्टा०)
बखतराम	माणिक्यनंदि (आ०)	विद्यानद (आ०)	सूरचंद्र (पं०)
बनारसीदास (कवि)	मायाराम	विनोदीलाल (कवि)	सूरतराम
बालचन्द्र (पं०)	मोहनलाल	विनश्वरनंदी	सेवाराम
बिहारीलाल (कवि)	(य)	विमलभूषण (भट्टा०)	सैदपहार
बुधजन (कवि)	यशकीर्ति (भट्टा०)	विविध भूषण	सोमचन्द्र
बुलाकीदास (कवि)	यशसमुद्र (पं०)	विश्वशम्भु (मुनि)	सोनसेन
बूलचंद (पं०)	योगिन्दुदेव (आ०)	विश्वभूषण (भट्टा०)	सोमकीर्ति (भट्टा०)
(भ)	(र)	वीरनंदी (आ०)	सोमप्रभ (आ०)
भगवतीदास (पं०)	रङ्गू कवि	वृंदावनदास (कवि)	संतलाल (कवि)
भट्ट भर्तृहरि (कवि)	रतनचन्द्र (भट्टा०)	(श)	स्वरूपाचार्य
भट्टकेदार	रत्नकीर्ति (भट्टा०)	शंकर (पं०)	स्वरूपचंद्र (मुनि)
भागचंद (पं०)	रत्ननंदी (भट्टा०)	शकराचार्य	(ह)
भानुदत्त	रत्नभूषण (भट्टा०)	शांतिलाल (पं०)	हरगोविन्ददास (पं०)
भारामल (कवि)	रत्नपाल (ब्र०)	शांतिदास (ब्र०)	हरिभद्र
भाव शर्मा	राजकीर्ति	शाह भीष्म सुत्त	हरिभद्रसूरि (आ०)
भास्करनंदी (आ०)	रामदास (पं०)	शिखरचंद्र (ब्र०)	हरिरामदास निरंजनी
भूधरदास (पं०)	रामचन्द्र चौधरी (पं०)	शिरोमणि दास (पं०)	हरिगण (पं०)
भूपाल (कवि)	रायमल (ब्र०)	शिवादित्य मिश्र (पं०)	हरिभद्र
भूषण मिश्र (कवि)	रूपचन्द्र (पं०)	शिवा (ब्र०)	हर्षकीर्तिसूरि
भैरो प्रसाद (पं०)	(ल)	शिवजीलाल (पं०)	हर्षसागर
(म)	लक्ष्मीचंद (पं०)	शुभचन्द्र (आ०)	हर्षवर्द्धन
मकरंद	लक्ष्मीदास (पं०)	शोभन मुनि	हीरानंदन (पं०)
मथुरानाथ (पं०)	लक्ष्मणदास (पं०)	श्रीचन्द्र मुनि	हेम (कवि)
मनोहरदास (पं०)	ललितकीर्ति (भट्टा०)	श्रीपति भट्ट	हेमराज (कवि)
	लालचंद (पं०)	श्रीमान (ब्र०)	हेमराम (पं०)
	लोकेश्वर	श्रुतसागर (आ०)	हंसराज

पाण्डुलिपि प्राप्ति स्थलों की अकांक्षादि क्रम से अनुक्रमणिका

- | | |
|--|--|
| (1) गांधी परिवार, अकलूज (महा०) | (38) श्री दिग० जैन मंदिर लार्डगंज, जबलपुर (म०प्र०) |
| (2) श्री दिग० जैन मंदिर, अजनौर (म०प्र०) | (39) श्री दिग० जैन इयोदिया मंदिर, जबलपुर (म०प्र०) |
| (3) श्री दिग० जैन मंदिर, अजनास (म०प्र०) | (40) श्री दिग० जैन मंदिर गढा, जबलपुर (म०प्र०) |
| (4) श्री सिद्धकूट चैत्यालय, अजमेर (राज०) | (41) श्री दिग० जैन मंदिर, जबलपुर (म०प्र०) |
| (5) श्री दिग० जैन मंदिर, अथाईखेड़ा (म०प्र०) | (42) श्री दिग० जैन मंदिर, जरूवाखेड़ा (म०प्र०) |
| (6) श्री दिग० जैन मंदिर, अतौरा (म०प्र०) | (43) श्री दिग० जैन मंदिर, जानसट (उ०प्र०) |
| (7) श्री दिग० जैन गाँव मंदिर, अशोकनगर (म०प्र०) | (44) श्री दिग० जैन मंदिर, जौला (उ०प्र०) |
| (8) विश्वविद्यालय पुस्तकालय, आक्सफोर्ड (लन्दन) | (45) श्री दिग० जैन मंदिर, झालरापाटन (राज०) |
| (9) श्री दिग० जैन मंदिर, आनंदपुर (म०प्र०) | (46) श्री दिग० जैन कटरा मंदिर, झांसी (उ०प्र०) |
| (10) उदासीन आश्रम, इन्दौर (म०प्र०) | (47) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, झूमरीतलैया (बिहार) |
| (11) श्री दिग० जैन मंदिर, उदैपुरा (म०प्र०) | (48) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, टीकमगढ़ (म०प्र०) |
| (12) श्री दिग० जैन मंदिर, ककड़ारी (म०प्र०) | (49) श्री नेमीनाथ जैन मंदिर, टोड़ारायसिंह (राज०) |
| (13) श्री राष्ट्रीय परिवार, कटनी (म०प्र०) | (50) श्री दिग० जैन मंदिर, डोगराखुर्द (उ०प्र०) |
| (15) श्री दिग० जैन मंदिर, कवाल (उ०प्र०) | (51) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, ढाना (म०प्र०) |
| (16) श्री दिग० जैन मंदिर, काछी पिपरिया (म०प्र०) | (52) श्री दिग० जैन मंदिर, त्यांदा (म०प्र०) |
| (17) श्री दिग० जैन मंदिर, काण्डव (महा०) | (53) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, दमोह (म०प्र०) |
| (18) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, कापरेन (राज०) | (54) श्री दिग० जैन मंदिर, देवरीकलौं (म०प्र०) |
| (19) श्री दिग० जैन मंदिर, किरवाया (म०प्र०) | (55) श्री दिग० जैन मंदिर, नईसराय (म०प्र०) |
| (20) श्री दिग० जैन मंदिर, कुआगाँव (उ०प्र०) | (56) श्री दिग० जैन मंदिर, नरयावली (म०प्र०) |
| (21) श्री दिग० जैन मंदिर, कुम्भराज (म०प्र०) | (57) श्री दिग० जैन अजितनाथ मंदिर, नागपुर (महा०) |
| (22) विश्वविद्यालय पुस्तकालय, केम्ब्रिज | (58) श्री दिग० जैन मंदिर, नादेल (म०प्र०) |
| (23) श्री दिग० जैन मंदिर, केवलारी (म०प्र०) | (59) श्री दिग० जैन मंदिर, नारहट (उ०प्र०) |
| (24) श्री दिग० जैन मंदिर, कैलगुवाँ (उ०प्र०) | (60) श्री दिग० जैन मंदिर, निवारी (उ०प्र०) |
| (25) श्री दिग० जैन मंदिर, खटौराकलौं (म०प्र०) | (61) श्री दिग० जैन मंदिर, नैकोरा (उ०प्र०) |
| (26) श्री दिग० जैन मंदिर, खिरकिट (म०प्र०) | (62) श्री दिग० जैन मंदिर, पठारी (म०प्र०) |
| (27) श्री दिग० जैन मंदिर, गुढ़ा (उ०प्र०) | (63) श्री दिग० जैन मंदिर, पठा (म०प्र०) |
| (28) श्री दिग० जैन मंदिर, गुरवारा (उ०प्र०) | (64) श्री दिग० जैन मंदिर, पड़ा (म०प्र०) |
| (29) श्री दिग० जैन मंदिर, गोरमी (म०प्र०) | (65) श्री दिग० जैन अतिशय क्षेत्र, पटनागंज (म०प्र०) |
| (30) श्री दिग० जैन मंदिर, गौना (उ०प्र०) | (66) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, पण्डलपुर (म०प्र०) |
| (31) श्री दिग० जैन मंदिर, स्टेशन का गंजबासोदा (म०प्र०) | (67) श्री दिग० जैन मंदिर, परसोन (म०प्र०) |
| (32) श्री दिग० जैन मंदिर, चन्देरी (म०प्र०) | (68) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, पाटन (म०प्र०) |
| (33) श्री दिग० जैन मंदिर, चांदपुर (उ०प्र०) | (69) श्री दिग० जैन मंदिर, पारोन (म०प्र०) |
| (34) श्री दिग० जैन मंदिर, चिगलौआ (म०प्र०) | (70) श्री दिग० जैन मंदिर, पारोल (म०प्र०) |
| (35) श्री दिग० जैन मंदिर, छोटी मुहारी (म०प्र०) | (71) श्री दिग० जैन मंदिर, पाली (म०प्र०) |
| (36) श्री दिग० जैन मंदिर, आधारताल जबलपुर (म०प्र०) | (72) श्री दिग० जैन मंदिर, पिड़ावां (राज०) |
| (37) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, हनुमानताल जबलपुर (म०प्र०) | (73) श्री दिग० जैन मंदिर, खण्डपुरा, पिड़ावा (राज०) |
| | (74) श्री दिग० जैन मंदिर, रामपुरा, पिड़ावा (राज०) |

घण्टुलिपि प्राप्ति स्थलों की अकादादि क्रम से अनुक्रमणिका

- | | |
|--|--|
| (75) श्री दिग० जैन मंदिर, पीथरा (म०प्र०) | (113) श्री दिग० जैन तारण तारण कैत्यालय, मिर्जापुर (उ०प्र०) |
| (76) श्री दिग० जैन मंदिर, पुरवाल्यान (उ०प्र०) | (114) श्री दिग० जैन मंदिर प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) |
| (77) भाण्डारकार रिस्सर्च इन्स्टीट्यूट, पूना (महा०) | (115) श्री सुमेरूचंद जैन शास्त्र भण्डार, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) |
| (78) श्री दिग० जैन चन्द्रप्रभ बड़ा मंदिर, फिरोजाबाद (उ०प्र०) | (116) श्री चन्द्रप्रभ दिग० जैन मंदिर, भूलेश्वर मुम्बई (महा०) |
| (79) पंश्याम सुन्दर लाल शास्त्री ग्रन्थ भण्डार, फिरोजाबाद (उ०प्र०) | (117) श्री दिग० जैन मंदिर, मुरारिया (म०प्र०) |
| (80) श्री दिग० जैन मंदिर, बइसूमा (उ०प्र०) | (118) श्री दिग० जैन मंदिर, मुहम्मदगढ़ (म०प्र०) |
| (81) श्री दिग० जैन मंदिर, बयरा (उ०प्र०) | (119) श्री दिग० जैन मंदिर, मुहारीकलौ (उ०प्र०) |
| (82) श्री दिग० जैन मंदिर, बटयावदा (म०प्र०) | (120) श्री दिग० जैन मंदिर, मुहासा (म०प्र०) |
| (83) श्री दिग० जैन मंदिर, बबीना (उ०प्र०) | (121) श्री दिग० जैन मंदिर, मृगावली (म०प्र०) |
| (84) श्री दिग० जैन मंदिर, बन्ट (उ०प्र०) | (122) श्री दिग० जैन मंदिर, रजवांस (म०प्र०) |
| (85) श्री दिग० जैन मंदिर, बरोदिया (म०प्र०) | (123) श्री दिग० जैन मंदिर, रहली (म०प्र०) |
| (86) श्री दिग० जैन मंदिर, बरोदा (म०प्र०) | (124) श्री दिग० जैन मंदिर, राजपुर (म०प्र०) |
| (87) श्री दिग० जैन मंदिर, बरकोटी (म०प्र०) | (125) श्री दिग० जैन मंदिर, राजपुरा (म०प्र०) |
| (88) श्री दिग० जैन मंदिर, बसारी (म०प्र०) | (126) श्री दिग० जैन मंदिर, राजाखेड़ा (राज०) |
| (89) विश्वविद्यालय पुस्तकालय, बर्लिन (विदेश) | (127) श्री दिग० जैन मंदिर, रामपुर (उ०प्र०) |
| (90) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, बानपुर (उ०प्र०) | (128) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, रामगंजमण्डी (राज०) |
| (91) श्री दिग० जैन मंदिर, बांसी (उ०प्र०) | (129) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, रायसेन (म०प्र०) |
| (92) श्री दिग० जैन मंदिर, बिल्ला (उ०प्र०) | (130) श्री दिग० जैन मंदिर, रुरावन (म०प्र०) |
| (93) डॉ० दरबारीलाल कोठिया ग्रन्थ भण्डार, बीना (म०प्र०) | (131) श्री दिग० जैन मंदिर, लड़वारी (उ०प्र०) |
| (94) श्री दिग० जैन आदिनाथ मंदिर, बून्दी (राज०) | (132) श्री दिग० जैन मंदिर, लार (म०प्र०) |
| (95) श्री दिग० जैन मंदिर, बेलखेड़ा (म०प्र०) | (133) श्री दिग० जैन मंदिर, वमराना (उ०प्र०) |
| (96) श्री दिग० जैन मंदिर, बेड़िया (म०प्र०) | (134) श्री दिग० जैन मंदिर, सनाई (म०प्र०) |
| (96) श्री दिग० जैन मंदिर, भदौरा (म०प्र०) | (135) श्री दिग० जैन मंदिर, समसपुर (महा०) |
| (97) श्री दिग० जैन शातिनाथ मंदिर, भवानीमण्डी (राज०) | (136) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, सहजपुर (म०प्र०) |
| (98) श्री दिग० जैन बीसपथी बड़ा मंदिर, भानपुरा (म०प्र०) | (137) श्री पं० दामोदर शास्त्री शास्त्र भण्डार, सागर (म०प्र०) |
| (99) श्री दिग० जैन बघेरवाल मंदिर, भानपुरा (म०प्र०) | (138) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, सारोला (राज०) |
| (100) श्री हीरालाल जैन, भावनगर (गुज०) | (139) श्री दिग० जैन मंदिर, सियरमऊ (म०प्र०) |
| (101) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, भुसावल (महा०) | (140) श्री दिग० जैन मंदिर, सिरनोटा (म०प्र०) |
| (102) श्री दिग० जैन मंदिर, भोकलपुर (म०प्र०) | (141) श्री दिग० जैन छोटा मंदिर, सिरौंज (म०प्र०) |
| (103) श्री दिग० जैन सिंघई मंदिर, मड़ावरा (म०प्र०) | (142) श्री दिग० जैन मंदिर, सिलवानी (म०प्र०) |
| (104) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, मड़ावरा (म०प्र०) | (143) सिंघई परिवार, सिलवानी (म०प्र०) |
| (105) श्री दिग० जैन मंदिर, नीचेपुरा, मड़ावरा (म०प्र०) | (144) श्री दिग० जैन मंदिर, सिबनीमालवा (म०प्र०) |
| (106) श्री दिग० जैन मंदिर, मन्सूरपुर (उ०प्र०) | (145) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, सुरखी (म०प्र०) |
| (107) श्री दिग० जैन मंदिर, महतपुर (म०प्र०) | (146) श्री दिग० जैन मंदिर, सुल्तानगंज (म०प्र०) |
| (108) श्री दिग० जैन मंदिर, महाना (म०प्र०) | (147) श्री दिग० जैन मंदिर, सेहराई (म०प्र०) |
| (109) श्री दिग० जैन छोटा मंदिर, महाराजपुर (म०प्र०) | (148) श्री दिग० जैन मंदिर, सोनीपत (हरि०) |
| (110) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, माड़ा (महा०) | (149) श्री दिग० जैन श्राविकाश्रम, सोलापुर (महा०) |
| (111) शिवलाल रामचन्द्र वाचनालय, माड़ा (महा०) | (150) श्री दिग० जैन मंदिर, हैदरगढ़ (म०प्र०) |
| (112) श्री दिग० जैन बड़ा मंदिर, मालथीन (म०प्र०) | |

अनेकान्त भवन ग्रन्थरत्नावली - १,२ पर विभिन्न मनीषियों ने अपनी सारगर्भित समीक्षाएँ प्रस्तुत कर न केवल रत्नावली की भुरि-भुरि प्रशंसा की अपितु अपने सहयोगात्मक स्वर से संस्थान के उत्कर्ष हेतु मंगल भावनाएँ व्यक्त की हैं। इस परिशिष्ट में कतिपय समीक्षकारों की नामावली प्रस्तुत की जा रही है।

1. पाण्डुलिपिविज्ञ- पं. कुन्दनलाल जैन, विश्वासनगर, दिल्ली
2. वरिष्ठ विद्वान् - डॉ० महेन्द्रसागर प्रचण्डिया, अलीगढ़
3. डॉ० डी० सी० जैन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
4. डॉ० उदयचन्द्र जैन, सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
5. डॉ० फूलचन्द्र जैन 'प्रेमी', सम्पूर्णानन्द विश्व०, वाराणसी
6. डॉ० महेन्द्रराजा जैन, इलाहाबाद (उ०प्र०)
7. डॉ० उदयचन्द्र जैन, सर्वदर्शनाचार्य, वाराणसी
8. डॉ० कमलेशकुमार जैन, भोगीलाल लहेरचन्द्र इन्स. नईदिल्ली
9. डॉ० भागचन्द्र जैन 'भागन्दु', जैन विद्या अनुसंधान केन्द्र, दमोह
10. डॉ० महेन्द्रकुमार जैन 'मनुज' कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, इन्दौर
11. डॉ० नीलम जैन, सम्पा०-जैन महिलादर्श, गाजियाबाद,
12. डॉ० हरिवल्लभ माहेश्वरी, संयो० भा०सां०निधि, ग्वालियर
13. डॉ० श्रीचन्द्र जैन, कृष्णानगर, रेवाडी, (हरि०)
14. डॉ० सुदर्शनलाल जैन, बी०एच०यू०, वाराणसी
15. डॉ० अभयप्रकाश जैन, ग्वालियर,
16. आचार्य-डॉ० राजकुमार जैन, दिल्ली
17. डॉ० ओ०पी० अग्रवाल, निर्देशक - इन्टेक, लखनऊ,
18. डॉ० सुधांशु जैन, लखनऊ,
19. डॉ० राजेन्द्र कुमार बंसल, अमलाई,
20. डॉ० एम० डी० बसंतराज, मैसूर
21. डॉ० आराधना जैन, गंजबासोदा,
22. डॉ० सूरजमुखी जैन, मुजफ्फरनगर,
23. डॉ० धिरंजीलाल बगड़ा, सम्पादक- दिशाबोध, कोलकाता
24. डॉ० नलिन के० शास्त्री, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
25. विद्यावाचस्पति डॉ० रंजनसूरिदेव, पटना
26. डॉ० ऋषभचन्द्र जैन, वैशाली,
27. डॉ० रमा जैन, छतरपुर,
28. संहितासूरि - पं. नाथूलाल जैन, प्रतिष्ठाचार्य, इन्दौर
29. डॉ० पी० सी० जैन, सागर
30. डॉ० लक्ष्मीचन्द्र जैन, जबलपुर
31. डॉ० जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल, वृन्दावन शोध संस्थान, बेलनगंज, आगरा
32. डॉ० जयन्द्र सोनी विश्वविद्यालय, जर्मनी,
33. पं० दयाचन्द्र शास्त्री, प्राचार्य-गणेशवर्णी विद्या०, सागर
34. पं० शिवधरन लाल जैन, मैनपुरी
35. पं० भागचन्द्र जैन 'इन्दु' गुलगंज, (छतरपुर)

36. पं० मल्लिनाथ शास्त्री, मद्रास
37. पं० अजितप्रसाद जैन, प्रधानसम्पादक-शोधादर्श, लखनऊ
38. पं० सुमेरचन्द्र जैन, सम्पादक-वर्णी प्रवचन, मुजफ्फरनगर,
39. पं० ब्र० राकेश जैन, कुण्डलपुर,
40. पं० बाबूलाल जैन 'फणीश' शास्त्री, ऊन (बड़वानी)
41. पं० रतिकान्त शहा, कोरेगोव (महा०)
42. पं० लालचन्द्र जैन 'राकेश' गंजबासोदा
43. पं० अनूपचन्द्र 'न्यायतीर्थ', मंत्री, दिगा० जैन मंदिर महासंघ जयपुर
44. श्री अजयकुमार जैन, मंत्री, देवकुमार जैन प्राच्यशोधसंस्थान, आरा,
45. पं० गुलाबचन्द्र 'आदित्य', भोपाल
46. पं० नीरज जैन, सतना
47. पं० इन्दरचन्द्र पाटनी, सरस्वतीभण्डार, सोनीजीकी नसिया, अजमेर
48. पं० अभयकुमार शास्त्री, बीना,
49. पं० नाथूराम डोंगरीय, इन्दौर,
50. पं० रतनलाल शास्त्री, इन्दौर
51. पं० मूलचन्द्र लुहाडिया, मदनगंज, किशनगढ़,
52. पं० सिंहचन्द्र शास्त्री, मद्रास,



सागर जनपद बीना नगरी, अनेकान्त ज्ञान मंदिर शुभ नाम, शोध संस्थान भी एक अंग है, अनेकान्त भवन सुन्दर सा धाम, हुई प्रकाशित अनेकान्त भवन से, ग्रंथ रत्नावली भाग एक और दोय मुख्य पृष्ठ पर सुन्दर चित्रण, पाण्डुलिपि पृष्ठ अनुपम मनमोह।।1।।

बायें पृष्ठ पर चित्रद्वय देखो, खड्गासन श्रीजिनवरबिम्ब, सुसज्जित श्री जिनवाणी भवन लख, होता प्रमुदित भविजन मन। सम्पादकीय पद मन कहता है, क्यों न पाया मैं यह संग, मिलती गर मों की यह छाया, मन में उठती हर्ष तरंग।।2।।

छब्बीस सौ इक्यानवे ग्रंथ नाम पद, दो भागों का जानो सार। सप्त तत्त्ववत् सुनो सुधीजन, सप्तशीर्षक ग्रंथ भण्डार। जिनवाणी शिशु संदीप सरल ने दिया जगत जन अनुपम उपहार। आद्योपान्त जब किया दृष्टिपात तो, नामावली पद मन हर्ष अपार।।3।।

अन्तिम भावना / अन्तिम नमन

शत-शत वंदन, शत अभिनंदन, ज्ञानतीर्थ की भूमि नमन्। युगों-युगों तक अमर रहे यह, जिनवाणी शिशु का सुन्दर भवन। हम सब भी सहभागी बनकर, धन्य करे निज मन, वद, तन।। "दीवान पवन का प्रमुदित मन से अष्टम नमन, अष्टम नमन।।4।।

पं० पवन कुमार प्रतिष्ठाचार्य, मुरैना

